

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**  
 प्राधिकार से प्रकाशित  
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 21, 1994 (वैशाख 31, 1916)  
 No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21, 1994 (VAISAKHA 31, 1916)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।  
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

सेना शाखा

( मु० एम० जी० शाखा )

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 1994

कार्यालय महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा/

डी० जी०—3डी०

सं० 419, दिनांक 7 अप्रैल, 1994—राष्ट्रपति, महोदय परिवीक्षा अवधि समाप्त करते हैं और दिनांक 20 जनवरी, 1992 से श्री श्याम सुन्दर लाल पाराशर को सशस्त्र सेना महाविद्यालय, पुणे में मूल रूप से स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार नियोजन में प्रवक्ता (नान-मेडिकल) (श्रेणी "क" राजपत्रित) नियुक्त करते हैं ।

अशोक चतुर्वेदी  
 कर्नल

निदेशक ए० एफ० एम० एस०  
 (स्वास्थ्य)

सं० 420, दिनांक 7 अप्रैल, 1994—सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 1968 के नियम 10(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित सिविलियन स्टाफ अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिए गए तारीख से 30 अप्रैल, 1994 तक का नियमित पदधारी के मिलने में से जो भी हले हो उस समय तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में चयन श्रेणी अधिकारी (वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी) के रूप में नियुक्त किया तथा उन्हें क्यू० एम० जी० शाखा में तैनात किया गया है ।

(क) श्री एस० थंकप्यन—28 फरवरी, 1994 ।

(ख) श्री वी० के० मिश्रा—11 मार्च, 1994 ।

(ग) श्रीमती रेखा चोपड़ा—23 फरवरी, 1994

2. ये नियुक्तियां पूर्ण रूप से अन्न: कालीन व्यवस्था के आधार पर है और इन्हें प्रशासनिक कारगोबश या नियमित

पदधारी के फलस्वरूप बिना नोटिस दिये रद्द की जा सकती है।

श्री मंगेश नाथ शर्मा सहायक को 23 फरवरी, 1994 से प्रगले प्रादेशों तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (ग्रुप "बी" राजपत्रित) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति सं० 3/78 (एम० जी० बंसल एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) की टी० ए० सं० 356/85 पर दिनांक 20 नवम्बर, 1992 के केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (पी० वी०) के निर्णय और व्याया-लयों में लम्बित पड़े सीधी भर्ती वाले तथा पदोन्नत सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों के परस्पर बरिष्ठता सम्बन्धी अन्य सम्बद्ध मामलों को लागू करने में आवश्यक संशोधनों के अध्वनी होगी।

रेनू के० राजू  
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

वायु सेना मुख्यालय

सं० 421, दिनांक 15 अप्रैल, 1994—  
सशस्त्र सेना मुख्यालय आणुलिपिक के श्री पी० आर० पठानिया, व्यक्तिगत सहायक को निजी सचिव अस्थाई पदोन्नति के आधार पर 1 जनवरी, 1994 (पूर्वा०) से 30 जून, 1994 (अप०) तक अथवा चयन सूची से अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, इसमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

2. इसकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई आधार पर है और इसको प्रशासनिक कारणों से बिना नोटिस के प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

रेनू के० राजू  
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(सेना विभाग)

सं० 422, दिनांक 8 अप्रैल, 1994—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

विषय सूची

राजपूत रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

मोहम्मद अरशाद खान (जे० सी०-478159 एल)—  
20 फरवरी, 1993।

टी० सी० जैन  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं० 423, दिनांक 22 अप्रैल, 1994—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी को पत्रका करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेंट (अब कैप्टन) ए० बहादुर (एम० आर०-  
05730पी)—ए० एम० सी० 25 दिसम्बर, 1987।

लेफ्टिनेंट (अब कैप्टन) टी० आर० सोहन (एम०  
आर०-05758 पी०) ए० एम० सी०—25 दिसम्बर,  
1987।

एस० के० अदाबल  
ए० वी० एम०

(रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग)

सं० 424, दिनांक 24 फरवरी, 1994—राष्ट्रपति,  
निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

1. गुणता आशवासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक)  
औधरोड़, पुणे के नियंत्रक डा० एस० एस० राठी, निदेशक  
ग्रेड-II 13 जनवरी, 1994 (पूर्वा०) से उसी स्थान पर  
स्थानापन्न निदेशक ग्रेड-1 होंगे।

रवीन्द्र कुमार ओझा  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं० 425, दिनांक 22 अप्रैल, 1994—राष्ट्रपति, निम्न-  
लिखित पदोन्नति करते हैं:—

ब्रिग० से मेजर जनरल

आर० सी० कोछड़ (एम० आर० 2079) ए० एस०  
सी०/पी० सी०—4 दिसम्बर, 1993 (ज्येष्ठता उनके  
वेतन व पैनशन पर प्रभाव डाले बिना—1 सितम्बर,  
1993 से।

कर्नल से ब्रिग०

ए० के० एस० सरकार (एम० आर०-1791)  
ए० एम० सी०/पी० सी०—22 जून, 1993 (ज्येष्ठता)  
उनके वेतन व पैनशन पर प्रभाव डाले बिना—1 जनवरी,  
1993 से।

पी० सी० यादव (एम० आर०-2111), ए० एम०  
सी०/पी० सी०—9 जुलाई, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व  
पैनशन पर प्रभाव डाले बिना—1 जनवरी 1993 से।

सी० एच० गिदवानी (एम० आर०-1968), ए० एम० सी०/पी० सी०-30 सितम्बर, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 1 फरवरी, 1993 से) ।

ए० एस० नारायण स्वामी (एम० आर०-1862), ए० एम० सी०/पी० सी०-11 अक्टूबर, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 1 फरवरी, 1993 से) ।

एस० सम्बन्धम (एम० आर०-1926), ए० एम० सी०/पी० सी०-12 जून, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 1 मार्च, 1993 से) ।

पी० एस० टूर (एम० आर०-1876), ए० एम० सी०/पी० सी०-30 मई, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 1 मार्च, 1993 से) ।

इस अधिकारी से सम्बंधित 21 अगस्त, 1993 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना रद्द समझा जाए ।

के० एस० भटनागर (एम० आर०-1909), ए० एम० सी०/पी० सी०-30 सितम्बर, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 1 मई, 1993 से) ।

ए० जी० गोकुल (एम० आर०-1971), ए० एम० सी०/पी० सी०-5 अक्टूबर, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 28 जून, 1993 से) ।

ए० बी० बी० राव (एम० आर०-2297), ए० एम० सी०/पी० सी०-22 सितम्बर, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 28 जून, 1993 से) ।

एन० आर० राव (एम० आर०-3079), ए० एम० सी०/पी० सी०-29 अक्टूबर, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 4 अगस्त, 1993 से) ।

एम० सिंह (एम० आर०-1974), ए० एम० सी०/पी० सी०-1 नवम्बर, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 12 अगस्त, 1993 से) ।

ए० के० सनयाल (एम० आर०-3091), ए० एम० सी०/पी० सी०-5 दिसम्बर, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 18 अगस्त, 1993 से) ।

के० गोपाल राव (एम० आर०-1860), ए० एम० सी०/पी० सी०-28 अगस्त, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 3 जून, 1993 से) ।

एस० एस० चन्द्रा (एम० आर०-1640), ए० एम० सी०/पी० सी०-19 सितम्बर, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 31 जुलाई, 1993 से) ।

सर्जन रियर एडमिरल से सर्जन आईस एडमिरल

जी० पी० पांडा (एम० आर०-1461) (75068) ए० एम० सी०/पी० सी०-30 सितम्बर, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 1 जुलाई, 1993 से) ।

एयर कप्तान से ए० बी० एम०

पी० सी० शारदा (5752), (एम० आर०-1472) ए० एम० सी०/पी० सी०-20 जनवरी, 1992 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 21 अगस्त, 1991 से) ।

इस अधिकारी से सम्बंधित राजपत्र अधिसूचना जो दिनांक 10 अक्टूबर, 1992 को प्रकाशित हुआ, रद्द समझा जाए ।

ग्रुप कैप्टन से एयर कप्तान

के० के० मिश्रा (एम० आर०-1898), ए० एम० सी०/पी० सी०-19 अप्रैल, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—) से ।

एन० बी० अमरेश (एम० आर०-1863), (12464) ए० एम० सी०/पी० सी०-12 जुलाई, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 1 फरवरी, 1993 से) ।

एस० सी० लूथरा (एम० आर०-1902) (12899) ए० एम० सी०/पी० सी०-27 सितम्बर, 1993 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 1 मई, 1993 से) ।

एस० के० लहिरी

ए० बी० एम०

उप म० नि० स० से० चि० से० (पी०)

-----

कैप्टन से मेजर के पद पर

दिवेक श्रीवास्तव (एम० आर०-105716-एच); ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।

(श्रीमति) एस० कश्यप (एम० आर०-5718 एम); ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।

- ए० के० त्यागी (एम० आर०-05720-एल), ए० एम० सी०-01 दिसम्बर, 1993 ।
- आई० वी० सिंह (एम० आर०-5724), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- आर० के० सिंह (एम० आर०-5726-एम), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- आर० भसीन (एम० आर०-05728), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- ए० बहादुर (एम० आर०-05730 पी०), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- ए० गलगनी (एम० आर०-05734-एन), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- प्रवीर रंजन (एम० आर० 05740-वाई) ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- पी० सी० राव (एम० आर०-5742-के), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- एस० सिंह (एम० आर०-05744-पी), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- आर० प्रकाश (एम० आर०-5746-ए), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- एस० सूद (एम० आर०-5748एल), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- बी० भटना (एम० आर०-05750-एन), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- अजय मलिक (एम० आर०-05752-एन), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- टी० आर० जोहन (एम० आर०-5758-पी), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- एस० के० कांजिलाल (एम० आर०-5796-एल), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- एस० एम० गर्ग (एम० आर०-05802-एन), ए० एम० सी०-30 जुलाई, 1988 ।
- सर्जन लेफिंट से सर्जन लेफिटेन्ट कमांडर  
ए० ए० करमरेकर (एम० आर०-05736-डब्ल्यू) (75423-आर) ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- सुबोध चन्द्र कान्त खेर (एम० आर०-05738-एफ), (75425), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- जी० नरला (एम० आर०-57567-के) (75427); ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- डी० गोबले (एम० आर०-57560) (75426), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- किशले राय (एम० आर०-06448-डब्ल्यू), (75399-के) —21 जुलाई, 1992 । ए० एम० सी०, वेतन तथा पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 21 सितम्बर, 1991 ।
- परबिन्द्र सिंह अहलुवालिया (एम० आर०-6484 एफ), (75444 एन), 22 जनवरी 1993 । ए० एम० सी० वेतन तथा पदोन्नति के लिए वरिष्ठता—10 नवम्बर, 1991 ।
- (नैप्टन) (फ्लाइंट लेफिंट से स्कवा० लीडर (मेजर)  
हेमन्त मदन (एम० आर०-5890-पी) (19347), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- ए० कुमार (एम० आर०-5892-ए), (19349), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- बी० के० गुप्ता (एम० आर०-05898) (19355), ए० एम० सी०-1 दिसम्बर, 1993 ।
- श्रीमती विनीता बालेरीयाल गोमस (एम० आर०-06436 एफ) (18180)—21 जुलाई, 1992 । ए० एम० सी०, वेतन तथा पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 16 अक्टूबर 1989 ।
- आर० एन० पाण्डे (एम० आर०-06440-के) (18387), 21 जुलाई, 1992, ए० एम० सी०, वेतन तथा पदोन्नति के लिये वरिष्ठता—24 नवम्बर, 1990 ।
- के० के० पुनीयाला (एम० आर०-06444-ए), 21 जुलाई, 1992, ए० एम० सी० वेतन तथा पदोन्नति के लिए वरिष्ठता—30 अगस्त, 1991 ।
- के० एस० राजू (एम० आर०-6488-के) (19343), 22 जनवरी, 1993, ए० एम० सी०, वेतन तथा पदोन्नति के लिए वरिष्ठता—9 दिसम्बर, 1992 ।
- मंजय शर्मा (एम० आर०-06496-डब्ल्यू), ए० एम० सी०-1 जून, 1993
- एस० के० अबाबल  
ए० बी० एम०

(केना शाखा)

सं० 426, दिनांक 28 अप्रैल, 1994—को राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले० कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में

आर० के० जैन (आई०सी०—24376 ए०), इन्फैन्ट्री—1 फरवरी, 1993 ।

एस० के० एस० नेगी (आई०सी०—24382 एन०)—इन्फैन्ट्री—1 फरवरी 1993 ।

राकेश मोहन (आई०सी०—24388 पी०), इन्फैन्ट्री—1 फरवरी, 1993 ।

एस० सी० पन्चट (आई०सी०—24389 एक्स०) इन्जीनियर्स—1 मार्च, 1993 परन्तु वरिष्ठता 1 फरवरी 1993 से वेतन व पेंशन पर लागू नहीं ।

टी० के० एस० मेहदीरत्ता (आई०सी०—24300 एम०), इन्फैन्ट्री—01 फरवरी, 1993 ।

बी० एस० सिबल (आई०सी०—24400 एल०), इन्फैन्ट्री—01 फरवरी, 1993 ।

ए० के० दुब्रे (आई०सी०—24409 ए०), ए० सी०—01 फरवरी, 1993 ।

बी० के० पहवा (आई०सी०—24457 वाई०) इन्फैन्ट्री 01 फरवरी, 1993 ।

जे० एम० सिंह (आई०सी०—24424 जी०), ए० सी० 01 फरवरी, 1993 ।

जसवीर सिंह (आई०सी०—24433 डब्ल्यू०)—मिग्स—01 फरवरी, 1993 ।

सुमन्त मेहता (आई०सी०—24442 एक्स०) आर्टिलरी—01 फरवरी, 1993 ।

धन अधिकारी (आई०सी०—29162 एन०) इन्फैन्ट्री 01 फरवरी, 1993 ।

एस० ए० कुनजड़ (आई०सी०—29164 वाई०)—इन्फैन्ट्री—01 फरवरी, 1993 ।

एम० एस० मुखर्जी (आई०सी०—29165 एफ०) इन्फैन्ट्री—01 फरवरी, 1993 ।

के० डी० शर्मा (आई०सी०—29172 एक्स०) इन्फैन्ट्री 01 फरवरी, 1993 ।

वाई० एन० मिश्रा (आई०सी०—29176 एल०), सिग्स—13 फरवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 फरवरी, 1993 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं ।

पी० ए० करियप्पा—(आई०सी०—29185 पी०), ए० एस० सी०—01 फरवरी, 1993 ।

बी० जे० सिंह (आई०सी०—29186 एक्स०), ए० सी० 01 फरवरी, 1993 ।

जगदीश चन्द्र (आई०सी०—29187 ए०), इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी, 1993 ।

मुखवीर सिंह (आई०सी०—29191 एच०) ए० ओ० सी० 14 फरवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 फरवरी, 1993 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं ।

आर० पी० सिंह (आई०सी०—29194 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री 01 फरवरी, 1993 ।

एम० एम० दत्ता (आई०सी०—29201 एफ०), आर्टि० 01 फरवरी, 1993 ।

डी० पी० सिंह (आई०सी०—29202 के०) इन्फैन्ट्री—01 फरवरी, 1993 ।

के० एम० रामपुरिया (आई०सी०—29205 एक्स०) इन्जीनियर्स—22 मार्च, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 फरवरी, 1993 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं ।

ए० के० मदान (आई०सी०—29215 एफ०) इन्जीनियर्स 15 मार्च, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 फरवरी, 1993 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं ।

गुरदेव सिंह (आई०सी०—29218 पी०) ए० एस० सी० 01 फरवरी, 1993 ।

एम० के० बहज (आई०सी०—29220 एम०) इन्फैन्ट्री 01 फरवरी, 1993 ।

पी० के० ओबराय (आई०सी०—29221 पी०) इन्जीनियर्स—28 मई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 फरवरी, 1993 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं ।

आर० एस० वर्मा (आई०सी०—24274 के०) इन्फैन्ट्री 01 फरवरी, 1993 ।

एच० बी० मतकोटिया (आई०सी०—24278 ए०), ए० सी०—01 फरवरी, 1993 ।

ए० एम० जज (आई०सी०—24279 एच०) आरटी० 01 फरवरी, 1993 ।

के० एस० बृधवार (आई०सी०—24282 एच०) आरटी० 01 फरवरी, 1993 ।

आर० के० लूम्बा (आई०सी०—24283 एल०), ए० सी०—01 फरवरी, 1993 ।

पी० एन० चम्पन (आई०सी०—24284 एन०) आरटी० 01 फरवरी, 1993 ।

बिरेन्द्र सिंह (आई० सी०-24285 डब्ल्यू०) आरटी०—  
01 फरवरी, 1993।

बलबीर सिंह (आई० सी०-24287 एफ०) आरटी०—  
01 फरवरी, 1993।

जी० अथमानाथन (आई० सी०-24288 के), इन्फैंट्री  
01 फरवरी, 1993।

आर० के० सेमल (आई० सी०-24290 एफ०),  
इन्फैंट्री—01 फरवरी, 1993।

पी० सी० बक्शी (आई० सी०-24295 ए०), आरटी०  
01 फरवरी, 1993।

रवि शर्मा (आई० सी०-24302 एल०), इन्फैंट्री—  
01 फरवरी, 1993।

जे० एस० सन्धू (आई० सी०-24307 के), इन्फैंट्री  
01 फरवरी, 1993।

जे० जे० समिथ (आई० सी०-24311 एस) इन्फैंट्री  
01 फरवरी, 1993।

एस० के० मोहला (आई० सी०-24312 पी०),  
सिगनल—01 फरवरी, 1993।

जी० रावर (आई० पी०-24314 ए), इन्फैंट्री—  
01 फरवरी, 1993।

सी० पी० जेम्स (आई० सी०-24317 एन०) इन्फैंट्री  
01 फरवरी, 1993।

एच० एस० चिन्हा (आई० सी०-24319 वाई०),  
इन्फैंट्री—01 फरवरी, 1993।

डी० एस० शेखावत (आई० सी०-24322 वाई०),  
इन्फैंट्री—01 फरवरी, 1993।

गुरबख्श सिंह (आई० सी०-24327 एक्स०) इन्फैंट्री  
01 फरवरी, 1993।

एस० बी० नाफव (आई० सी०-24322 एच०) आरटी०  
01 फरवरी, 1993।

आर० के० शर्मा (आई० सी०-24333 एल०) इन्फैंट्री  
01 फरवरी, 1993।

एस० पी० एस० ग्रेवाल (आई० सी०-24334 एन)  
आरटी०—01 फरवरी, 1993।

जे० दशमाना (आई० सी०-24335 डब्ल्यू०) आरटी०—  
01 फरवरी, 1993।

बी० डी० देशमुख (आई० सी०-24342 एम०)  
इन्फैंट्री—01 फरवरी, 1993।

एन० के० पिल्ले (आई० सी०-24344 एक्स०)  
इन्फैंट्री—01 फरवरी, 1993।

आर० एल० सिंह (आई० सी०-24347 एल०) इन्फैंट्री  
01 फरवरी, 1993।

आर० एल० दिओपा (आई० सी०-24349 डब्ल्यू०)  
इन्फैंट्री—01 फरवरी, 1993।

एस० आर० सावन्त (आई० सी०-24368 एफ०)  
इन्फैंट्री—01 फरवरी, 1993।

सुनील अरोड़ा (आई० सी०-24371 एफ०) इन्फैंट्री  
01 फरवरी, 1993।

के० बी० एम० नायर (आई० सी०-19419 ए०)  
इन्फैंट्री—01 जनवरी, 1992।

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)

एस० एस० निशान (आई० सी०-20509 एन०)  
इंजीनियर—28 दिसम्बर, 1990।

एस० चक्रवर्ती (एस० एल०-02522) एस० एल० (ए०  
पी० टी० सी०)—01 जनवरी, 1992।

उत्तम सिंह (एस० एल०-01603) एस० एल० (क्यू०  
एम०)—01 मई, 1991।

पी० के० भट्टाचार्जी (आई० सी०-23605 एन०)  
इंजीनियर्स—01 जुलाई, 1988।

एल० एम० त्रिपाठी (आई० सी०-29253 एक्स०) ए०  
ई० सी०—19 मार्च, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 मार्च,  
1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

बी० एस० गोदारा (आई० सी०-24639 एन०) जे०  
ए० सी०—22 अक्टूबर, 1933 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल  
1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

बी० साहनी (आई० सी०-27024 एम०), ए० एस०  
सी०—01 फरवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1992  
से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

एच० बी० एस० पन्नु (आई० सी०-32505 के) ए०  
सी०—01 जुलाई, 1992।

वाई० आर० कौशल (आई० सी०-32563 एल०),  
ई० एम० ई०—12 फरवरी, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01  
जुलाई 1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

आर० पी० वर्मा (आई० सी०-32806 एन०), ए०  
ओ० सी०—15 अक्टूबर, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 नवम्बर  
1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

ए० एस० मुलतानी (आई० सी०-27207 के) ई०  
एम० ई०—28 मई, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 दिसम्बर,  
1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

बी० के० पाण्डे (आई० सी०-27249 डब्ल्यू०) ई०  
एम० आई०—12 जून, 1993 परन्तु वरिष्ठता 01 दिसम्बर  
1992 से वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

अनिल कौल (आई० सी०-27373 एम०), ए० सी०  
01 दिसम्बर, 1992।

एम० एस० धालीवाल (आई० सी०-27331 एल०),  
इन्फैन्ट्री—01 दिसम्बर, 1992।

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

सज्जन सिंह (आई० सी०-29622 के), ब्राइटिलरी—  
12 फरवरी, 1991।

एस० एस० पाथ (आई० सी०-29628 एल०), इन्फैन्ट्री  
12 फरवरी, 1991।

एम० आर० एस० सरायो (आई० सी०-29634 आई०)  
इन्फैन्ट्री—12 फरवरी, 1991।

एस० सी० मन्थराल (आई० सी०-29647 डब्ल्यू०)  
ए० एस० सी०—12 फरवरी, 1991।

ए० के० सहगल (आई० सी०-29649 एफ०), ए०  
ओ० सी०—12 फरवरी, 1991।

ए० के० एम० सिंह (आई० सी०-29653 के), ब्राइटिलरी  
12 फरवरी, 1991।

एस० के० महापात्रा (आई० सी०-29658 एच०) ब्राइटिलरी—  
12 फरवरी, 1991।

टी० आर० शर्मा (आई० सी०-29664 डब्ल्यू०)  
इन्फैन्ट्री—12 फरवरी, 1991।

एम० सी० पन्नी (आई० सी०-29666 एफ०), इन्फैन्ट्री  
12 फरवरी, 1991।

डी० एस० कौशल (आई० सी०-29671 पी०), आर्मी  
कोर—12 फरवरी, 1991।

आर० एल० बजाज (आई० सी०-29672 पी०)  
ई० एम० ई०—12 फरवरी, 1991।

एन० सी० वेदी (आई० सी०-29639 एक्स०), इन्फैन्ट्री  
12 अगस्त, 1991।

एम० एस० साही (आई० सी०-32072 एक्स०), आर्मी  
कोर—03 नवम्बर, 1991।

ओम प्रकाश (आई० सी०-29899 एच०), इन्फैन्ट्री  
12 नवम्बर, 1991।

आई० जे० मित्रा (आई० सी०-25352 एच०) ब्राइटिलरी—  
13 दिसम्बर, 1992।

पी० पदमाकरन (एस० एल०-01927 एन०), एस०  
(ए० पी० टी० सी०)—28 जून, 1993।

मनजीत सिंह,  
सी० एस० ओ०,  
उप सहायक सेना सचिव—8ए

(सेना विभाग)

सं० 427, दिनांक 22 अप्रैल, 1994—राष्ट्रपति, सहर्ष  
निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

2/लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

के० जे० सिंह (आई० सी०-41039) ब्राइटिलरी—  
24 दिसम्बर, 1984।

संजीव चोपड़ा (आई० सी०-41294) मेक/इन्फैन्ट्री—  
18 जून, 1985।

बी० के० रेप्सवाल (आई० सी०-42273) ए० एस०  
सी०—15 दिसम्बर, 1986

(परन्तु वेतन और भत्ते 29 दिसम्बर, 1986 से दिये  
जायें)।

राजीव पुरी (आई० सी०-42879) इन्फैन्ट्री, देविन्द्र  
सिंह (आई० सी०-42902) ए० सी०, एस० ए० बी० सिंह  
(आई० सी०-43004) इन्फैन्ट्री—के० के० श्रीवारतथा  
(आई० सी०-43097) ब्राइटिलरी—8 जून, 1987।

राजवीर बरार (आई० सी०-43248) ए० ओ० सी०,  
राजीव सोबे (आई० सी०-43440) ब्राइटिलरी, अमिल  
विश्वनोई (आई० सी०-43557) इन्फैन्ट्री—14 दिसम्बर,  
1987।

एम० के० यादव (आई० सी०-43372) ब्राइटिलरी—  
14 जून, 1988।

एम० डी०, सौजा (आई० सी०-43774) मेक इन्फैन्ट्री,  
मनजीत एच० आर० (आई० सी०-43876) ए० सी०—  
14 जून, 1988।

श्री राज सिंह (आई० सी०-43884) मेक इन्फैन्ट्री  
14 जून, 1988।

(परन्तु वेतन और भत्ते 4 दिसम्बर, 1988 से दिये  
जायें)।

अजय सिंह राठी (आई० सी०-43900) इंजीनियर—  
14 जून, 1988।

(परन्तु वेतन और भत्ते 26 जून, 1988 से दिये जायें)

श्री लाल एम० के० (आई० सी०-43901) ब्राइटिलरी—  
14 अप्रैल, 1989।

कबीर (आई० सी०-44113) इन्फैन्ट्री, संजय कुमार  
(आई० सी०-44412) इन्फैन्ट्री—20 दिसम्बर, 1988।

आकाशदीप भनोट (आई० सी०-44475) ए० सी, पॉल बस्टीन एम० (आई० सी०-44485) आर्टीलरी, मनोज यादव (आई० सी०-44496) इन्फैंटरी, संजय बॉस (आई० सी०-44505) इन्फैंटरी, अशोक कुमार शर्मा (आई० सी०-44508) ए० ओ० सी, कृष्ण कुमार सिंह (आई० सी० 44514) ए० एस० सी०, अशोक सिंह (आई० सी०-44527) इन्फैंटरी, माईकल जेम्स (आई० सी०-44529) ए० सी०, रघुनाथन नेयर (आई० सी०-44538) इन्फैंटरी, सीराज वर्मा (आई० सी०-44544) ए० सी, अनिल भार्गवा (आई० सी०-44548) सिगनल, राजेश कुमार (आई० सी०-44561) ई० एम० ई, आई० विष्वेक्षरन (आई० सी०-44568), सिगनल, श्री कृष्णा (आई० सी०-44583), इन्फैंटरी, मनुतोष पाण्डे (आई० सी०-44590) आर्टीलरी, देवेन्द्र कुमार त्यागी (आई० सी०-44591), ए० एस० सी०, रमेश कुमार (आई० सी०-44593), ए० एस० सी, विरेन्द्र कुमार (आई० सी०-44595) ए० एस० सी०, पी० पी० श्रीनिवास राघवन (आई० सी०-44600) मेक/इन्फैंटरी, शशी भूषण सिंह (आई० सी०-44602), आर्टीलरी, अनुराग दत्ता (आई० सी०-44624), ए० एस० सी०, कौशिक बनर्जी (आई० सी०-44631), आर्टीलरी, राजेश खुराना (आई० सी०-44633), इंजीनियरी, विमल कुमार शर्मा, (आई० सी०-44640) ए० एस० सी०, विरेन्द्र शर्मा (आई० सी०-44652) इन्फैंटरी, अलोक कुमार कौशिक (आई० सी०-44653) सिगनल, शमशेर सिंह अहलावत (आई० सी०-44658) ए० एस० सी०, अशिश रामदास (आई० सी०-44660) ए० सी, नवीन चन्द्रा जोशी (आई० सी०-44665) ए० सी०, प्राशुतोष कुमार तिवारी (आई० सी०-44667), ए० सी०, नवराज देव सिन्हा (आई० सी०-44672) मेक/इन्फैंटरी, संजय गुप्ता (आई० सी०-44675) इन्फैंटरी, अवदेश सिंह (आई० सी०-44686) इंजीनियर, दीपक जोशी (आई० सी०-44690) इन्फैंटरी, मनीष कुमार मोदगिल (आई० सी०-44691) इंजीनियर, मनीष सिंह ठावर (आई० सी०-44692) आर्टीलरी, मोहिन्द्र कुमार यादव (आई० सी०-44698), ए० एस० सी० रितुराज नरुका (आई० सी०-44702), आर्टीलरी, धोमस कुरुविला (आई० सी०-44703), इन्फैंटरी, कमलेश प्रसाद (आई० सी०-44706), आर्टीलरी, राजीव शर्मा (आई० सी०-44708), आर्टीलरी, पीयूष शर्मा (आई० सी०-44709), आर्टीलरी, बेंकट रेड्डी (आई० सी०-44718), ए० ओ० सी, कामेश कुमार (आई० सी०-44719), सिगनल, डी० सिंहल (आई० सी०-44724), आर्टीलरी, मनीष कुमार शर्मा (आई० सी०-44734), ए० एस० सी०, संजय मेनी (आई० सी० 44736), ए० सी०, रूपम रद्रा (आई० सी०-44740), आर्टीलरी, अनिल कुमार मेहरोत्रा (आई० सी०-44741), इन्फैंटरी, पदम सिंह गुलिया (आई० सी०-44751), ए० एस० सी०, संजय जोन डेविड (आई० सी०-44753), इन्फैंटरी, महेन्द्रा जोगदानंद (आई० सी०-44759) इन्फैंटरी, गिरीश खण्ड पाल (आई० सी०-44760) ई० एम० ई० बी० सी० जुलियन (आई० सी०-44763), इंजीनियर, आई०

पी० एस० नरुका (आई० सी०-44764), मेक/इन्फैंटरी, डी० पी० मैथ्यूज (आई० सी०-44771), इन्फैंटरी, इन्द्रवीर सिंह (आई० सी०-44772), ए० एस० सी० सुरजीत सिंह (आई० सी०-44780), ए० ओ० सी०, प्रेम चन्द्र (आई० सी०-44790), इंजीनियर, नवीन चन्द्र सी० पी० (आई० सी०-44794) सिगनल, आर० के० वर्मा, (आई० सी०-44799) ए० एस० सी०, अनिल कुमार शुक्ला (आई० सी०-44800) आर्टीलरी, भटुना श्रीनिवास राव (आई० सी०-44802) इन्फैंटरी, मोहिन्द्र सिंह रमथावा (आई० सी०-44804), इन्फैंटरी, संजीव मोनी (आई० सी०-44806) इन्फैंटरी, गुर्या मैन (आई० सी०-44807) आर्टीलरी, संदीप भार्गवा (आई० सी०-44808) आर्टीलरी सुशील कुमार राय (आई० सी०-44811) आर्टीलरी, संदीप सिंह बजाज (आई० सी०-44812), इन्फैंटरी, कृष्णेन्द्र भट्टाचार्य (आई० सी०-44818) आर्टीलरी, शर्मा विनोद-भाई जावेर भाई (आई० सी०-44831), आर्टीलरी, राजेश गुप्ता (आई० सी०-44832) मेक/इन्फैंटरी, अतुल सिंह प्रभार (आई० सी०-44833) इंफैंटरी, गोपाल वर्मा (आई० सी०-44843) ए० ओ० सी०, संजय जोहरी (आई० सी०-44844) ए० ओ० सी०, संजय भारद्वाज (आई० सी०-44846), ए० सी०, संजय कुमार सिंह (आई० सी०-44849) इन्फैंटरी, सुशील कुमार भारद्वाज (आई० सी०-44851) ए० एस० सी०, ए० के० तिवारी (आई० सी०-44934) ए० ई० सी, सी० रविन्द्रा रेड्डी (आई० सी०-44936) ए० ई० सी, बी० एस० गोकुला (आई० सी०-44938), ए० ई० सी, आर० बी० सुब्राह्मनया प्रसाद (आई० सी०-44979) ए० ई० सी०, उपेन्द्र कुमार शर्मा (आई० सी०-44988) ए० ई० सी-13 जून, 1989

राजेन्द्र सिंह (आई० सी०-47622) इन्फैंटरी-11 जून, 1990

धर्मवीर बलवीर सिंह कुशवाहा (आई० सी०-49453) ए० ओ० सी०, गनप्रित सिंह वैस (आई० सी०-49545) इन्फैंटरी, रतजित चाकू (आई० सी०-49634), इन्फैंटरी, प्रवीण सिंह सनगवान (आई० सी०-49667) इन्फैंटरी, सुशील शर्मा (आई० सी०-49819) एम० एफ०, हेमन्ता कुमार पाण्डे (आई० सी०-49845) एम० एफ०-9 जून, 1992।

गौरव शर्मा (आई० सी०-49891), इन्फैंटरी, जयेश कन्हैया लाल अधवरयू (आई० सी०-49928) इंजीनियर, अजय दलाल (आई० सी०-49945) ई० एम० ई० कर्ण सिंह दहिया (आई० सी०-49954) इन्फैंटरी, राजेश कशवान (आई० सी०-49964) इन्फैंटरी, सरनाज किल्लों (आई० सी०-50009) इन्फैंटरी, अजय आहुजा (आई० सी०-50015) इन्फैंटरी, शैलेन्द्र कुमार मेहरा (आई० सी०-50058) इन्फैंटरी, गुर्जीत सिंह (आई० सी०-50074) इन्फैंटरी, गुर्जीत सिंह बच्चल (आई० सी०-50107) इन्फैंटरी-नरेंद्र सिंह बच्चल (आई० सी०-50166) ई० एम० ई०-15 दिसम्बर 1992।



जसविन्द्र सिंह (आई०सी०-50206) इन्फैंट्री—15  
दिसम्बर 1992।

राजेश बक्शी (आई०सी०-50238) इन्फैंट्री—15  
दिसम्बर 1992।

मनीश सहगल (आई०सी०-50239) इन्फैंट्री—15  
दिसम्बर 1992।

संजय कुमार (एस०एस०-34765) ई० एम०ई०—  
9 मार्च 1993।

जितेन्द्र सिंह रावत (एस० एस०-34767) ए० ओ०  
सी०—9 मार्च 1993।

कृष्णा मूर्ति ए०टी० (एस० एस०-34777) इंजीनियर  
—9 मार्च 1993।

अमर नाथ (एस० एस०-34792) ए० ओ० सी०—9  
मार्च 1993।

मनीष जैतली (एस० एस०-34804) ए० सी०—  
9 मार्च 1993।

सुबरोटो गोस्वामी (एस० एस०-34822) ए० एस०  
सी०—9 मार्च 1993।

नरेश कुमार भारद्वाज (एस० एस०-34823) ए० ओ०  
सी०—9 मार्च 1993।

गौरव दुग्गल (एस० एस०-34833) ए० एस० सी०  
—9 मार्च 1993।

पुनीत नथानी (एस० एस०-34834) ए० सी०—  
9 मार्च 1993।

राजेश पामुमर्शी (एस० एस०-34839) ए० ओ०  
सी०—09 मार्च 1993।

रघुवेन्द्रा प्रताप सिंह (एस०एस०-34662) इन्फैंट्री—  
25 अगस्त 1992।

मनोज कुमार तयाल (एस० एस०-34524) इन्फैंट्री  
—25 अगस्त 1992।

अतुल बाली (एस० एस०-34540) इन्फैंट्री—25  
अगस्त 1992।

विकास जोशी (एस० एस०-34592) इन्फैंट्री—25  
अगस्त 1992।

भास्कर बनर्जी (एस० एस०-34616) ई० एम० ई०  
—25 अगस्त 1992।

विक्रम सूद (एस० एस०-34635) ई० एम० ई०—  
25 अगस्त 1992।

रविन्द्र सिंह मेहता (एस० एस०-34678) आर्टिलरी  
—25 अगस्त 1992।

सुरेन्द्र पाल (एस० एस०-34682) आर्टिलरी—25  
अगस्त 1992।

देवकी नन्दन शर्मा (एस० एस०-34666) उर्फेटरी—  
25 अगस्त 1992। (परन्तु वेतन और भत्ते 8 नवम्बर  
1992 से दिए जायें)।

आर० अरुमुगम (एस० एस०-34363) ई० एम०ई०,  
शशि कंवर लाल शिजलाल (एस०एस०-34441) ए० ओ०  
सी०, एस० गोपीनाथ (एस० एस०-34457) ई० एम०  
ई० रजनीश सिंह (एस० एस०-34463) इन्फैंट्री—09  
मार्च 1992।

इन्द्रवीर सिंह डागुर (एस० एस०-34093) मेक/इन्फैंट्री,  
कैजाद बेजी भया (एस० एस०-34110) इन्फैंट्री, सुनील  
नरुला (एस०एस०-34198) इन्फैंट्री संदीप सिंह विक (एस०  
एस०-34203) इन्फैंट्री, सतविन्द्र सिंह अहलुवालिया (एस०  
एस०-34274) सिगनल—26 अगस्त 1991।

अनूप सिंह (एस० एस०-33220) आर्टिलरी—4  
सितम्बर 89।

(परन्तु वेतन और भत्ते 1 दिसम्बर 89 से दिये जायें)।

कृष्णा रंशेश (एस० एस०-32638) ए० ओ०सी०—23  
अगस्त 88।

(परन्तु वेतन और भत्ते 23 अक्टूबर 1988 से दिये जायें)।

विजय नाथ झा (एस० एस०-34017) इंजीनियर—11  
मार्च 91।

(परन्तु वेतन और भत्ते 16 अगस्त 1991 से दिए जायें)।

मनोज कुमार (एस० एस०-34911) ए० ओ० सी०—  
24 अगस्त 93।

राधेश्याम (एस० एस०-32404) आर्टिलरी—8 मार्च  
1988।

राकेश (एस० एस०-32408) इन्फैंट्री—8 मार्च  
1988।

के० पी० राव (एस० एस०-32480) ई० एम०ई०—  
8 मार्च 1988।

के० के० प्रसाद (एस० एस०-32432) मेक/इन्फैंट्री  
—8 मार्च 1988।

धनश्याम पाण्डे (एस० एस०-32242) आर्टिलरी  
—24 अगस्त 1987।

सी० पी० रणजीत (एस० एस०-32258) ए० सी०—  
—24 अगस्त 1987।

बासुदेवन एम० के० (एस० एस०-32313) ए० सी०  
—24 अगस्त 1987।

जे० पी० एस० चौधरी (एस० एस०-32314) आर्टि-  
सरी—24 अगस्त 1987।

एम० एस० रतन (एस० एस०-32337) आर्टि-  
सरी—24 अगस्त 1987।

राजेश यादव (एस० एस०-32347) इन्फैंट्री—  
24 अगस्त 1987।

रवि एस० (एस० एस०-32356) ए० सी०—24  
अगस्त 1987।

जे० पी० सिंह (एस० एस०-32357) ए० सी०—  
24 अगस्त 1987।

बी० सी० गोगुनाशी (एस० एल०-3509)—26  
जुलाई 1988।

मुन्शी राम (एस० एल०-3512)—26 जुलाई 1988।

एन० रामानन्धी (एस० एल०-3543)—26 जुलाई  
1988।

अमोक बीडकर (एस० एल०-3570)—26 जुलाई  
1988।

विजयन के०टी० (एस० एल०-3576)—26 जुलाई  
1988।

नारायणन एम० (एस० एल०-3578)—26 जुलाई  
1988।

रणवीर सिंह (एस० एल०-3579)—26 जुलाई  
1988।

राम कुमार भागवत (एस० एल०-3926)—12 अप्रैल  
1992।

सत पाल राय गाबा (एस० एल०-3944)—12 अप्रैल  
1992।

विजयेन्द्रा राव टी० एम० (एस० एल०-3953)—12  
अप्रैल 1992।

भार० एन० पाण्डे (एस० एल०-3970)—13 मई  
1993।

जी० सरन (एस० एल०-3998)—13 मई 1993।

जगदीश सिंह गिल (एस० एल०-4003)—13 मई  
1993।

लक्ष्मी नारायण (एस० एल०-4007)—13 मई  
1993।

ए० के० मलिक  
सी एस ओ  
डी ए एम एस 8 सी

(थल सेना विभाग)

सं० 428, दिनांक 8-4-94—राष्ट्रपति निम्नलिखित  
पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेवा

इन्फैंट्री

गारद ब्रिगेड

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रमेश (सं० 13663166 एकम अब जे० सी०-  
402125 के)—08 मई 1993\*।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 14 मार्च 1993 से दी जायेगी)।

हवलदार बोलो राम नाथ (सं० 13673149 एक अब  
जे० सी०-402126 एम)—10 अगस्त 1993।

हवलदार खुशीया राम (सं० 13675745 एम अब  
जे० सी०-402127 पी)—26 नवम्बर 1993\*\*।

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1993 से दी जायेगी)।

हवलदार ज्ञानिन्दर प्रसाद (सं० 13672075 एल अब  
जे० सी०-402128 एक्स)—26 नवम्बर 1993।

हवलदार शेर सिंह, एस० एम० (सं० 13668923 एक  
अब जे० सी०-402129 ए)—29 दिसम्बर 1993\*\*\*।

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1993 से दी जायेगी)।

हवलदार कल्याण सिंह (सं० 13669767 पी अब जे०  
सी०-402130 पी)—01 दिसम्बर 1993।

हवलदार हरकेश सिंह (सं० 13675525 एक अब जे०  
सी०-402131 एक्स)—01 दिसम्बर 1993।

हवलदार ज्ञान सिंह (सं० 13671462 एम अब जे० सी०-  
402132 ए)—01 जनवरी 1994।

हवलदार मोहन सिंह रावल (सं० 13671853 वाई अब  
जे० सी०-402133 एच)—01 जनवरी 1994।

हवलदार होशियार सिंह (सं० 13673620 डब्ल्यू अब  
जे० सी०-402134 एल)—01 जनवरी 1994।

हवलदार बनवारी लाल (सं० 13673705 एम अब जे०  
सी०-402135 एन)—07 जनवरी 1994।

हवलदार किताब सिंह (सं० 13672089 एल अब जे० सी०-  
402136 डब्ल्यू)—01 फरवरी 1994।

हवलदार बिरसा सिंह (सं० 13674288 एक्स अब जे०  
सी०-402137 वाई)—01 फरवरी 1994।

हवलदार नरिन्दर कुमार पुरी (सं० 13675015 एक अब  
जे० सी०-402138 एफ)—01 फरवरी 1994।

हवलदार बंशीधर (सं० 13673796 एफ अब जे०सी०-402139 के)--01 फरवरी 1994 ।

हवलदार धरन सिंह गुजर (सं० 13673954 एन अब जे० सी०-402140 वाई)--01 फरवरी 1994 ।

हवलदार राजबीर सिंह (सं० 13680950 एक्स अब जे० सी०-402141 एफ)--01 फरवरी 1994 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जंगिन्द्र पांडेय (सं० 13673383 एक्स अब जे०सी०-402106 वाई)--03 सितम्बर 1993×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1993 से दी जायेगी)

हवलदार उपेन्द्र सिंह (सं० 13670196 एन अब जे० सी०-402107 एफ)--29 सितम्बर 1993

हवलदार हयात सिंह बंकोती (सं० 13669518 डब्ल्यू अब जे० सी०-402108 के)--01 अक्टूबर 1993

हवलदार लल्लन सिंह (सं० 13671433 वाई अब जे० सी०-402109 एम)--07 अक्टूबर 1993

हवलदार राम लाल (सं० 13671143 एफ अब जे० सी० 402110 एफ)--13 अक्टूबर 1993

हवलदार शिव राम (सं० 13671479 एफ अब जे० सी०-402111 के)--27 अक्टूबर 1993

हवलदार कृष्ण बहादुर खत्री (सं० 13670474 डब्ल्यू अब जे०सी०-402113 पी)--01 नवम्बर 1993

हवलदार बलबीर सिंह राणा (सं० 13670477के) अब जे० सी०-402114 एक्स)--01 नवम्बर 1993

हवलदार प्रताप सिंह (सं० 8023530 वाई) अब जे० सी० 402115 ए)--01 नवम्बर 1993

हवलदार याद राम (सं० 13671173 वाई अब जे० सी०-402116 एच)--01 दिसम्बर 1993

हवलदार बलविंदर सिंह (सं० 13672748 पी अब जे०सी०-402117 एल)--01 दिसम्बर 1993

हवलदार विरन्वर कुमार (सं० 1367350के अब जे०सी०-402118 एन)--01 जनवरी 1994

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार राजपूत चिटठल (क्लर्क) सिंग बंदु सिंग (सं० 13673107 पी अब जे० सी०-402112एम)--01 नवम्बर 1993

मद्रास रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मूलिनारायणन (सं० 2573602एल अब जे०सी०-438167 एफ)--1 जनवरी 1994

हवलदार सेतुमाधवन एम० (सं० 2576877 के अब जे०सी०-438168 के)--1 जनवरी 1994

हवलदार आर० मदिअलगन (सं० 2574869 एम अब जे० सी०-438169 एम)--1 जनवरी 1994

हवलदार एस० मुतुस्वामी (सं० 2571395एल अब जे०सी० 438170 एफ)--1 फरवरी 1994

हवलदार अरुमुगम टी० (सं० 2578792 एम अब जे० सी०-438171 के)--1 फरवरी 1994

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) नागि रेडी पी० रंगा रेडी (सं० 2575212 ए अब जे० सी०-438172 एफ)--1 फरवरी 1994

प्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सैयद सलमान अली (सं० 2665888 एल) अब जे०सी०-448125 एच)--16 अगस्त 1993

हवलदार पटेल लालू जी सकरा जी (सं० 2666874 एक्स अब जे० सी० - 448126 एल)--16 सितम्बर 1993 ।

हवलदार कुलदीप चन्ध (सं० 2673977 वाई अब जे० सी०-448127 एन)--30 सितम्बर 1993 ।

हवलदार अम्बा दान (सं० 2665351 वाई अब जे० सी०- 448128 डब्ल्यू)--1 नवम्बर 1993 ।

हवलदार मोहन लाल (सं० 2666765 एल अब जे० सी०-448129 वाई)--01 नवम्बर, 1993 ।

हवलदार वेद प्रकाश भाटी (सं० 2667029 वाई अब जे० सी०-448130 एन)--1 दिसम्बर, 1993 ।

हवलदार राम कंवर (सं० 2662110 एफ अब जे० सी०-448131 डब्ल्यू)--1 दिसम्बर 1993

हवलदार मस्त राम (सं० 2662859 एल अब जे० सी०-448132 वाई)--1 जनवरी 1994

हवलदार दरब खान (सं० 2668410 वाई अब जे० सी०-448198 पी)--22 सितम्बर 1993 ।

हवलदार शिव राम सिंह (सं० 2668401 एक्स अब जे० सी०-448199 एक्स)--15 जनवरी 1994 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 1993 ।

हवलदार बलवान सिंह (सं० 2667586 एक्स अब जे० सी०-448200 एफ)--25 जनवरी 1994

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1993)

हवलदार धरम सिंह (सं० 2662303 एफ अर जे० सी०—448201 के)—05 मार्च 1994

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1994)

हवलदार मोहम्मद सबीर खान (सं० 2668847 एम अर जे० सी०—448202 एम)—01 फरवरी 1994

हवलदार जगदीश प्रसाद जाट (सं० 2663329 एम अर जे० सी०—348203 पी)—01 फरवरी 1994

हवलदार बिसाखी राम (सं० 2662460 एम अर जे० सी०—448204 एम)—01 फरवरी 1994

हवलदार जेठू सिंह भाटी (सं० 2668443 के अर जे० सी०—448205 ए)—01 फरवरी 1994

हवलदार जयवीर सिंह बेरवाल (सं० 2665153 एफ अर जे० सी०—448206 एच)—01 फरवरी 1994

हवलदार वेद पाल सिंह पुनदीर (सं० 2670050 एम अर जे० सी०—448207 एल)—01 मार्च 1994

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार जय सिंह मेहना [सं० 2666469 ए (लिपिक) अर जे० सी०—448208 एन]—01 फरवरी 1994

राजपूत रैजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं० 2972362 ए अर जे० सी०—478130 एच) 22 नवम्बर 1993।\*

\*ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 26 जून 1993 से दी जाएगा।

हवलदार रया गौरंगा प्रसाद गुरिया (सं० 2979465 एफ अर जे० सी०—478131 एल)—13 अगस्त 1993।\*

\*ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 1 जुलाई 1993 से दी जायेगी।

हवलदार बलबीर सिंह (सं० 2974834 के अर जे० सी०—4178132 एन)—2 अगस्त 1993।\*

(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 1 अगस्त 1993 से दी जायेगी।)

हवलदार राम दयाल गुर्जर (सं० 2974336 एक्स) अर जे० सी०—478133 डब्ल्यू 1 अगस्त 1993।

हवलदार श्रीम प्रकाश बर्मा (सं० 2970657 एक्स अर जे० सी०—478134 वाई०)—29 अगस्त 1993।

हवलदार सुभ करन सिंह (सं० 2976701 एम अर जे० सी०—478135 एफ)—27 सितम्बर 1993।

हवलदार श्रीम प्रकाश (सं० 2970884 एक्स अर जे० सी०—478135 के)—1 दिसम्बर 1993।

नायब सूबेदार कर्क के रैंक में

हवलदार जय सिंह (सं० 2972434 वाई अर जे० सी०—478137 एम)—16 अक्टूबर, 1993।

हवलदार कर्क सौरन सिंह (सं० 2972494 एन अर जे० सी०—478138 पी)—1 नवम्बर 1993

हवलदार कर्क सिंह राज (सं० 2972561 एन अर जे० सी०—478139 एक्स)—1 नवम्बर 1993।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कुमल पाल सिंह (सं० 2975440 एक्स अर जे० सी०—478144 एच)—1 अगस्त 1993।

हवलदार धर्म पाल सथाथिया (सं० 3969972 एक्स अर जे० सी०—478145 एल)—01 अक्टूबर 1993।

हवलदार राम भक्त (सं० 2972049 पी अर जे० सी०—478146 एन) 20 अक्टूबर 1993।

हवलदार नारद सिंह (सं० 2970164 डब्ल्यू अर जे० सी०—478147—डब्ल्यू)—23 दिसम्बर 1993।

\*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 1 दिसम्बर 1993 से दी जायेगी।)

हवलदार नरेन्द्र प्रताप सिंह (सं० 2973669 एक्स अर जे० सी०—478148 वाई०)—30 दिसम्बर 1993।

हवलदार राकेश सिंह (सं० 2974461 एफ अर जे० सी०—478149 एफ)—30 दिसम्बर 1993।

हवलदार रघुराज सिंह (सं० 2970445 एम अर जे० सी०—478150 डब्ल्यू)—1 जनवरी, 1994।

हवलदार हुकम पाल सिंह (सं० 2970832 एफ अर जे० सी०—478151 वाई०)—1 जनवरी 1994।

हवलदार छावर मल (सं० 2972140 एल अर जे० सी०—478152 एफ)—1 जनवरी 1994।

हवलदार जयवीर सिंह (सं० 2972401 एन अर जे० सी०—478153 के)—1 जनवरी 1994।

हवलदार रामजी सिंह (सं० 2973265 पी अर जे० सी०—478154 एम)—1 जनवरी 1994।

हवलदार बलु सिंह (सं० 2971950 एफ अर जे० सी०—478155 पी०)—1 फरवरी 1994।

हवलदार लाभ सिंह (सं० 2972063 एफ अर जे० सी०—478156 एक्स)—1 फरवरी 1994।

हवलदार प्रहलाद सिंह (सं० 2972106 एल अर जे० सी०—478157 ए)—1 फरवरी 1994।

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह (सं० 2971117 एल अर जे० सी०—478158 एच)—1 फरवरी 1994।

## मिथ्र जेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुरजीत सिंह ( 3375011 पी० अब जे० सी० 498181 एक्स० )--10 फरवरी 1994।\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1993 से दी जाती है।

हवलदार जोगिन्दर सिंह ( 3374081 एफ० अब जे० सी० 498182 ए० ) --2 जनवरी 1994।

हवलदार गुरभीत सिंह ( 3374117 पी० अब जे० सी० --498183 एच० ) --1 फरवरी 1994।

हवलदार तरिन्दर सिंह ( 3374216 एक्स० अब जे० सी० 498184 एल० ) --1 फरवरी 1994।

हवलदार बलजिन्दर सिंह ( 3373767 डब्ल्यू० अब जे० सी० 498185 एन० ) --1 फरवरी 1994।

हवलदार मतवीर सिंह ( 3374354 वाई० अब० जे० सी० 498186 डब्ल्यू० )--1 फरवरी 1994।

हवलदार नौनिहाल सिंह ( 3376089 एम० अब जे० सी० 498187 वाई० )--1 फरवरी 1994।

हवलदार तरलोक सिंह ( 3373605 एल० अब जे० सी०--498188 एफ० ) 4 फरवरी 1994।

हवलदार मंगल सिंह ( 3374007 ए० अब० जे० सी०--498189 के० ) --1 मार्च 1994।

हवलदार कश्मीर सिंह ( 3374429 एल० अब जे० सी० 498191 वाई० ) 1 मार्च 1994।

हवलदार यादविन्दर सिंह ( 3374819 एन० अब० जे० सी० 498191 एफ० ) --1 मार्च 1994।

हवलदार बलविन्दर सिंह ( 3373744 पी० अब जे० सी० 498192 के० ) --1 मार्च 1994।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जगीर सिंह ( 3373269 के अब जे० सी०--498130 के )--01 जुलाई, 1993।

हवलदार हरभाल सिंह ( 3373293 ए अब जे० सी०--498131 एम )--01 जुलाई, 1993।

हवलदार कुलविन्दर सिंह ( 3373559 एफ अब जे० सी०--498132 पी )--01 अगस्त, 1993।

हवलदार कुलवीर सिंह ( 3374251 ए अब जे० सी०--498133 एक्स )--17 अक्टूबर, 1993। X

X नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 अगस्त 1993 से दी जाती है।

हवलदार हरपाल सिंह ( 3374809 के अब जे० सी०--498134 ए )--01 अक्टूबर, 1993।

हवलदार सुरजीत सिंह ( 3373142 एफ अब जे० सी०--498135 एच )--18 नवम्बर, 1993।

हवलदार बनजिन्दर सिंह ( 3370761 के अब जे० सी०--498136 एन )--22 नवम्बर, 1993।

/नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 नवम्बर, 1993 से दी जाती है।

हवलदार प्यारा सिंह ( 3375163 डब्ल्यू अब जे० सी०--498137 एन )--30 नवम्बर, 1993। X

X नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 नवम्बर, 1993 से दी जाती है।

हवलदार निरमल सिंह ( 3375677 ए अब जे० सी०--498138 डब्ल्यू )--22 नवम्बर, 1993। /

/नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 नवम्बर, 1993 से दी जाती है।

हवलदार जुगराज सिंह ( 3373561 वाई अब जे० सी०--498139 वाई )--25 नवम्बर, 1993।

हवलदार मोहम्मद सिंह ( 3374859 पी अब जे० सी०--498140 एन )--01 दिसम्बर, 1993।

मिथ्र लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जगराज सिंह ( सं० 4456282 एच अब जे० सी०--508070 डब्ल्यू )--01 अक्टूबर, 1992।

हवलदार मुखमिन्दर सिंह ( सं० 4456708 वाई अब जे० सी०--508072 एफ )--27 दिसम्बर, 1992।

हवलदार करनैल सिंह ( सं० 4458602 एल अब जे० सी०--508073 के )--01 जनवरी, 1993।

हवलदार मोहिन्दर सिंह ( सं० 4452290 के अब जे० सी०--508074 एम )--01 जुलाई, 1993।

हवलदार देशा सिंह ( सं० 4458080 ए अब जे० सी०--508075 पी )--01 जुलाई, 1993।

हवलदार अवतार सिंह ( सं० 4455540 एल अब जे० सी०--508076 एक्स )--13 जुलाई, 1993।

हवलदार कश्मीर सिंह ( सं० 4460116 एम अब जे० सी०--508077 ए )--13 जुलाई, 1993।

हवलदार पिरथी सिंह ( सं० 4457674 एच अब जे० सी०--508078 एच )--13 जुलाई, 1993।

हवलदार गुलजार सिंह (सं० 4457946 एच अरब जे० सी०—  
508079 ए) — 13 जुलाई, 1993 ।

हवलदार परमजीत सिंह (सं० 4458013 पी अरब जे० सी०—  
508080 ए) — 13 जुलाई, 1993 ।

हवलदार जागीर सिंह (सं० 4457208 एन अरब जे० सी०—  
508081 एच) — 07 अगस्त, 1993 ।

हवलदार मनोहर सिंह (सं० 4458705 के अरब जे० सी०—  
508082 एच) — 27 अगस्त, 1993 ।

हवलदार मुरजीत सिंह (सं० 4455868 एम अरब जे० सी०—  
508083 एन) — 01 सितम्बर, 1993 ।

हवलदार अर्जुन सिंह (सं० 4456471 एम अरब जे० सी०—  
508085 वाई) — 01 अक्टूबर, 1993 ।

हवलदार गुरमल सिंह (सं० 4459713 पी अरब जे० सी०—  
508086 एफ) — 01 अक्टूबर, 1993 ।

हवलदार इन्दर सिंह (सं० 4458260 एच अरब जे० सी०—  
508087 के) — 01 अक्टूबर, 1993 ।

हवलदार मुलधन सिंह (सं० 4455955 ए अरब जे०  
सी०—508088 एम) — 01 अक्टूबर, 1993 ।

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं० 4459983 के अरब जे०  
सी०—508089 पी) — 01 अक्टूबर, 1993 ।

हवलदार मेजर सिंह (सं० 4460060 एल अरब जे० सी०—  
508090 के) — 01 नवम्बर, 1993 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार सरदन सिंह (सं० 4451056 एफ अरब जे० सी०—  
508084 डब्ल्यू) — 14 अक्टूबर, 1993 ।

=नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 1993 से दी जायेगी ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार देवान सिंह (सं० 4453313 एच अरब जे० सी०—  
508103 डब्ल्यू) — 01 मई, 1993 ।

हवलदार विसा मिह (सं० 4454354 एच अरब जे० सी०—  
508104 वाई) — 01 अगस्त, 1993 ।

हवलदार जरनाल सिंह (सं० 4454878 के अरब जे० सी०—  
508105 एफ) — 20 अगस्त, 1993 ।

हवलदार थाकर सिंह (सं० 4452479 एफ अरब जे० सी०—  
508106 के) — 01 अक्टूबर, 1993 ।

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं० 4455125 के अरब जे० सी०—  
508107 एम) — 01 अक्टूबर, 1993 ।

हवलदार मन्तोष सिंह (सं० 4454623 के अरब जे० सी०—  
508108 पी) — 01 अक्टूबर, 1993 ।

हवलदार जोधिनंदर सिंह (सं० 4454706 पी अरब जे० सी०—  
508109 एफ) — 01 अक्टूबर, 1993 ।

हवलदार जगदिश सिंह (सं० 4455346 डब्ल्यू अरब  
जे० सी०—503110 ए) — 01 अक्टूबर, 1993 ।

हवलदार गुरदीप सिंह (सं० 4453590 एम अरब जे० सी०—  
508111 पी) — 01 अक्टूबर, 1993 ।

हवलदार पाल सिंह (सं० 4456302 एल अरब जे० सी०—  
508112 एफ) — 01 अक्टूबर, 1993 ।

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं० 4454370 ए अरब जे० सी०—  
508113 ए) — 15 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) करनल सिंह (सं० 4455109 एम अरब  
जे० सी०—508114 एच) — 01 फरवरी, 1994 ।

हवलदार (क्लर्क) सरमुख सिंह (सं० 4455140 वाई  
अरब जे० सी०—508115 एन) — 01 फरवरी, 1994 ।

डॉगरा रीजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रूद्रमण सिंह (सं० 3973256 के अरब जे० सी०—  
518147 एफ) — 08 जुलाई, 1993 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता—01 अप्रैल, 1993 से) ।

हवलदार तंजा राय (सं० 3973377 एन अरब जे० सी०—  
518148 के) — 31 अगस्त, 1993\* ।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 28 मई, 1993 से) ।

हवलदार हर्षवन्द ठाकुर (सं० 3973707 वाई अरब जे०  
सी०—518149 एम) — 31 मई, 1993 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) लेखा राज मन्हाण (सं० 3971760  
एल अरब जे० सी०—518150 एफ) — 01 अक्टूबर, 1993 ।

हवलदार (लिपिक) रणपाल सिंह (सं० 3971785 एम  
अरब जे० सी०—518151 के) — 01 नवम्बर, 1993 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं० 3969906 पी अरब जे० सी०—  
518243 डब्ल्यू) — 10 फरवरी, 1994\* ।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता—01 सितम्बर, 1993 से) ।

हवलदार बहादुर सिंह हुटियालिया (सं० 3970308 के अरब  
जे० सी०—518244 वाई) — 01 जनवरी, 1994 ।

हवलदार जोगिन्द्र सिंह चन्देन (सं० 3971495 ए अत्र जे० सी०—518245 एफ) — 01 फरवरी, 1994 ।

कुंज रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रविन्द्र सिंह जसवान (सं० 3972896 एफ अत्र जे० सी०—518194 वाई) — 01 नवम्बर, 1993 ।

हव० दिवान सिंह (सं० 4168466 पी अत्र जे० सी०—538161 पी) — 12 नवम्बर, 1993 ।

हवलदार मन्तराम (सं० 3971026 एक्स अत्र जे० सी०—518195 एफ) — 07 नवम्बर, 1993 ।

सी० एच० एम० किशत सिंह (सं० 4164220 वाई अत्र जे० सी०—538162 एक्स) — 01 दिसम्बर, 1993 ।

हवलदार धमेरू राम (सं० 3969408 एच अत्र जे० सी०—518196 के) — 01 दिसम्बर, 1993 ।

हव० सुभाष चन्द्र यादव (सं० 4173418 वाई अत्र जे० सी०—538163 ए) — 01 जनवरी, 1994 ।

हवलदार शक्ति राम (सं० 3971597 डब्ल्यू अत्र जे० सी०—518197 एम) — 07 जनवरी, 1994 ।\*

हव० कुंवर सिंह साधन (सं० 4168744 एक्स अत्र जे० सी०—538164 एच) — 01 जनवरी, 1994 ।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1993 से)

सी० एच० एम० दान सिंह (सं० 4167710 एक्स अत्र जे० सी०—538165 एल) — 01 जनवरी, 1994 ।

हवलदार साहिब सिंह (सं० 3972728 एच अत्र जे० सी०—518198 पी) — 01 जनवरी, 1994 ।

हव० दिवान सिंह (सं० 4168004 एच अत्र जे० सी०—538166 एन) — 01 जनवरी, 1994 ।

हवलदार रण सिंह (सं० 3968181 एन अत्र जे० सी०—518199 एक्स) — 01 जनवरी, 1994 ।

हव० प्रताप सिंह (सं० 4170004 एफ अत्र जे० सी०—538167 डब्ल्यू) — 01 जनवरी, 1994 ।

हवलदार हंस राज (सं० 3968632 एच अत्र जे० सी०—518200 एफ) — 01 जनवरी, 1994 ।

हव० गोविन्द सिंह (सं० 4169967 एफ अत्र जे० सी०—538168 वाई) — 01 जनवरी, 1994 ।

हवलदार केशर सिंह (3969620 ए अत्र जे० सी०—518201 के) — 01 जनवरी, 1994 ।

हव० गंगा सिंह (सं० 4172501 के अत्र जे० सी०—538169 एफ) — 01 जनवरी, 1994 ।

हवलदार सुरेश अग्निहोत्री (सं० 3970460 एक्स अत्र जे० सी०—518202 एम) — 01 जनवरी, 1994 ।

हव० पूरन चन्द्र पाण्डे (सं० 4165804 डब्ल्यू अत्र जे० सी०—538170 डब्ल्यू) — 01 जनवरी, 1994 ।

हवलदार मोहिन्द्र सिंह चन्देन (सं० 3973629 एम अत्र जे० सी०—518203 पी) — 01 जनवरी, 1994 ।

हव० भूपाल सिंह (सं० 4171687 एम अत्र जे० सी०—538171 वाई) — 01 जनवरी, 1994 ।

हवलदार परमानन्द (सं० 3969571 एच अत्र जे० सी०—518204 एक्स) — 01 जनवरी, 1994 ।

हव० राजेन्द्र सिंह कन्यान (सं० 4165821 डब्ल्यू अत्र जे० सी०—538172 एफ) — 01 जनवरी, 1994 ।

हवलदार प्रताप चन्द (सं० 3969423 एक्स अत्र जे० सी०—518205 ए) — 01 फरवरी, 1994 ।

हव० बहादुर सिंह (सं० 4165382 एम अत्र जे० सी०—538173 के) — 01 जनवरी, 1994 ।

हवलदार मिलाप चन्द (सं० 3969463 वाई अत्र जे० सी०—518206 एच) — 01 फरवरी, 1994 ।

हव० लाल सिंह यादव (सं० 4163889 वाई अत्र जे० सी०—538174 एन) — 01 जनवरी, 1994 ।

हवलदार रमेश चन्द (सं० 3969517 एम अत्र जे० सी०—518207 एन) — 01 फरवरी, 1994 ।

हव० सगार सिंह यादव (सं० 4167896 एम अत्र जे० सी०—538175 पी) — 01 जनवरी, 1994 ।

हवलदार अशोक कुमार (सं० 3976538 एन अत्र जे० सी०—518208 एन) — 01 फरवरी, 1994 ।

सी० एच० एम० यदु नाथ सिंह (सं० 13673273 एच अत्र जे० सी०—538176 एक्स) — 01 जनवरी, 1994 ।\*

हवलदार कुलदीप दत्त (सं० 3971411 एफ अत्र जे० सी०—518209 एल) — 01 फरवरी, 1994 ।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून, 1993 से दी जायेगी ।)

हव० अरर सिंह (सं० 4167811 एल अत्र जे० सी०—538177 ए) — 03 जनवरी, 1994 ।

हवलदार गुरनाम सिंह (सं० 3969826 एक्स अत्र जे० सी०—528210 एल) — 01 फरवरी, 1994 ।

अर० पी० सी० एच० एम० परताप सिंह (सं० 4168775 एक्स अत्र जे० सी०—538178 एच) — 01 फरवरी, 1994 ।

सी० एच० एम० लाल सिंह (सं० 4168256 पी अत्र जे० सी०—538179 एल) — 01 फरवरी, 1994 ।

हव० धन सिंह गम्हार (सं० 4160285 के अत्र जे० सी०—538180 ए०)—01 फरवरी, 1994।

हव० भूपाल सिंह (सं० 4167226 एन अत्र जे० सी०—538181 एच०)—01 फरवरी, 1994।

हव० एनीप सिंह (सं० 4171045 एक्स अत्र जे० सी०—538182 एल०)—01 फरवरी, 1994।

हव० मंगल सिंह (सं० 4171118 वाई अत्र जे० सी०—538183 एन०)—01 फरवरी, 1994।

#### आसाम रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बल बहादुर थापा (सं० 4347097 वाई अत्र जे० सी०—548069 के)—28 जुलाई, 1993।

हवलदार थनखोलाल सं० 4348977 एफ अत्र जे० सी०—548070 वाई)—01 अक्टूबर, 1993।

हवलदार रबी राम बोरो (सं० 4349257 एम अत्र जे० सी० 548071 एफ)—17 नवम्बर, 1993।

हवलदार हरी नारायण मेदी (4350254 एन अत्र जे० सी०—548072 के)—01 अक्टूबर, 1993।

हवलदार मोहन चन्द्र दास (सं० 4349014 एफ अत्र जे० सी०—548073 एम)—25 नवम्बर, 1993%।

हवलदार दुर्गा बहादुर बसंत (सं० 5445353 पी अत्र जे० सी०—548074 पी)—08 जनवरी, 1994\*।

हवलदार सी० कुमार (सं० 2576088 एक्स अत्र जे० सी०—548075 एक्स)—24 दिसम्बर, 1993=।

हवलदार जगदीश चन्द्र (सं० 3972672 एफ अत्र जे० सी०—548076 ए०)—19 जनवरी, 1994X।

हवलदार रघु नाथ डेका (सं० 4348564 एक्स अत्र जे० सी०—548077 एच०)—11 जनवरी, 1994r।

हवलदार अभय राम कलिता (सं० 4350015 डब्ल्यू अत्र जे० सी०—548078 एल०)—05 दिसम्बर, 1993s।

हवलदार मेहर चन्व (सं० 3970642 एन अत्र जे० सी०—548079 एन)—10 जनवरी, 1941।

हवलदार अगस्टीन एन० बारक (सं० 4347191 एच अत्र जे० सी०—548080 एच०)—01 जनवरी, 1994।

हवलदार रामानन्दा बरुवा (सं० 4350050 वाई अत्र जे० सी०—548081 एल०)—01 जनवरी, 1994।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 1993 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 1993 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 1993 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 1993 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 1993 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 1993 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 1993 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1993 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1993 से दी जायेगी।

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फेन्ट्री

नायब सूबेदार (—) ० के रैंक में

हवलदार राजेंद्र कुमार (सं० 9082258 एन अत्र जे० सी०—592093 ए०)—10 नवम्बर, 1993\*।

(8 फरवरी 1993 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)।

हवलदार हरदेव सिंह (सं० 9081255 एन अत्र जे० सी०—592094 एल०)—28 जनवरी, 1994\*\*।

\*\* (22 नवम्बर, 1993 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)।

हवलदार पूरब सिंह (9080685 एच अत्र जे० सी०—592079 एन)—22 दिसम्बर, 1993\*।

\*(25 जनवरी 93 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)

हवलदार भरत सिंह (9080955 एन अत्र जे० सी०—592080 ए०)—22 दिसम्बर 1993\*\*।

हवलदार बलबीर सिंह (9080910 एम० अत्र जे० सी०—592081 एल०)—2 जनवरी 1994\*\*\*।

\*\* (6 फरवरी 93 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)

हवलदार बोध राज (9081514 एच अत्र जे० सी०—592082 एन)—22 दिसम्बर 1993\*\*\*।

\*\*\* (13 फरवरी 93 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)

हवलदार प्रीतम सिंह (9081519 एफ अत्र जे० सी०—592083 डब्ल्यू) 22 दिसम्बर 1993—।

—(16 फरवरी 93 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)

हवलदार वाव राम (9081049 एफ अत्र जे० सी०—592084 वाई)—22 दिसम्बर 1993 :।

:(27 फरवरी 93 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)



हवलदार प्रेम नाथ (9080726 पी० अब जे० सी०-592085एफ)---11 जनवरी 94=

हवलदार रमेश लाल (एस० एम०) 9081866 ए० अब जे० सी०-592086 ए०)---20 जनवरी 1994= ।

(19 जून 93 को बरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए )

हवलदार सोभा राव (9081876 के अब जे० सी०-592087 ए०) ---22 दिसम्बर 1993 X = X

X = X (13 अगस्त 93 को बरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)

4 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार टेक बहादुर थापा (सं० 5342092 एम अब जे० सी०-612051 एकस) 1 जनवरी 1994 ।

हवलदार सुक नारायण सुवेदी (सं० 5342023 इन्ड्यु अब जे० सी०-6120520)-1 जनवरी 1994 ।

हवलदार दिन बहादुर थापा (सं० 5342192 एकस अब जे० सी०-612053 एच)-22 जनवरी 1994\* ।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1994 )

हवलदार चन्दर बहादुर थापा ( सं० 5343294 ए अब जे० सी० 612054 एल)-10 जनवरी 1994 ।

9 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जितेन्द्र बहादुर क्षेत्री (5841301 पी अब जे० सी०-629036 वाई)-08 अगस्त 1993 ।

हवलदार मन बहादुर क्षेत्री (5841460 एम अब जे० सी०-629037 एफ) ---1 अक्टूबर 1993 ।

हवलदार खंडका बहादुर क्षेत्री (5841480 एफ अब जे० सी०-629038 के) ---1 नवम्बर 1993 ।

हवलदार उदय बहादुर खत्री (5841184 पी अब जे० सी०-629039 एम)-1 नवम्बर 1993 ।

हवलदार लाल बहादुर खत्री (सं० 5841509 एकस अब जे० सी०-629040 एफ)-01 नवम्बर 1993 ।

हवलदार जितेन्द्र प्रकाश मल्ल (सं० 5841584 ए अब जे० सी०-629041 के)---01 नवम्बर 1993 ।

हवलदार दलीप कुमार खत्री (सं० 5841662 एन अब जे० सी०-629042 एम)-01 नवम्बर 1993 ।

हवलदार जीवन शाही (5842928 एफ अब जे० सी०-629043 पी)-01 नवम्बर 1993 ।

हवलदार मित्रासेन ठाकुर (सं० 5841192 एन अब जे० सी०-629044 एकस)-01 नवम्बर 1993 ।

3-74 GI/94

हवलदार विष्णु प्रसाद सेधार्ई (सं० 5841421 एन अब जे० सी०-629045 ए)-01 नवम्बर 1993 ।

हवलदार नर बहादुर क्षेत्री (सं० 5842012 एन अब जे० सी०-629046 एच)-01 नवम्बर 1993 ।

5 जी० आर० (एफ० एफ०)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जीत बहादुर राना भट (सं० 5445346 वाई अब जे० सी०-617030 एल)-14 दिसम्बर 1993\* ।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1993 से दी जायेगी)

हवलदार राम सिंह राना (सं० 5444246 एन अब जे० सी०-617031 एन)-5 दिसम्बर 1993 ।

हवलदार खडक बहादुर गुरूंग (सं० 5444058 ए अब जे० सी०-617032 इन्ड्यु)-5 दिसम्बर 1993 ।

हवलदार मोहन लाल (सं० 5443954 एफ अब जे० सी०-617033 वाई)-01 जनवरी 1993 ।

लद्दाख स्फाऊअस

नायब सूबेदार (जी० डी०) के पद में

हवलदार (जी० डी०) नखांग छेरिंग (सं० 9921178 एन) अब जे० सी०-588019 एफ-15 दिसम्बर 1993@।

@(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1993 से दी जायेगी ।

सी०एच० एम० (जी० डी०) सोनम अंगचुक (सं० 9921454 एल अब जे० सी०-588010 एम)-30 अगस्त 1993 ।

हवलदार (जी० डी०) छेरिंग फुन्बोक (सं० 9921113 ए० अब जे० सी०-588011) पी-01 अगस्त 1993 ।

हवलदार (जी० डी०) हातम खान (सं० 9921431 के अब जे० सी०-588012 एकस)-01 अगस्त 1993 ।

हवलदार (जी० डी०) छेतन इन्ड्यु (सं० 9922087 इन्ड्यु अब जे० सी०-588013) ए-30 अगस्त 1993\* ।

हवलदार (जी० डी०) रिगजोन ग्यासा (सं० 9921643-अब जे० सी०-588014 एच-01 अगस्त 1993 ।

@नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1993 से दी जायेगी ।

\*नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 1993 से दी जायेगी)

टी० सी० जैन,  
अवर सचिव

अस सेवा विभाग	सूबेदार क्लर्क जी० डी० के रैंक में
कोर ग्राफ इंजीनियर्स	नायब सूबेदार क्लर्क चेतुपारा वेलु पिल्लै गोपाला कृष्णन पिल्लै (जे० सी०-151534) डब्ल्यू) -- 01 नवम्बर 1993
मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप	नायब सूबेदार क्लर्क मुत्तू पिल्लै गुम्सामी (जे० सी०-154138 के) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में	नायब सूबेदार क्लर्क चिन्नाप्पन वेल्लै (जे० सी०-159605 एन) -- 01 नवम्बर 1993
नई दिल्ली दिनांक 8 अप्रैल 1994	नायब सूबेदार क्लर्क कुप्पूसामी गणेशन (जे० सी०-159606--डब्ल्यू) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार क्लर्क पी० सी० जयाकुमारन (जे० सी०-89079 एच) -- 1 अप्रैल 1993	नायब सूबेदार क्लर्क मुरुगयन राजगोवरन (जे० सी०-159608 ए) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार क्लर्क श्रीरामोजू श्रीनिवास राव (जे० सी०--89375 एल) - 1 मई 1993	नायब सूबेदार क्लर्क गोपाल रंगानाथन (जे० सी०-159631-पी) -- 02 नवम्बर 1993
सूबेदार क्लर्क टी० पी० सकारिया (जे० सी० - 90820 एल) - 1 जुलाई 1993	नायब सूबेदार क्लर्क कादिरवेल नागलिंगम (जे० सी०-166879 के) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार क्लर्क बदरी इन्नाय्या रेड्डी (जे० सी०-91760 डब्ल्यू) -- 1 अगस्त 1993	नायब सूबेदार क्लर्क वैरमुत्तू गणपति (जे० सी०-159897 एफ) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार क्लर्क तुलीबालक वासुदेवन मोहनन (जे० सी०-93153 एन) -- 1 सितम्बर 1993	नायब सूबेदार क्लर्क श्रीधरना (जे० सी०- 159615-एक्स) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार क्लर्क डेरिबैल रवीन्द्र अरुवा (जे० सी०- 91726-एन) -- 1 सितम्बर 1993	नायब सूबेदार क्लर्क रतिनम रामानुजम (जे० सी०-166880 रक्यू) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार क्लर्क बोलार कृष्णा (जे० सी० - 93062 के) -- 1 सितम्बर 1993 ।	नायब सूबेदार क्लर्क करुपया कारमेगम (जे० सी०-163291 पी) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार क्लर्क कोन्डाकासोरिल नीलकण्ठ कूरुवेस्ती गोविन्दा पिल्लै (जे० सी०-93196 बाई) -- 1 सितम्बर 1993 ।	नायब सूबेदार क्लर्क अरुलान्डू सूसे माणिकम (जे० सी०-162926 डब्ल्यू) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार क्लर्क तुन्डोवलपिल पट्टेरी पद्मनाभन (जे० सी० -- 91758 डब्ल्यू) -- 1 अक्टूबर, 1993]	नायब सूबेदार क्लर्क वरगीस जार्ज वरगीस (जे० सी०-163277 एच) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार क्लर्क अच्युतन वेन्नाखिल बिलक्कू माडसिल (जे० सी०-93066 ए) -- 01 नवम्बर 1993	नायब सूबेदार क्लर्क कल्याण्डा पुवथ्या कुरुबाबा (जे० सी०-165420 एच) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार क्लर्क कन्नारत मल्लोक्षिल हरीन्दन (जे० सी०- 93127 एम) -- 01 दिसम्बर 1993	नायब सूबेदार क्लर्क सौवी अच्युतन नायर (जे० सी०-167888 पी) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार क्लर्क कलपुरकल कास्तू वरभीस (जे० सी०-- 86990 एक्स) -- 01 दिसम्बर 1993	नायब सूबेदार क्लर्क तन्नावेमू जयरामन (जे० सी०-167889 एच) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार क्लर्क कोलबनि मुरुनाथ सुब्रह्मणियन (जे० सी०- 89838 पी) -- 01 दिसम्बर 1993	नायब सूबेदार क्लर्क वैजनाथ नारायण्टी (जे० सी०-167878 पी) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में	नायब सूबेदार क्लर्क उरुशाभेद्रप्पा (जे० सी०-170417-एम) -- 01 नवम्बर 1993
सूबेदार जी० डी० मन्नुवेलु पिल्लै जबाहाब (जे० सी०- 99603 डब्ल्यू) -- 01 नवम्बर 1993	नायब सूबेदार क्लर्क नटेशन पूमाने (जे० सी०-170420 एम) 01 नवम्बर 1993
सूबेदार जी० डी० एम० गणेशन (जे० सी०-97026-डब्ल्यू) -- 01 नवम्बर 1993	
सूबेदार जी० डी० वेम्पारामबिल मोहम्मद हनीका (जे० सी०-101848 एन) -- 01 नवम्बर 1993	

नायब सूबेदार क्लर्क मल्लाभरायू केराबाराब (जे० सी०-170367 एम)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क श्रीनिवासा इकातानाथन (जे० सी०-170368 पी)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क अब्दुल रहीमतुल्ला (जे० सी०-170394 एन)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क स्वामीनाथन अरीकियादास (जे० सी०-171569 ए)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क अन्थयकन्नु चिन्ता पिल्लै गोन्दर (जे० सी०-170369 एक्स)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क मन्तवर सैयद मोहम्मद (जे० सी०-170395 वाई)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क अन्तोनी विन्सेन्स अलोयसिअस (जे० सी०-171568 एक्स)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क राजन एम (जे० सी०-170371 पी)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क प्राशि कुमारन नायर (जे० सी०-17361 एल)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क बालियल वेलू दिवाकरन (जे० सी०-171583 एम)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क कुटिलान्नाल मन्नात बालासुब्रामणियन (जे० सी०-170377 ए)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क आर राजामणि (जे० सी०-170378-वाई)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क वेडामणिकम अनतोणिसामी (जे० सी०-170379 एफ)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क शंकरम्पा अमरगोल (जे० सी०-170362 एन)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क बासप्पा (जे० सी०-170382 एफ)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क पिरियासामी दोरे पान्डियन (जे० सी०-171584 पी)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क लक्ष्मणन गोविन्दराज (जे० सी०-170398 एम)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क बालाकृष्णन पुतियावोट्टील (जे० सी०-170363 एम)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क एन० राज शेखरन नायर (जे० सी०-171585 के)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क मुराबानपालाककल गोपालन मुरलीधरन पिल्लै (जे० सी०-171586 ए)---01 दिसम्बर 1993

नायब सूबेदार क्लर्क मुन्डा जगनाथम (जे० सी०-171587-ए)---01 दिसम्बर 1993

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार जी० डी० अनवर भाषा जे (जे० सी०-167882 एन)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० नारायणन प्रसीन्दरम (जे० सी०-167863 एच)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० काली कुप्पुस्वामी (जे० सी०-167865 एन)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० मुनिसामी पार्थसारथी (जे० सी०-170385 पी)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० गोना देवसहायम (जे० सी०-167884 वाई)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० सत्यनारायना श्री रामचन्द्रन सी०-171537 एक्स)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० प्रभुमगम पी० एम० (जे० सी०-170400 वाई)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० वसुदासन टिट्टास (जे० सी०-167873 एम)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० कन्नैयन कुप्पुस्वामी (जे० सी०-167867 वाई)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० पापैया रामचन्द्रन (जे० सी०-167868 एफ)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० पान्दूर पिडो नायडू (जे० सी०-171545 डब्ल्यू)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० मुरुगेशन चन्द्रशेखरन (जे० सी०-171531 डब्ल्यू)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० पेरुमाल आदोमुलम (जे० सी०-167885 एक्स)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० विन्नाप्पा धरमालिगम (जे० सी०-167870 वाई)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० तोमस के० टी० (जे० सी०-167871 एफ)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० लक्ष्मणन गोपाल (जे० सी०-170402 के)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० सुब्बन मुन्दराज (जे० सी०-167886 के)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० धरमालिगम देवीगम (जे० सी०-177249 एफ)---01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० गोविन्दसामी राजगोपाल (जे० सी०—167872 के) — 01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० नारायणन पी० (जे० सी०—170392 एल) — 01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० मरियाप्रकाशम देवदास (जे० सी०—174480 के) — 01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० कुरैसामी विश्वनाथ (जे० सी०—171532-एक्स) — 1 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० कृष्णन दिनाकरन (जे० सी०—170386 एक्स) — 01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० लक्ष्मैया नायडू वेणुगोपाल (जे० सी०—170387 ए) — 01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० गोविन्दसामी दौरेसामी (जे० सी०—167874 पी) — 01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० तिम्मप्पा कुरुवल्ली (जे० सी०—174412 एल) — 01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० महादेव नैकर देवराज (जे० सी०—171552 एम) — 01 नवम्बर 1993

नायब सूबेदार जी० डी० अब्दुल ग़नम नागलिंगम (जे० सी०—170216 ए) 01 नवम्बर 1993

सूबेदार एस के टी के रेंक में

नायब सूबेदार एस०के० टी० कृष्णन श्रीकुमारन (जे० सी०—165234 एम) — 01 नवम्बर 1993

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रेंक में

सूबेदार क्लर्क विरयरा शंकरन पदनाजन (जे० सी०—86986 पी) — 01 अगस्त 1992

सूबेदार क्लर्क नौदुकु मन्तोहरा रेड्डी (जे० सी०—86661-एफ) — 01 नवम्बर 1992

सूबेदार क्लर्क कुरुटोयाथु कृष्णा विल्लै गोपालकृष्णन नायर (जे० सी०—88384 ए) — 01 जनवरी 1993

सूबेदार क्लर्क एस० के० मोतैया (जे० सी०—87180-एफ) — 01 मार्च 1993

सूबेदार क्लर्क जे० टी० वेंकटा रंगाचारयलू (जे० सी०—86735 एल) — 01 मार्च 1993

सूबेदार क्लर्क ए० चिन्तास्वामी नायडू (जे० सी०—85549 एच) — 01 मार्च 1993

सूबेदार क्लर्क दण्डापानी गोपाल मुदलियार (जे० सी०—588385 एच) — 01 अप्रैल 1993

सूबेदार क्लर्क चिदम्बरम गणपति (जे० सी०—91741-इस्यू) — 01 अप्रैल 1993

सूबेदार क्लर्क एस० बोरा राजू (जे० सी०—89366 के) — 1 अप्रैल 1993

सूबेदार क्लर्क तन्वारचिरा जोन जोन (जे० सी०—88851-एम) — 01 मार्च 1993

सूबेदार क्लर्क रंगास्वामी कालियप्पन (जे० सी०—88865 एम) — 01 मई 1993

सूबेदार क्लर्क हरियुर तिम्मया (जे० सी०—90832 ए) — 01 जून 1993

सूबेदार क्लर्क पुरयिड्योल देवस्या जोसफ (जे० सी०—90484 के) — 01 जून 1993

सूबेदार क्लर्क कारतियायनी मोहन (जे० सी०—90817-एल) — 01 जून 1993

सूबेदार क्लर्क अदारा मिलानि अदियन (जे० सी०—90819-इस्यू) — 01 जून 1993

सूबेदार क्लर्क पेरीया पूनाची वनधी (जे० सी०—90835 एन) — 01 जून 1993

सूबेदार क्लर्क कृष्णास्वामी वीरामणि (जे० सी०—90829 ए०) — 01 जून, 1993।

सूबेदार क्लर्क देवू दुग्गा राव (जे० सी०—91719 एक्स) 01 जुलाई, 1993।

सूबेदार क्लर्क मोहद मोहनविन (जे० सी०—93195 ए०) — 01 जुलाई, 1993।

सूबेदार क्लर्क कोटे गोडा कोटे गोडा (जे० सी०—91715 एल०) — 01 जुलाई, 1993।

सूबेदार क्लर्क पययप्पन गोस्वामी रेड्डी (जे० सी०—91745 वाई०) — 01 जुलाई, 1993।

सूबेदार क्लर्क सुब्रामणि मेशाक (जे० सी०—91723 ए) — 01 जुलाई, 1993।

सूबेदार क्लर्क चेरिकल केशवन भास्करन (जे० सी०—91722 एक्स०) — 01 जुलाई, 1993।

सूबेदार क्लर्क पाप्पन (जे० सी०—91735 पी०) — 01 अगस्त, 1993।

सूबेदार क्लर्क रानचन्द्रन नायर (जे० सी०—93119 एन०) — 01 अगस्त, 1993।

सूबेदार क्लर्क ऐथप्पा केशव (जे० सी०—93118 एल) — 01 सितम्बर, 1993।

सूबेदार क्लर्क मडूर कृष्णाप्पा गुजारी (जे० सी०—93133 ए०) — 01 सितम्बर, 1993।

सूबेदार क्लर्क करुणाकरन मूनीसामी (जे० सी०—93089 एम) — 01 सितम्बर, 1993।

सूबेदार क्लर्क रामन राधासूति (जे० सी०—93090 इस्यू०) — 01 सितम्बर, 1993।

सूबेदार कलकंठ शंभुजी सोनवन्धन राव (जे० सी०-93086 एन)—01 अक्टूबर, 1993।

सूबेदार कलकंठ पीलापी लक्ष्मण मूर्ति (जे० सी०-93134-एच)—01 अक्टूबर, 1993।

सूबेदार कलकंठ अश्विनियन (जे० सी०-91752पी)—01 अक्टूबर, 1993।

सूबेदार भेजर (एस० के० टी०) के रैंक में

सूबेदार एस० के० टी० धधोडिधिलनवलिल भास्कर नायर मुरलीधरन नायर (जे० सी०-119792 पी)—01 अगस्त, 1993।

सूबेदार (कलकंठ) के रैंक में

नायब सूबेदार कलकंठ वालामुआपनियन पोटियाट्टिल (जे० सी०-139017 वाई)—01 अगस्त, 1992।

नायब सूबेदार कलकंठ करुणाकरन पिल्ले (जे० सी०-149597 एम०)—01 अगस्त, 1992।

नायब सूबेदार कलकंठ किन्ना ट्टुपुरथिल राधाकृष्णन अडिपोडी (जे० सी०-139000 एल०)—01 अगस्त, 1992।

नायब सूबेदार कलकंठ अरुणाथलम कमलनाथन (जे० सी०-145722 एन०)—01 दिसम्बर, 1992।

नायब सूबेदार कलकंठ टी० सी० करुवैया (जे० सी०-144268 एम०)—01 मार्च, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ जी० रामचन्द्रन नायर (जे० सी०-146420 एन०)—01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ सन्तार रेडियार गोविन्दन (जे० सी०-143925 एन०)—01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ के० ई० चाको इट्टियवीरा (जे० सी०-146421 डब्ल्यू०)—01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ श्रीकुमारन (जे० सी०-143986 डब्ल्यू०)—01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ तनिकाचलभैरुमुरगन (जे० सी०-143466 एल०)—01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ सुमारन जनार्थनन (जे० सी०-143467 एन०)—01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ सुधैया पिल्लै अयप्पन (जे० सी०-143468 डब्ल्यू०)—01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ सी० जी० फिलिप (जे० सी०-143469 वाई)—01 अप्रैल, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ काथ पेरुसाल रामामूर्ति (जे० सी०-144269 पी०)—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ अम्नाहन पुसूस (जे० सी०-144099 डब्ल्यू०)—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ तिमप्पा पलाइन (जे० सी०-143989 के)—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ चेलाप्पन पिल्लै सुधाकरन नायर (जे० सी०-143453 एम०)—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ राजैया इसैया (जे० सी०-143990 वाई)—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ गुणास्वामी मुथयल राज (जे० सी०-143454 डब्ल्यू०)—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ सी परसुरामा नाडर (जे० सी०-146422 वाई)—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ तिरुमनो तंगलिंग (जे० सी०-146424 के)—01 मई, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ शन्मुगा सुन्दरम (जे० सी०-146425 एम०)—01 जून 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ नागू नटराजन (जे० सी०-143992 के)—01 जून, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ ओडिरो रेडोप्पा (जे० सी०-146426 पी०)—01 जून, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ पालवेत्तम मुथु सिवम (जे० सी०-144100 ए०)—01 जून 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ कुरुप्पास्वामी पञ्चो मुन्ध (जे० सी०-146427 एम०)—01 जून 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ तन्दोक्कल पालोस गन्नरियल (जे० सी०-144101 एच०)—01 जून 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ तिथ्यन माधवन (जे० सी०-143994 पी०)—01 जून 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ मिचोरो अरविन्दाक्षन (जे० सी०-143995 एम०)—11 जून 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ चोक्कलिंगम बालामुआमनियम (जे० सी०-144103 एन०)—01 जुलाई 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ कादर पार मोहमद (जे० सी०-144104 डब्ल्यू०)—01 जुलाई 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ ए० पलनिचामी (जे० सी०-143996 ए०)—01 जुलाई 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ राजनगम गुरू रामलिंगम (जे० सी०-144105 वाई)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ अलानजेरो अगस्टोन (जे० सी०-144106 एफ०)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कलकंठ रागवण रामाकृष्णन (जे० सी०-144107 के)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कर्क नीलकण्ठ अंबारी संकरन कुट्टी (जे० सी०-143997 एष)--01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कर्क रामन पिल्लै शिवसंकरन (जे० सी०-144108 एम)--01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कर्क रामासामी टेसन (जे० सी०-144109 पी)--01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कर्क पामरथी रामा राव (जे० सी०-147341 एल)--01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कर्क नारायन (जे० सी०-149212 के)--01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कर्क रवीन्द्रन पिल्लै (जे० सी०-145724 वाई)--01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कर्क पन्काजामन नायर (जे० सी०-144270 के)--01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कर्क बोलयार देवप्पा (जे० सी०-144271 एम)--01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कर्क हेम्बना सीताराम गुरु राजाचर (जे० सी०-145726 के)--01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कर्क अय्यासामी पान्डी (जे० सी०-149214 पी०)--01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार कर्क वेलुतेरी राघवन (जे० सी०-144272 पी)--01 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार कर्क कुट्टीयलिल नारायना मुरलीधरन (जे० सी०-144273 एक्स)--1 अगस्त 1993।

नायब सूबेदार कर्क माल्यू करकल डोमिनिक (जे० सी०-144174 पी) --1 अगस्त 1993।

नायब सूबेदार कर्क मडमबत सेखरन मोहन (जे० सी०-144176 ए) --1 अगस्त 1993।

नायब सूबेदार कर्क रामन पलनी अप्पन (जे० सी०-147343 डब्ल्यू)--1 अगस्त 1993।

नायब सूबेदार कर्क चिदम्बरम राधाकृष्णन (जे० सी०-150680 डब्ल्यू) --1 अगस्त 1993।

नायब सूबेदार कर्क उपकारम सेलवाराज (जे० सी०-149218 एल) --1 अगस्त 1993।

नायब सूबेदार कर्क गोविन्दसामी धरमाराज (जे० सी०-146431 ए) --1 जुलाई 1993।

नायब सूबेदार कर्क गणपति अय्यकन्नू (जे० सी०-147344 वाई) --1 अगस्त 1993।

नायब सूबेदार कर्क वेल्लै नटराजन (जे० सी०-150681 वाई) --1 अगस्त 1993।

नायब सूबेदार कर्क करुपया कौन्डर कृष्णन (जे० सी०-150683 के) --1 अगस्त 1993।

नायब सूबेदार कर्क अब्दुल मोहम्मद सिकन्दर (जे० सी०-147664 एन) --1 अगस्त 1993।

नायब सूबेदार कर्क पिरियासामी सुडलै मुत्तु सुब्बैया (जे० सी०-149221 एल) --1 अगस्त 1993।

नायब सूबेदार कर्क कृष्णाचेट्टी पंमुगम (जे० सी०-151526 के) --1 सितम्बर 1993।

नायब सूबेदार कर्क गुरुसामी राजामाणिकम (जे० सी०-151527 वाई)--1 सितम्बर 1993।

नायब सूबेदार कर्क जीवा गाऊ यादगिरी (जे० सी०-154136 एम) --1 सितम्बर 1993।

नायब सूबेदार कर्क मारीमुत्तू वृष्णस्वामी (जे० सी०-156613 एफ) --1 सितम्बर 1993।

सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार एस० के० टी० आर० गुरुनाथन (जे० सी०-165253 एक्स) --1 अगस्त 1993।

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार जी० डी० रामलू रमणा (जे० सी०-159640 डब्ल्यू) --1 मई 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० रतिना मुथलै लोगनाथन (जे० सी०-156557 एन) --1 जून 1992।

नायब सूबेदार जी० डी० अर्जुनन मोहन (जे० सी०-162412 वाई) --1 जनवरी 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० रतोनसामी सिवालिंगम (जे० सी०-159797 डब्ल्यू) --1 जनवरी 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० पलनी गोविन्द राजन (जे० सी०-159798 वाई) --1 जनवरी 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० केशवन (जे० सी०-159801 एन) --1 फरवरी 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० मुनासामी रवीकुमार (जे० सी०-159891 पी०) --1 फरवरी 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० गोविन्दासामी टीकारामन (जे० सी०-159893 एल) — 1 फरवरी 1993।

नायब सूबेदार वीकनकन राबदर नकुप्स्वामी (जे० सी०-159895 डब्ल्यू) — 1 फरवरी 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० पुल्लु चन्द्र राव (जे० सी०-159597 एल) — 1 फरवरी 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० बेली चेट्टी रामचन्द्रू (जे० सी०-159896 वाई) 1 फरवरी 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० केशवा चन्द्रचूदन (जे० सी०-163276 ए) — 1 मार्च 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० सकरैया थोमस (जे० सी०-165247 के) — 1 मार्च 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० एम० पुरुषोत्तमन (जे० सी०-163263 ए) — 1 मार्च 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० नागन वेवास्तवन (जे० सी०-165417 ए) — 1 मार्च 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० रामैया सुब्रामनियन (जे० सी०-163266 डब्ल्यू) — 1 मार्च 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० अद्रासम कन्डी लक्षमनन -170384 एम) — 1 जून 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० श्रीधरन पी० (जे० सी०-163271 एफ) — 1 जून 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० चिनाय्यन चित्तलामणी (जे० सी०-163286 के) — 1 जून 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० अरुमुगम विजयन (जे० सी०-162811 एन) — 1 जून 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० अरुमुगम अन्नंदराज (जे० सी०-165427 एम) — 1 जून 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० शेरैस्वामी कृष्णन (जे० सी०-163282 एन) — 1 जून, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० तिनमरायन चन्द्रन (जे० सी०-163183 डब्ल्यू) — 1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० चिन्नाप्पा गौन्डर अन्नामलै (जे० सी०-165442 एफ) — 1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० राधोत्तमो पान्दुरंगम (जे० सी०-170399 पी) — 1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० प्रभाकरन नायर (जे० सी०-165242 एल) — 1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० बुदवन सुब्रामनियन (जे० सी०-165429 एक्स) — 1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० महोमीनाथन सान्तीयगू (जे० सी०-16359 एच) — 1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० हन्ना पेरुमाल सदासिधम (जे० सी०-162914 एफ) — 1 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० दोरैसामी तिरुमूर्ति (जे० सी०-165443 के) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० पेरुमाल जयावेलू (जे० सी०-167864 एल) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० कन्नु मंतिरी श्रीनिवासन (जे० सी०-165243 एन) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० चिन्नापयन सुगुमार (जे० सी०-165444 एम) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० मुनीसामी सोमसुन्दरम (जे० सी०-162916 एम) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० बासप्पा मल्लापुर (जे० सी०-162917 पी) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० बालारामन मेघनाथन (जे० सी०-165430 एन) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० मुनीसामी मुनीरतीनम (जे० सी०-163264 एल) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० राजरतीनम चन्द्रसेखरन (जे० सी०-162920 पी) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० सुन्दरामूर्ति सेल्वसेकरन (जे० सी०-163265 एन) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० प्रकाशाल डी० (जे० सी०-162921 एक्स) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० मन्बला यादैया (जे० सी०-165245 वाई) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० पोल पेरुमाल सुब्बैया (जे० सी०-165446 एक्स) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० मरुथा पडयाची ए० (जे० सी०-165431 पी) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० कन्नन बालारामन (जे० सी०-163267 वाई) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० सन्मैया अय्यार (जे० सी०-165447 ए) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० कन्नाप्पन रतीनम (जे० सी०-163268 पी) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० कन्नु मुदलैयर मनोहरन (जे० सी०-163269 के) — 1 अगस्त, 1993।

नायब सूबेदार जी० डी० गोविन्दशामी अम्बेदकर (जे० सी०-165231 बाई)--1 सितम्बर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० पलनीशामी (जे० सी०-162922 ए)--1 सितम्बर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० इतिरा कुशलप्पा नाथप्पा (जे० सी०-163287 एम)--1 सितम्बर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० गोविन्दाशामी ऋणामूर्ति (जे० सी०-167861 एम)--1 सितम्बर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० मुनीश्वामी नागराज (जे० सी०-170356 ए)--1 सितम्बर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० गनपति पिरोया करुप्पन (जे० सी०-159881 डब्ल्यू)--1 सितम्बर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० जकूला चिदानन्दन (जे० सी०-159650 ए)--1 सितम्बर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० सदानन्दन किन्नको वीटील (जे० सी०-163273 एम)--1 सितम्बर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० नल्लाशामी केसवराजन (जे० सी०-165448 एच)--1 सितम्बर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० मानिकम के० वी० (जे० सी०-163289 एक्स)--1 सितम्बर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० अरुलाप्पन लूरदूसामी (जे० सी०-165450 ए)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० मोहम्मद हुसैन मुहम्मद हुसैन (जे० सी०-163274 पी)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० बालासुन्दरम पुन्मबालम (जे० सी०-163275 एक्स)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० भासकरन सी० आर० (जे० सी०-165248 एम)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० चिन्नेया अलवन्दर (जे० सी०-166867 एम)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० माधवन अश्वथन कुट्टी (जे० सी०-165249 पी)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० सामीनाथन शेकर (जे० सी०-170401 एफ)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० कन्नीप्रप्पन विनायगम (जे० सी०-166874 एच)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० सन्कर गौन्दर नटराजन (जे० सी०-166868 पी)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० विथल निबस्थो पाटिल (जे० सी०-166869 एक्स)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० ए० आरेया (जे० सी०-166870 एम)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० यशनी अदस्त रेड्डी (जे० सी०-166875 एन)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० राजू शुभाश्रिणि (जे० सी०-167862 ए)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० मिदम्बलम मोंजी (जे० सी०-166871 पी)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० पुनैया सुत्तानी (जे० सी०-166877 डब्ल्यू)--1 अक्टूबर, 1993 ।

नायब सूबेदार जी० डी० राजेंद्रन (जे० सी०-166878 बाई)--1 अक्टूबर, 1993 ।

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क जी डी) श्याम लाल शर्मा (जे० सी०-124964 एच)--01 अक्टूबर, 1993 ।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) हरद्वी राव (जे० सी०-124378 ए)--01 नवम्बर, 1993 ।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) कानलाकर नाईक (जे० सी०-124516 डब्ल्यू)--01 दिसम्बर, 1993 ।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) के० नारायणन नायर (जे० सी०-123073 एन)--01 दिसम्बर, 1993 ।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) भीमराव पांडुरंग हंगले (जे० सी०-124396 एच)--01 दिसम्बर, 1993 ।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) किशन नखडे (जे० सी०-124389 एम)--01 दिसम्बर 1993 ।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) सेनुभाधवन पी० सी० (जे० सी०-123115 पी)--01 दिसम्बर, 1993 ।

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार (जी डी) रामेश्वर सिंह (जे० सी०-126244 ए)--01 अक्टूबर, 1993 ।

सूबेदार (जी डी) वाशा उत्तेहर (जे० सी०-126249 बाई)--01 अक्टूबर, 1993 ।

सूबेदार (जी डी) शशिचंद्र वरेकर (जे० सी०-126239 पी)--01 नवम्बर, 1993 ।

सूबेदार (जी डी) पांडुरंग पडाने (जे० सी०-126255 एन)--01 नवम्बर, 1993 ।

सूबेदार (जी डी) गुरदीप सिंह (जे० सी०-130373 एन)--01 दिसम्बर, 1993 ।



- सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) हरनेक सिंह (जे० सी०—162372 एफ)—01 जुलाई, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) जनार्दनन् पिरुलै पो० के० (जे० सी०—166909 एन)—01 अगस्त, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) दलवीन्दर सिंह (जे० सी०—159902 एफ)—01 अगस्त, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) ज्ञान सिंह (जे० सी०—160359 ए)—01 अगस्त, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) करतार सिंह (जे० सी०—162362 वाई)—01 सितम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) विठू येसारे (जे० सी०—162366 एफ)—01 सितम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) जीत सिंह (जे० सी०—160362 ए)—01 सितम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) अजायब सिंह (जे० सी०—162371 ए)—01 सितम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) राम सिंह (जे० सी०—162369 एफ)—01 सितम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) थामस एम एम (जे० सी०—162373 एल)—01 सितम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) दुर्गा सिंह थाकुर (जे० सी०—138799 एन)—01 सितम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) अब्दुल बसीत खान (जे० सी०—142182 पी)—01 सितम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के० सी० जनार्दनन् (जे० सी०—162358 डब्ल्यू)—01 सितम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) मोहम्मद यफ्की खान (जे० सी०—162375 डब्ल्यू)—01 सितम्बर 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) मोहन लाल सैन (जे० सी०—163185 डब्ल्यू)—01 सितम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) शिवाजी साखर (जे० सी०—160363 एच)—01 सितम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) दरबारा सिंह (जे० सी०—162376 वाई)—01 अक्टूबर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) मोहिन्दर सिंह (जे० सी०—162377 एफ)—01 अक्टूबर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) लक्ष्मण सिंह (जे० सी०—163186 वाई)—01 अक्टूबर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) सोहन सिंह (जे० सी०—162380 एफ)—01 अक्टूबर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) कृष्ण सिंह धेहरान (जे० सी०—163187 एफ)—01 अक्टूबर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) थामस के० टी० (जे० सी०—162379 एम)—01 अक्टूबर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) मोहम्मद हाफीज खान (जे० सी०—162381 के)—01 अक्टूबर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) पुरन सिंह (जे० सी०—163188 के)—01 अक्टूबर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) अब्दुल रहमान खान (जे० सी०—165408 एफ)—01 अक्टूबर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) एम० के० प्रभाकरन (जे० सी०—163194 एफ)—01 अक्टूबर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) सोहन सिंह (जे० सी०—166911 एल)—01 नवम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) श्रीकांत गावडे (जे० सी०—165409 के)—01 नवम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) विष्णु चिमने (जे० सी०—163193 पी)—01 नवम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) प्रीतम सिंह (जे० सी०—163191 के)—01 नवम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) आत्मा सिंह (जे० सी०—163192 एम)—01 नवम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) मुखदेव सिंह बैम (जे० सी०—163196 एच)—01 नवम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) श्री कृष्णा रामदासी (जे० सी०—163200 ए)—01 नवम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) उजागर सिंह (जे० सी०—163199 डब्ल्यू)—01 नवम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) मोहर सिंह शर्मा (जे० सी०—163197 एल)—01 नवम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) थामस पी० डी० (जे० सी०—166921 पी)—01 नवम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) बाबू सिंह (जे० सी०—163202 एल)—01 नवम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) करतार सिंह (जे० सी०—165412 के)—01 नवम्बर, 1993 ।
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) मोहिन्दर सिंह (जे० सी०—165411 के)—01 नवम्बर, 1993 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) तरलोक सिंह (जे० सी०-163203 एन)—01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) करीमुद्दीन खान (जे० सी०-165410 बाई)—01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) शिव मंगल प्रसाद (जे० सी०-165414 पी)—01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) हुसैन खान (जे० सी०-166912 एन)—01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) हरीश चन्द्र पाठक (जे० सी०-163205 एफ)—01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) करम सिंह (जे० सी०-165415 एक्स)—01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) गुरदेव सिंह (जे० सी०-166913 डब्ल्यू)—01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) वत्सलम सोनाजी लाहोरे (जे० सी०-167974 ए)—01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) दीपक इजे (जे० सी०-166916 के)—01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) सोहन सिंह (जे० सी०-166917 एम)—01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) संयव सिबले हैवर (जे० सी०-174595 एम)—01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) सुरजान सिंह (जे० सी०-166920 एम)—01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) राधे श्याम (जे० सी०-197289 के)—01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) अजीत सिंह (जे० सी०-166922 एक्स)—01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) मुख्तार सिंह शिष्टु (जे० सी०-197288 एफ)—01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) हरमीतर सरूप सिंह (जे० सी०-167976 एल)—01 दिसम्बर, 1993।

#### सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी० डी०) नारायण लाड (जे० सी०-162443 बाई)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) महादेव महामुनकर (जे० सी०-160383 डब्ल्यू)—01 जुलाई, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) राम चरन (जे० सी०-160393 ए)—01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) सन्तोख सिंह (जे० सी०-162449 ए)—01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) वामन (जे० सी०-159491 एन)—01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मेहर सिंह (जे० सी०-163175 एम)—01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) सेवा सिंह (जे० सी०-148880 एन)—01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) रघुनाथ फडके (जे० सी०-156533 के)—01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) जगीर सिंह (जे० सी०-162880 बाई)—01 सितम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) जयराम गटकर (जे० सी०-160397 डब्ल्यू)—01 अक्टूबर, 1992।

नायब सूबेदार (जी० डी०) राम सिंह (जे० सी०-159492 डब्ल्यू)—01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) अजायब सिंह ढिलों (जे० सी०-159495 के)—01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मंगार सिंह (जे० सी०-159496 एम)—01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) चरन सिंह (जे० सी०-159498 एन)—01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) बली राम गोले (जे० सी०-159499 ए)—01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मोहम्मद रशीद संयद (जे० सी०-159952 एम)—01 अक्टूबर, 1992।

नायब सूबेदार (जी० डी०) अमरजित सिंह (जे० सी०-162885 एस)—01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) पतंग खापे (जे० सी०-159843 ए)—01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-159500 के)—01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) दर्शन सिंह (जे० सी०-174635 एच)—01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) सबीन्दर सिंह (जे० सी०-163168 डब्ल्यू)—01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) बख्तावर सिंह (जे० सी०-159940 एक्स)—01 अक्टूबर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मूबारक हुसैन अनसारी (जे० सी०-163164 ए)—01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) अजीज खान (जे० सी०-165345 के) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) गुरपाल सिंह (जे० सी०-166902 के) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) रघुबीर सिंह (जे० सी०-167945 एल) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) रूप सिंह (जे० सी०-163151 एच) — 01 नवम्बर 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) चन्द्र कांत भोरगे (जे० सी०-163163 एक्स) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) चम्प्रीका प्रसाद (जे० सी०-163154 डब्ल्यू) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) शंगारा सिंह (जे० सी०-153144 एम) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) हरी सिंह (जे० सी०-163161 एम) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) देस राज (जे० सी०-163172 वाई) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) विष्णुनाथ प्रसाद (जे० सी०-163152 एल) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) आनन्द राव भोसले (जे० सी०-163153 एन) — 01 नवम्बर 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) सुष्वा सिंह (जे० सी०-163173 एफ) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) जसवन्त सिंह (जे० सी०-163159 पी) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) साधु सिंह (जे० सी०-163146 एक्स) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) चन्द्र कान्त शिंदे (जे० सी०-163147 ए) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) बलवन्त सिंह (जे० सी०-163176 पी) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) जगीर सिंह (जे० सी०-163148 एच०) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) संगारा सिंह (जे० सी०-165333 पी०) — 01 नवम्बर 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मधुकर कलामकर (जे० सी०-165326 वाई) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) दत्त चव्हाण (जे० सी०-163165 एच) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) पीरू खान (जे० सी०-165325 डब्ल्यू०) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) दलबीर सिंह (जे० सी०-163178 ए) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) निवास सिंह (जे० सी०-163174 के) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) नारायण कदम (जे० सी०-163166 एल) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मोहम्मद अनवर (जे० सी०-163169 वाई०) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) कुलवन्त सिंह (जे० सी०-163160 के) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) अमर सिंह (जे० सी०-163167 एन) — 01 नवम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) अमरजीत सिंह (जे० सी०-163170 एन) — 01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) दीप सिंह बंगर (जे० सी०-167961 एच) — 01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) जमबीर सिंह (जे० सी०-165329 एम) — 01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) राम भोंसले (जे० सी०-163180 एक्स) — 01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मुन्ना सिंह (जे० सी०-165341 एन) — 01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) शांताराम सालुके (जे० सी०-165338 एम) — 01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) बलबीर सिंह (जे० सी०-165339 डब्ल्यू) — 01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) वासन निकम (जे० सी०-165337 एल) — 01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मिलाबा सिंह (जे० सी०-170423 ए) — 01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) पाल सिंह (जे० सी०-165334 एक्स०) — 01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) सखाराम पवार (जे० सी०-165335 ए) — 01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) पांडुरंग पवार (जे० सी०-165336 एच०) — 01 दिसम्बर, 1993।

नायब सूबेदार (जी० डी०) जंग सिंह (जे० सी०-166896 एफ०) — 01 दिसम्बर, 1993।

सूबेदार (आर० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार (आर० टी०) तीरथ सिंह (जे० सी०—78073 वाई०)—01 जून, 1993।

नायब सूबेदार (आर० टी०) अमर सिंह (जे० सी०—78403 एम०)—01 जून, 1993।

डी० आर० धनकानी,  
अवर सचिव

राष्ट्रीय कैंडेट कोर

सं० 430, दिनांक 12 अप्रैल, 1994—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को भारत सरकार के पत्र सं० 5431/प्रमोशन/डी० जी० एन० सी० सी०/एम० एस० (बी) 818/ए०/डी० (जी० एस०—6) दिनांक 07 अप्रैल, 1981 के अनुसार लेफ्टि० कर्नल के चयन रैंक में पदोन्नति करते हैं। उनके वेतनमान का नियमन भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 5431/प्रमोशन/डी० जी० एन० सी० सी०/एम० एस० (बी) 257/ए०/डी० (जी० एस०—6) दिनांक 03 जून, 1981 के अनुसार किया जायेगा। स्थायी संवर्ग में उनकी पदोन्नति तथा वेतन के लिये उनकी वरिष्ठता रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 5110/81/डी० जी० एन० सी० सी०/पर्स/ए/डी (जी० एस०—6) दिनांक 13 मई, 1981 के अनुसार निश्चित की जायेगी।

पूर्णकालिक एन० सी० सी० स्थाई कमीशन प्राप्त अफसर

(थल सेना स्कन्ध)

(चयन द्वारा लेफ्टि० कर्नल के रूप में)

ए० ए० अप्राइम (एन० सी० सी०/पी० सी०—12103)  
—(01 दिसम्बर, 1993)।

वाई० पी० पोखरियाल (एन० सी० सी०/पी० सी०—12101)—(08 दिसम्बर, 1993)।

आर० के० बिल्ला (एन० सी० सी०/पी० सी०—12104)  
—(21 जनवरी, 1994)।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को भारत सरकार के पत्र सं० 5431/प्रमोशन/डी० जी० एन० सी० सी०/एम० एस० (बी) 818/ए/डी (जी० एस०—6) दिनांक 07 अप्रैल, 1981 के अनुसार लेफ्टि० कर्नल के चयन रैंक में पदोन्नत करते हैं। उनके वेतनमान का नियमन भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 5431/प्रमोशन/डी० जी० एन० सी० सी०/एम० एस०/ (बी) 1257/ए०/डी० (जी० एस०—6) दिनांक 03 जून, 1981 के अनुसार किया जायेगा। स्थायी संवर्ग में उनकी पदोन्नति तथा वेतन के लिये उनकी वरिष्ठता रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 5110/81/डी० जी० एन० सी० सी०/पर्स/ए/

1172/डी (जी० एस०—6) दिनांक 13 मई, 1981 के अनुसार निश्चित की जायेगी।

पूर्णकालिक एन० सी० सी० स्थाई कमीशन प्राप्त अफसर

(थल सेना स्कन्ध)

(चयन द्वारा ले० कर्नल के रूप में)

पी० पी० सिंह (एन० सी० सी०/पी० सी०—11790)

प्रमोशन की तारीख—18 सितम्बर, 1992।

वेतन भत्ता की तारीख 16 अक्टूबर, 1993।

टी० एस० स्याल, उप महानिदेशक

(पी एब एफ)

(नौसेना शाखा)

सं० 431, दिनांक 28 अप्रैल, 1994—राष्ट्रपति नौसेना आदेश 79 के 127 और रक्षा मंत्रालय पत्र सं० एन सी/3066/एन० एच० क्यू/3182/डी० (एन—2) दिनांक 10 जून, 77 के अधीन भारतीय नौसेना की इंजीनियरिंग शाखा (नौसेना निर्माता कोर) में निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नौसेना शाखा

स्थायी कमीशन

कार्यकारी सब ले० सब ले० से ले०  
से सब ले०

पदोन्नति की तिथि/पदोन्नति की तिथि  
वरीयता केवल  
पदोन्नति के लिए

विनीत तिवारी

(41378—आर)

02 सितम्बर, 89 17 मार्च 90

02 सितम्बर 88

तोमर दिवाकर

(41422—आर)

07 अगस्त 90 07 फरवरी 91

07 अगस्त 89

एस० सी० मित्रोचा,  
सहायक कार्मिक निदेशक  
जे० ओ० ए० एण्ड आर०

वायु शाखा

नं० 432, दिनांक 26 अप्रैल, 1994 --राष्ट्रपति, सहर्ष, निम्नलिखित कार्यवाहक पदोन्नति करने हैं :—

भारतीय वायु सेना

सम्भारिणी शाखा

एमर कमांडर से कार्यवाहक एयर वाइस मार्शल के रैंक में

के० के० जैन (सेवा निवृत्त)---(4176)---5 जुलाई, 1984 ।

वैमा० इंजी० शाखा

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

बी० वर्मा, वी० एम० एम० (11233) ए० ई० (एल) 28 अगस्त, 1991 ।

[इतका नाम वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन टी रामानुजम (10695) ए० ई० (एल) और जे० आर० बब्बर (10727) ए० ई० (एल) के बीच में आयेगा] ।

चन्द्र मोहन (11214) ए० ई० (एल)---3 फरवरी 1992 ।

[इतका नाम वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन राज गोपाल (10797) ए० ई० (एल) और एम० पी० तिवारी (10691) ए० ई० (एल) के बीच में आयेगा] ।

जे० डब्ल्यू० आर० चिन्मया (11463) ए० ई० (एल) 4 अगस्त, 1992/1 अगस्त, 1992 (एन० एम०) ।

एस० सिंह (11489 ए० ई० (एल))---4 अगस्त, 1992 /1 अगस्त, 1992 (एन० एम०) ।

एस० के० सोनी (11477) ए० ई० (एल)---4 अगस्त, 1992 /1 अगस्त, 1992 (एन० एम०) ।

आर० के० शर्मा (11496 ए० ई० (एल))---4 अगस्त 92 /1 अगस्त, 1992 (एन० एम०) ।

टी० टी० जॉब (11507) ए० ई० (एम०)---4 अगस्त, 1992 /1 अगस्त 1992 (एन० एम०) ।

ए० के० चक्रवर्ती (11501) ए० ई० (एम०)---4 अगस्त 1992 /1 अगस्त, 1992 (एन० एम०) ।

एस० के० चक्रवर्ती (11487) ए० ई० (एल)---4 अगस्त, 1992 /1 अगस्त, 1992 (एन० एम०) ।

ए० अग्रवाल (11502) ए० ई० (एम०)---4 अगस्त, 1992 /1 अगस्त, 1992 (एन० एम०) ।

अम्बरीश कुमार (11547) ए० ई० (एल)---4 अगस्त, 1992/1 अगस्त, 1992 (एन० एम०) ।

एन० आर० गंगाल कृष्णन (11558) ए० ई० (एल) ---4 अगस्त 1992 /1 अगस्त, 1992 (एन० एम०) ।

एम० एस० लहरी (11568) ए० ई० (एल)---4 अगस्त, 1992/1 अगस्त, 1992 (एन० एम०) ।

डी० के० हेगडे (11743) ए० ई० (एल)---4 अगस्त 1992 /1 अगस्त, 1992 (एन० एम०) ।

आई० के० कपूर (11185) ए० ई० (एल)---4 अगस्त 1992 /1 अगस्त, 1992 (एन० एम०) ।

[ग्रुप कैप्टन जे० डब्ल्यू० आर० चिन्मया (11463) ए० ई० (एल) में ग्रुप कैप्टन आई० के० कपूर (11185) ए० ई० (एल) तक के नाम, वरीयता सूची में, ग्रुप कैप्टन डी० के० चन्दा (11072) ए० ई० (एम०) और एन० जी० आर० प्रमारी (7913) ए० ई० (एम०) के बीच में आयेगा] ।

जकेरिया आई० (सेवानिवृत्त) (9948) ए० ई० (एल) ---9 अगस्त, 1992 ।

जी० एम० मूति (11129) ए० ई० (एल)---11 जनवरी, 1993 ।

मुगरी लाल (11222) ए० ई० (एम०)---15 मार्च, 1993 ।

वैमानिक इंजीनियरी शाखा

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक में

ए० के० चक्रवर्ती (11501), वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---01 अगस्त, 1988 ।

[वरीयता क्रम में इतका नाम विंग कमांडर आर० सी० ककड़ (11481) वैमा० इंजी० (इलेक्ट) के नीचे आयेगा] ।

जे० सी० भसीरा (11073) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---11 मार्च 1991 ।

[वरीयता क्रम में इतका नाम विंग कमांडर एन० एम० अरोड़ा (12606) वैमा० इंजी० (इलेक्ट) के नीचे आयेगा] ।

आर० के० पोडा (12886) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी), 11 मार्च 1991 ।

[वरीयता क्रम में इतका नाम विंग कमांडर एस० एम० मिश्र (12865) वैमा० इंजी० (इलेक्ट) तथा एन० के० जोहरी (12816) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी) के बीच आयेगा] ।

एन० के० शर्मा (12857) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
11 मार्च 1991 ।

[बरीयता क्रम में इनका नाम विंग कमांडर सवारी राज (12858) वैमा० इंजी० (इलैक्ट) के नीचे आयेगा] ।

आर० पी० सिंह (12639) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)  
11 मार्च 1991 ।

[बरीयता क्रम में इनका नाम विंग कमांडर एस एम शर्मा (12600) वैमा० इंजी० (इलैक्ट) के नीचे आयेगा] ।

एस० पी० जग्गी (12692) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
02 मई 1991 ।

भारत शेर बीर सिंह (12291) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
02 मई 1991 ।

आर० एम० धालीवाल (12454) वैमा० इंजी०, (इलैक्ट)  
02 मई 1991 ।

एम० एम० नाथर (12647) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01 जून 1991 ।

जी० एन० चावला (13074) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01 जून 1991 ।

ए० बी० परंगवाई (12625) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01 जून 1991 ।

अमरनाथ राय (12638) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01 जून 1991 ।

एन० पी० कौशिक (12579) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01 जुलाई 1991 ।

के० बी० पुरोहित (12649) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01 जुलाई 1991 ।

डी० के० भसीन (12588) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01 अगस्त 1991 ।

श्री० बी० पुरंग (12635) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01 अगस्त 1991 ।

सुदर्शन कुमार (12648) वैमा० इंजी०, (इलैक्ट)---  
01 अगस्त 1991 ।

एन० के० जैसनि (12832) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01 अगस्त 1991 ।

आई० एम० एस० राव (12798) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)  
01 अगस्त 1991 ।

ए० बी० शंकर (13211) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01 अगस्त 1991 ।

एम० के० जर्मा (12818) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
26 अगस्त 1991 ।

ए० के० शर्मा (12836) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
26 अगस्त 1991 ।

ए० आर० मागू (12876) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
26 अगस्त 1991 ।

ओंकार प्रट्टचार्य (12823) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
26 अगस्त 1991 ।

बी० के० नानदी (12842) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
26 अगस्त 1991 ।

एस० एम० मेहरा (12884) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
26 अगस्त 1991 ।

आर० यादव (12809) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
26 अगस्त 1991 ।

आर० भदवार (12828) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
26 अगस्त 1991 ।

जे० एन० ब्राजवा (12831) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
26 अगस्त 1991 ।

आर० कुमार (12813) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
26 अगस्त 1991 ।

ए० बी० पन्जावी (12883) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
26 अगस्त 1991 ।

टी० पी० एन० सिंह (12800) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)  
26 अगस्त 1991 ।

साजद रहीमा (13031) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01 सितम्बर 1991 ।

एस० सी० दोवान (13023) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01 सितम्बर 1991 ।

एस० धर (13027) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01 सितम्बर 1991 ।

पी० एस० कारवे (13036) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01 सितम्बर 1991 ।

एन० कोल (13166) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
08 सितम्बर 1991 ।

आर० एम० पेडी (13181) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-10-91

आर० एम० तलवा (13167) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)  
01-10-91

एम० गीरीशंकर (13171) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01-10-91

डी० कपूर (13185) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-10-91

एम० एम० धामी (13459) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01-11-91

आर० एल० कौल (13200) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-11-91

आर० एल० कामथ (13183) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-11-91

आर० एम० संघु (13174) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01-11-91

एम० एस० देवपा (13187) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-11-91

एम० एम० तलवावादी (13195) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)  
01-11-91

जी० एस० बाजपेयी (13168) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01-12-91

ए० के० सान्याल (13189) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-12-91

जी० पी० एस० दुआ (13306) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-01-92

पी० एम० संघु (13326) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-01-92

एम० एम० गिरि (13283) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-02-92

जी० एस० बकशी (13294) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-02-92

ए० के० हांडा (13286) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-02-92

पी० एस० गिल (13325) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-2-92

बी० के० इन् (13324) वैमा० इंजी० (यांत्रिकी)---  
01-3-92

पी० के० पाण्डा (13291) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-3-92

एन० वर्मा (13282) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-3-92

पी० के० नरेन्द्र (13310) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-3-92

एम० एम० चतुर्वेदी (13313) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-8-92

के० सिंह (13302) वैमा० इंजी० (इलैक्ट)---  
01-8-92 ।

के० एन० मिश्रा  
सहायक निदेशक कार्मिक (अफसर) 2(ए)

#### धन सेना विभाग

सं० 433, दिनांक 22 अप्रैल 1994—राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित अफसर को अधिवर्ष आयु प्राप्त करने पर सेवा से  
निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

मथाई आयोग

त्रिग्रेडियर एम० चटर्जी (एम० आर०-1732) ए० एस० सी  
पी सी—31-1-1990 (अपराह्न) ।

कर्नल के० सी० हल्दर (एम० आर०-2151) ए०  
एम० सी०/पी० सी०—31-1-1992 (अपराह्न)

कर्नल पी० के० राथर (एम० आर०-1808) ए०  
एम० सी०/पी० सी०—30-9-1992 (अपराह्न)

कर्नल सी० के० कपूर (एम० आर०-2119) ए० एम०  
सी०/पी० सी०—31-12-1992 (अपराह्न)

ले० कर्नल ए० एम० भटनागर (एम० आर० 2106)  
ए० एम० सी०/पी० सी०—30-11-1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल जे० पी० जैत (एम० आर० -1661) ए०  
एम० सी०/पी० सी०—31-12-1990 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल एम० के० वर्मा (एम० आर० - 1910)  
ए० एम० सी०/पी० सी०—30-6-1993 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल आई० टी० लोबा (एम० आर०—2004)  
ए० एम० सी०/पी० सी०—30-11-1990 (अपराह्न) ।

एस० के० अदावल,  
ए० वी० एम०  
अपर महा निदे० सं० से० चि० से०

ले० कर्नल आर० वी० गुप्ता (एम० आर०—2373)  
ए० एम० सी०/पी० सी०—11-5-90 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल व० बी० महेन्द्राकर (एम० आर०—2368)  
ए० एम० सी०/पी० सी०—17-12-90 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (श्रीमती) एम० ओबराय (एम० आर० 2286)  
ए० एम० सी०/पी० सी०—30-11-93 (अपराह्न) ।

कर्नल वी० के० मदान (एम० आर० - 2516) ए०  
एम० सी०/पी० सी०—19-10-93 (अपराह्न) ।

एस० के० अदावल  
ए० वी० एम०  
अपर महा निदे० सं० से० चि० से०

सं० 434, दिनांक 22-4-94—राष्ट्रपति निम्नलिखित  
अफसर को उनकी प्रार्थना पर समय पूर्व सेना से निवृत्त  
होने तथा उनकी स्थानान्तरण अफसरों की नियुक्ति रिजर्व  
श्रेणी (एक्स) में करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

विंग कमांडर ए० जोसेफ (12362) एम० आर०—  
2698) ए० एम० सी०/पी० सी०—5-4-93 (अपराह्न) ।

ग्रुप कैप्टन एम० वी० दीक्षित (9967) (एम० आर०—  
2431) ए० एम० सी०/पी० सी०—30-6-93 (अपराह्न) ।

विंग कमांडर एम० सी० वी० भाटिया (एम० आर०  
2955) ए० एम० सी०/पी० सी०—31-12-92 (अपराह्न) ।

विंग कमांडर पी० एम० रंधावा (एम० आर०—2620)  
ए० एम० सी०/पी० सी०—31-10-93 (अपराह्न) ।

विंग कमांडर ए० राय चौधरी (एम० आर०—2741)  
(11268) ए० एम० सी०/पी० सी०—31-10-93 (अपराह्न) ।

(सेना शाखा)  
शाब्दिक

सं० 435, दिनांक 18-4-94 — भारत के  
राजपत्र दिनांक 25 अप्रैल 92 में नियमित सेना 'स्थायी  
कमीशन' शीर्षक और उपशीर्षक मेजर से ले० कर्नल के मूल  
रैंक में (चयन द्वारा) में आर० सिंह (आई० सी०—19485  
एच०) इनफैंटरी, 1 अक्टूबर 1988 के नाम के बाद :—

के लिए : (1) एम० गंगूली (आई० सी०—19538 डब्ल्यू)  
इनफैंटरी, 1 जनवरी 1988 ।

(2) पी० एम० रौतेला (आई० सी०—19542  
वाई) इनफैंटरी, 1 जनवरी 1988 ।

पढ़ा जाए : (1) एम० गंगूली (आई० सी०—19538 डब्ल्यू)  
इनफैंटरी, 1 जनवरी 1989 ।

(2) पी० एम० रौतेला (आई० सी०—19542 वाई)  
इनफैंटरी, 1 जनवरी 1989 ।

मनजीत सिंह  
सी० एम० ओ०  
डी० ए० एम० एस०—ए 8



## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st May 1994

KARYALAYA MAHA NIDESHAK SASHASTRA SENA  
CHIKITSA SEWA/DG-3D

No. 419. Dated the 7th April 1994.—The President is pleased to lift the probation period and appoint Shri Shyam Sunder Lal Parashar, Lecturer in Health Education and Family Planning (Non-Medical) (Group 'A' Gazetted) in a substantive capacity at AFMC Pune w.e.f. 20th Jan 92.

ASHOK CHATURVADI  
Col  
Dir AFMS (H)

ARMY BRANCH  
(QMG's BRANCH)

No. 420. dated the 7th April 1994.—The following Civilian Staff Officers are appointed as Selection Grade Officers (SCSO) of AFHQ Civil Service under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules, 1968 w.e.f. the dates shown against their names for the period upto 30-4-94 or till regular incumbents become available, whichever is earlier and posted in QMG's Branch.

1. Shri S Thankappan—28 Feb 94
2. Shri V K Mishra—11 Mar 94
3. Smt. Rekha Chopra—23 Feb 94

2. These appointments are made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

## DGAFMS

Shri Nngendra Nath Sharma, Assistant is appointed as Officiating Assistant Civilian Staff Officer (Group 'B' Gazetted) in AFHQ Civilian Service wef 23-2-94 until further orders.

The appointment is subject to modification as may be necessary in the implementation of CAT (PB) judgement dated 20-11-92 in TA No. 356/85 in CW No. 3/78 (MG Bansal & Ors Vs Union of India & Ors) and other related cases pending before the Courts regarding inter-se-seniority of DR and promotee ACSOs.

RENU K RAJU  
Dy Chief Administrative Officer

## AIR HEADQUARTERS

No. 421. dated the 15th April 1994.—Shri P R Pathania, Personal Assistant of AFHQ Stenographers' Service is appointed as Private Secretary on temporary promotion basis from 01 Jan 94 (FN) to 30 Jun 94 (AN) or till person from the Select List becomes available whichever is earlier.

2. His appointment is purely on temporary basis and he can be reverted without notice for administrative reasons.

RENU K RAJU  
Deputy Chief Administrative Officer

## (ARMY BRANCH)

No. 422. dated the 8th April 1994.—The President is pleased to make the following appointment :—

## REGULAR ARMY

Special List

The Rajput Regiment

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Mohd Arshad Khan. (JC-478159L)—20th Feb 1993

T C JAIN  
Under Secy

No. 423. dated the 22nd April 1994.—The President is pleased to confirm the undermentioned officer consequent on the completion of the probationary period :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

Lt (now Capt), A Bahadur (MR-05730P) AMC—25  
December 1987.

Lt (now Capt), T R John (MR-05758-P), AMC—25 Dec  
1987.

S. K. ADVAL  
AVM Offg. Addl. DGAMS

DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION &  
SUPPLIES

No. 424. dated the 24th February 1994.—The President is pleased to make the following promotion :—

1. Dr. S. S. Rathi, Director Grade-II, Controller, Controllerate of Quality Assurance (Military Explosives) Aundh Road Pune to be Officiating Director Grade-I in situ with effect from 13 Jan 94 (F/N).

R. K. OJHA  
Under Secy

## ARMY BRANCH

No. 425. dated the 22nd April 1994.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

Brig to be Maj Gen

R C Kochhar, (MR-2079) AMC/PC—4-12-93

(Notional seniority effect on pay and pension from 01-9-93).

Col to be Brig

A K S Sarker, (MR-1791), AMC/PC—22-6-93

(Notional seniority without effect on pay and pension from 01-1-93).

P S Yadav, (MR-2111), AMC/PC—09-7-93

(Notional seniority without effect on pay and pension from 01-1-93).

C H Gidwani, (MR-1968), AMC/PC—30-9-93

(Notional seniority effect on pay and pension from 01-2-93).

A S Narayana Swamy, (MR-1862), AMC/PC—11-10-93

(Notional seniority effect on pay and pension from 01-2-93).

S Sambandam, (MR-1926), AMC/PC—12-6-93

(Notional seniority effect on pay and pension from 01-3-93).

P S Toor, (MR-1876), AMC/PC—30-5-93

(Notional seniority effect on pay and pension from 01-3-93).

Earlier Gazette published on 21-8-93 so far as this officer is concerned, may please be treated as cancelled.

K S Bhatnagar, (MR-1909), AMCPC—30-9-93

(Notional seniority without effect on pay and pension from 01-5-93).

A G Gokaran, (MR-1971), AMC/PC—5-10-93

(Notional seniority without effect on pay and pension from 28-6-93).

A V V Rao, (MR-2297), AMC/PC—29-9-93

(Notional seniority without effect on pay and pension from 28-6-93).

N R Rao, (MR-3079), AMC/PC—1-11-93

(Notional seniority without effect on pay and pension from 04-8-93).

M Singh, (MR-1974), AMC/PC—01-11-93

(Notional seniority without effect on pay and pension from 12-8-93).

A K Sanyal, (MR-3091), AMC/PC—8-12-93

(Notional seniority without effect on pay and pension from 18-8-93).

S S Chandra, (MR-1640), AMC/PC—19-9-93

(Notional seniority without effect on pay and pension from 31-7-93).

#### Surg Capt to be Brig

K Gopal Rao, (MR-1860), AMC/PC—28-8-93

(Notional seniority without effect on pay and pension from 03-6-93).

#### Surg RADM to be Surg V ADM

G P Pande, (MR-1461 (75068), AMC/PC—30-9-93.

(Notional seniority without effect on pay and pension from 01-7-93).

#### AIR CMDE to be AVM

P C Sharda (5752), (MR-1472), AMC/PC—20-01-92

(Notional seniority without effect on pay and pension from 21-8-91).

Note :—Earlier Gazette Notification published on 10-10-92, so far as related to this officer may please be treated as cancelled.

#### Gp Capt to be Air Cmde

K K Misra, (MR-1898), AMC/PC—19-4-93

(Notional seniority without effect on pay and pension from 6485)

N B Amaresh, (MR-1863) (12464), AMC/PC—12-7-93

(Notional seniority effect on pay and pension from 01-2-93).

S C Luthra, (MR-1902) (12899), AMC/PC—27-9-93

(Notional seniority effect on pay and pension from 01-5-93).

#### Capt to be Major

V Srivastava, (MR-05716-H), AMC—01-12-93.

Mrs S Kashyap, (MR-5718-N), AMC—01-12-93.

A K Tyagi, (MR-5720-L), AMC—01-12-93.

I V Singh, (MR-5724), AMC—01-12-93.

R K Singh, (MR-5726-M), AMC—01-12-93.

R Bhasin, (MR-05728), AMC—01-12-93.

A Bahadur, (MR-05730-P), AMC—01-12-93.

A Gulgali, (MR-5734-L), AMC—01-12-93.

Praveer Ranjan, (MR-5740-Y), AMC—01-12-93.

P Purushottam Rao, (MR-5792-K), AMC—01-12-93.

S Singh, (MR-05744-P), AMC—01-12-93.

R Prakash, (MR-5746-A), AMC—01-12-93.

Samir Sud, (MR-5748-L), AMC—01-12-93.

V Bhalla, (MR-05750-H), AMC—01-12-93.

Ajay Malik, (05752-N), AMC—01-12-93.

T R John, (MR-05758-P), AMC—01-12-93.

S K Kanjilal, (MR-5796-L), AMC—01-12-93.

S M Garg, (MR-05802-N), AMC—30th July 1988.

#### Sur Lt to Surg Lt Cdr

A A Karmakar, (MR-05736-W) (75423-R), AMC—01-12-93.

S C Khare, (MR-05738-F) (75425), AMC—01-12-93.

G Narula, (MR-5756-K) (75427), AMC—01-12-93.

D Goyle, (MR-05760) (75426), AMC—01 Dec 93.

Kishalay Roy, (MR-06448-W) (75399-K), 21-7-92, AMC, with seniority for pay and promotion from 21 Sep 91.

Parvinder Singh Ahluwalia, (MR-6484-F) (75444-N), 22-1-93, AMC, with seniority for pay and promotion from 10-11-91.

#### (Capt) Flt Lt to Sqn Ldr (Major)

H Madan, (MR-5890-P) (19347), AMC—01-12-93.

Anil Kumar, (MR-5892-A) (19349), AMC—01-12-93.

B K Gupta, (MR-05898) (19355), AMC—01-12-93.

Mrs VV Goner, (MR-06436-F) (18180), 21 Jul 92, AMC with seniority from 16 Oct 89.

R N Pandey, (MR-06440-K) (18387) 21 July 92, AMC, with seniority from 24 Nov 90.

K K Poniwala, (MR-06444-A) (18155), 21 July 92, AMC, with seniority from 30 Aug 91.

K S Raju, (MR-6488-K) (19343), 22-1-93, AMC, with seniority for pay and promotion from 09-12-92.

Sanjay Sharma (MR-06496-W), AMC, 01 Jun 93.

S. K. ADAVAL,

AVM

Offg. Addl. DGAFMS

#### (ARMY BRANCH)

No. 426, dated 28th April 1994.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### Lt Cols to be Substantive Cols

R. K. Jain (IC-24376A), Inf., 01st Feb 1993.

S. K. S. Negi (IC-24382N), Inf., 01st Feb 1993.

- Rakesh Mohan (IC-24388P), Inf., 01st Feb 1993.
- S. P. Panghat (IC-24389X), Engrs., 01st Mar 1993 but with seniority from 01st Feb 1993 without effect on pay and pension.
- T. K. S. Mehndiatta (IC-24390M), Inf., 01st Feb 1993.
- V. S. Sibal (IC-24400L), Inf., 01st Feb 1993.
- A. K. Dube (IC-24409A), AC., 01st Feb 1993.
- V. K. Pahwa (IC-24417Y), Inf., 01st Feb 1993.
- J. M. Singh (IC-24424P), AC., 01st Feb 1993
- Jasbir Singh (IC-24433W), Sigs., 01st Feb 1993.
- Sumant Mehta (IC-24442X), Arty., 01st Feb 1993.
- Dhan Adhikari (IC-29162N), Inf., 01st Feb 1993.
- S. M. Kunazroo (IC-29164Y), Inf., 01st Feb 1993.
- N. S. Mukherjee (IC-29165F), Inf., 01st Feb 1993.
- K. D. Sharma (IC-29172X), Inf., 01st Feb 1993.
- Y. N. Mishra (IC-29176N), Sigs., 13th Feb 1993 but with seniority from 01st Feb 1993 without effect on pay and pension.
- P. A. Cariappa (IC-29185P), ASC., 01st Feb 1993.
- B. J. Singh (IC-29186X), AC., 01st Feb 1993.
- Jagdish Chand (IC-29187A), Inf., 01st Feb 1993.
- Sukhbir Singh (IC-29191H), AOC., 14th Feb 1993 but with seniority from 01st Feb 1993 without effect on pay and pension.
- R. P. Singh (IC-29194W), Inf., 01st Feb 1993.
- S. S. Dutta (IC-29201F), Arty., 01st Feb 1993.
- D. P. Singh (IC-29202K), Inf., 01st Feb 1993.
- K. S. Rampuria (IC-29205X), Engrs., 22nd Mar 1993 but with seniority from 01st Feb 1993 without effect on pay and pension.
- A. K. Madan (IC-29215F), Engrs., 15th Mar 1993 but with seniority from 01st Feb 1993 without effect on pay and pension.
- Gurdev Singh (IC-29218P), ASC., 01st Feb 1993.
- S. K. Bahl (IC-29220M), Inf., 01st Feb 1993.
- P. K. Oberoi (IC-29221P), Engrs., 28th May 1993 but with seniority from 01st Feb 1993 without effect on pay and pension.
- R. S. Verma (IC-24274K), Inf., 01st Feb 1993.
- H. V. Mankotia (IC-24278A), AC., 01st Feb 1993.
- A. S. Judge (IC-24279H), Arty., 01st Feb 1993.
- K. S. Budhwar (IC-24282H), Arty., 01st Feb 1993.
- R. K. Loomba (IC-24283L), AC., 01st Feb 1993.
- P. N. Chandran (IC-24284N), Arty., 01st Feb 1993.
- Virendra Singh (IC-24285W), Arty., 01st Feb 1993.
- Bulbir Singh (IC-24287F), Arty., 01st Feb 1993.
- G. Athmanathan (IC-24288K), Inf., 01st Feb 1993.
- R. K. Saigal (IC-24290F), Inf., 01st Feb 1993.
- P. C. Bakshi (IC-24295A), Arty., 01st Feb 1993.
- Ravi Sharma (IC-24203L), Inf., 01st Feb 1993.
- J. S. Sandhu (IC-24307K), Inf., 01st Feb 1993.
- J. J. Smith (IC-24311M), Inf., 01st Feb 1993.
- S. K. Mohla (IC-24312P), Sigs., 01st Feb 1993.
- G. Dawar (IC-24314A), Inf., 01st Feb 1993.
- C. P. James (IC-24317N), Inf., 01st Feb 1993.
- H. S. Chhina (IC-24319Y), Inf., 01st Feb 1993.
- D. S. Shekhawat (IC-24322Y), Inf., 01st Feb 1993.
- Gurbaksh Singh (IC-24327X), Inf., 01st Feb 1993.
- S. V. Naphad (IC-24332H), Arty., 01st Feb 1993.
- R. K. Sharma (IC-24333L), Inf., 01st Feb 1993.
- S. P. S. Grewal (IC-24334N), Arty., 01st Feb 1993.
- J. Dhasmana (IC-24335W), Arty., 01st Feb 1993.
- B. D. Deshmukh (IC-24342M), Inf., 01st Feb 1993.
- N. K. Pillai (IC-24344X), Inf., 01st Feb 1993.
- R. L. Singh (IC-24347L), Inf., 01st Feb 1993.
- R. S. Deopa (IC-24349W), Inf., 01st Feb 1993.
- S. R. Savant (IC-24368F), Inf., 01st Feb 1993.
- Sunil Arora (IC-24371F), Inf., 01st Feb 1993.
- K. V. M. Nair (IC-19419A), Inf., 01st Jan 1992.
- Major to be Substantive Lt Col (By Selection)
- S. S. Nishan (IC-20509N), Engrs., 28th Dec 1990.
- S Chakraborty (SL-02522), SL (APTC), 01 Jan 1992.
- Uttam Singh (SL-01603), SL(QM), 01st May 1991.
- P. K. Bhattacharjee (IC-23605N), Engrs., 01st Jul 1988.
- L. M. Tripathi (IC-29253X), AEC, 19th Mar 1993 but with seniority from 01st Mar 1992 without effect on pay and pension.
- B. S. Godara (IC-24639N), JAG, 22nd Oct 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.
- V. Sahni (IC-27024M), ASC, 01st Feb 1993 but with seniority from 01st Apr 1992 without effect on pay and pension.
- H. B. S. Pannu (IC-32505K), AC, 01st Jul 1992.
- Y. R. Kaushal (IC-32563N), EME, 12th Feb 1993 but with seniority from 01st July 1992 without effect on pay and pension.
- R. P. Verma (IC-32806N), AOC, 15th Oct 1993 but with seniority from 01st Nov 1992 without effect on pay and pension.
- A. S. Multani (IC-27207K), EME, 28th May 1993 but with seniority from 01st Dec 1992 without effect on pay and pension.
- V. K. Panday (IC-27249W), EME, 12th Jun 1993 but with seniority from 01st Dec 1992 without effect on pay and pension.
- Anil Kaul (IC-27273M), AC, 01st Dec 1992.
- M. S. Dhaliwal (IC-27331L), Inf., 01st Dec 1992.
- Majors to be Substantive Lt Cols (By Time Scale)
- Sajjan Singh (IC-29622K), Arty., 12th Feb 1991.
- S. S. Bath (IC-29628L), Inf., 12th Feb 1991.
- M. R. S. Sarao (IC-29634Y), Inf., 12th Feb 1991.
- S. C. Machhral (IC-29647W), ASC., 12th Feb 1991.
- A. K. Sehgal (IC-29649F), AOC., 12th Feb 1991.
- A. K. M. Singh (IC-29653K), Arty., 12th Feb 1991.
- S. K. Mahapatra (IC-29658H), Arty., 12th Feb 1991.
- T. R. Sharma (IC-29664W), Inf., 12th Feb 1991.
- M. C. Papni (IC-29666F), Inf., 12th Feb 1991.
- D. S. Kaushal (IC-26971P), Armd. Corps., 12th Feb 1991.
- R. L. Bajaj (IC-29672P), EME., 12th Feb 1991.
- N. C. Nandi (IC-29639X), Inf., 12th Aug 1991.
- N. S. Sahi (IC-32072X), Armd Corps., 03rd Nov 1991.
- Om Prakash (IC-29899H), Inf., 12th Nov 1991.
- I. J. Mitra (IC-25352H), Arty., 13th Dec 1992.
- P. Padmakaran (SL-01927N), SL(APTC), 28th Jun 1993.

## (ARMY BRANCH)

No. 427, dated 22nd April 1994.—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

2/Lt to be Lt

- K J Singh (IC-41039) Arty., w.e.f. 24 Dec 1984.  
 Sanjeev Chopra (IC-41294) M/Inf, 18 Jun 1985.  
 B K Repswal (IC-42273) ASC, 15 Dec 1986.  
 but Pay and Allowances with effect from 29 Dec 1986.  
 Rajeev Puri (IC-42879) Inf, Devinder Singh (IC-42902) AC, S A B Singh (IC-43004) Inf, K K Srivastava (IC-43097) Arty, 08 Jun 1987.  
 Rajdeep Brar (IC-43248) AOC, 14 Dec 1987.  
 Rajeev Lowe (IC-43440) Arty, 14 Dec 1987.  
 Anil Vishnoi (IC-43557) Inf, 14 Dec 1987.  
 M K Yadav (IC-43372) Arty, 14 Jun 1988.  
 M D'Souza (IC-43774) Mech/Inf, 14 Jun 1988.  
 Manjeet H R (IC-43876) AC, 14 Jun 1988.  
 Shri Raj Singh (IC-43884) Mech/Inf, w.e.f. 14 Jun 1988 (But Pay and Allowances w.e.f. 4 Sep 1988).  
 Ajay Singh Rathod (IC-43900) Engrs, w.e.f. 14 Jun 1988 (But Pay and Allowances w.e.f. 26 Jun 1988).  
 Sreelal S K (IC-43901), Arty, 14 April 1989.  
 Kabir (IC-44113) Inf, 20 Dec 1988.  
 Sanjay Kumar (IC-44412) Inf, 20 Dec 88.  
 Akashdeep Bhanot (IC-44475) AC, 13 Jun 89.  
 Paul Bastine M (IC-44485) Arty, 13 Jun 89.  
 Manoj Yadav (IC-44496) Inf, 13 Jun 89.  
 Sanjay Bose (IC-44505) Inf, 13 Jun 89.  
 Ashok Kumar Sharma (IC-44508) AOC, 13 Jun 89.  
 Krishan Kumar Singh (IC-44514) ASC, 13 Jun 89.  
 Ashok Singh (IC-44527) Inf, 13 Jun 89.  
 Michael James (IC-44529) AC, 13 Jun 89.  
 Raghunathan Nair (IC-44538) Inf, 13 Jun 89.  
 Shiraz Verma (IC-44544) AC, 13 Jun 89.  
 Anil Bhargava (IC-44548) Sigs, 13 Jun 89.  
 Rajesh Kumar (IC-44561) EME, 13 Jun 89.  
 I Visveswaran (IC-44568) Sigs, 13 Jun 89.  
 Sree Krishna (IC-44583) Inf, 13 Jun 89.  
 Manutosh Pandey (IC-44590) Arty, 13 Jun 89.  
 Devendra Kumar Tyagi (IC-44591) ASC, 13 Jun 89.  
 Ramesh Kumar (IC-44593) ASC, 13 Jun 89.  
 Virander Kumar (IC-44595) ASC, 13 Jun 89.  
 PP Srinivas Raghavan (IC-44600) Mech/Inf, 13 Jun 89.  
 Shashi Bhushan Singh (IC-44602) Arty 13 Jun 89.  
 Anurag Dutta (IC-44624) ASC, 13 Jun 89.  
 Koushik Banerjee (IC-44631) Arty 13 Jun 89.  
 Rajesh Khurana (IC-44633) Engrs, 13 Jun 89.  
 Vimal Kumar Sharma (IC-44640) ASC, 13 Jun 89.  
 Varinder Sharma (IC-44652) Inf, 13 Jun 89.  
 Alok Kumar Kaushik (IC-44653) Sigs, 13 Jun 89.  
 Shamsher Singh Ahlawat (IC-44658) ASC, 13 Jun 89.  
 Ashish Ramdas (IC-44660) AC, 13 Jun 89.  
 Naveen Chandra Joshi (IC-44665) AC, 13 Jun 89.  
 Ashutosh Kumar Tewari (IC-44667) AC, 13 Jun 89.  
 Navraj Dev Singh (IC-44672) Mech/Inf, 13 Jun 89.  
 Sanjay Gupta (IC-44675) Inf, 13 Jun 89.  
 Awadhesh Singh (IC-44686) Engrs, 13 Jun 89.  
 Deepak Joshi (IC-44690) Inf, 13 Jun 89.  
 Maneesh Kumar Moudgill (IC-44691) Engrs, 13 Jun 89.  
 Manjeet Singh Dawra (IC-44692) Arty, 13 Jun 89.  
 Mohinder Kumar Yadav (IC-44698) ASC, 13 Jun 89.  
 Rituraj Naruka (IC-44702) Arty, 13 Jun 89.  
 Thomas Kuruvilla (IC-44703) Inf, 13 Jun 89.  
 Kamlesh Prasad (IC-44706) Arty, 13 Jun 89.  
 Rajeev Sharma (IC-44708) Arty, 13 Jun 89.  
 Peeyush Sharma (IC-44709) Arty, 13 Jun 89.  
 Venkat Reddy (IC-44718) AOC, 13 Jun 89.  
 Kamesh Kumar (IC-44719) Sigs, 13 Jun 89.  
 D Singhal (IC-44724) Arty, 13 Jun 89.  
 Manish Kumar Sharma (IC-44734) ASC, 13 Jun 89.  
 Sanjay Maini (IC-44736) AC, 13 Jun 89.  
 Roopam Rudra (IC-44740) Arty, 13 Jun 89.  
 Anil Kumar Mehrotra (IC-44741) Inf, 13 Jun 89.  
 Padam Singh Gulia (IC-44751) ASC, 13 Jun 89.  
 Sanjay John David (IC-44753) Inf, 13 Jun 89.  
 Mahendra Jogdand (IC-44759) Inf, 13 Jun 89.  
 Girish Kandpal (IC-44760) EME, 13 Jun 89.  
 BC Julian (IC-44763) Engrs. 13 Jun 89.  
 YPS Narula (IC-44764) Mech Inf, 13 Jun 89.  
 DP Mathews (IC-44771) Inf, 13 Jun 89.  
 Inder Bir Singh (IC-44772) ASC, 13 Jun 89.  
 Surjit Singh (IC-44780) AOC, 13 Jun 89.  
 Prem Chand (IC-44790) Engrs, 13 Jun 89.  
 Navin Chander CP (IC-44794) Sigs, 13 Jun 89.  
 RK Verma (IC-44799) ASC, 13 Jun 89.  
 Anil Kumar Shukla (IC-44800) Arty, 13 Jun 89.  
 Bhatula Srinivas Rao (IC-44802) Inf, 13 Jun 89.  
 Moninder Singh Randhawa (IC-44804) Inf, 13 Jun 89.  
 Sanjeev Soni (IC-44806) Inf, 13 Jun 89.  
 Surya Sen (IC-44807) Arty, 13 Jun 89.  
 Sandeep Bhargava (IC-44808) Arty, 13 Jun 89.  
 Sushil Kumar Rai (IC-44811) Arty, 13 Jun 89.  
 Surya Sen (IC-44807) Arty, 13 Jun 89.  
 Krishnendu Bhattacharya (IC-44818) Arty, 13 Jun 89.  
 Sharma Vinodbhai Zaverbhai (IC-44831) Arty, 13 Jun 89.  
 Rajesh Gupta (IC-44832) Mech/Inf, 13 Jun 89.  
 Atul Singh Parmar (IC-44833) Inf, 13 Jun 89.  
 Gopal Verma (IC-44843) AOC, 13 Jun 89.  
 Sanjay Johri (IC-44844) AOC, 13 Jun 89.  
 Sanjay Bhardwaj (IC-44846) AC, 13 Jun 89.  
 Sanjay Kumar Singh (IC-44849) Inf, 13 Jun 89.  
 Shushil Kumar Bhardwaj (IC-44851) ASC, 13 Jun 89.  
 AK Tewari (IC-44934) AEC, 13 Jun 89.  
 C Ravindera Reddy (IC-44936) AEC, 13 Jun 89.  
 BS Gokhula (IC-44938) AEC, 13 Jun 89.  
 RV Subrahmanya Prasad (IC-44979) AEC, 13 Jun 89.  
 Upender Kumar Sharma (IC-44988) AEC, 13 Jun 89.  
 Rajender Singh (IC-47622) Inf, 11 Jun 90.  
 Dharamvir Balbir Singh Kushwaha (IC-49453) AOC 9 Jun 92.

Manpreet Singh Bains (IC-49545) Inf, 9 Jun 92.  
 Ranjit Chacko (IC-49634) Inf, 9 Jun 92.  
 Praveen Singh Sangwan (IC-49667) Inf, 9 Jun 92.  
 Susheel Sharma (IC-49819) MF, 9 Jun 92.  
 Hemanta Kumar Panda (IC-49845) MF, 9 Jun 92.  
 Gaurav Sharma (IC-49891) Inf, 15 Dec 92.  
 Jayesh Kanaiya Lal Adhvaryu (IC-49928) Engrs, 15 Dec 92.  
 Ajay Dalal (IC-49945) EME, 15 Dec 92.  
 Karan Singh Dahiya (IC-49954) Inf, 15 Dec 92.  
 Rajesh Kaswan (IC-49964) Inf, 15 Dec 92.  
 Sartaj Dhillon (IC-50009) Inf, 15 Dec 92.  
 Ajay Ahuja (IC-50015) Inf, 15 Dec 92.  
 Shailendra Kumar Mehra (IC-50058) Inf, 15 Dec 92.  
 Gurjeet Singh (IC-50074) Inf, 15 Dec 92.  
 Gurjeet Singh Bachhal (IC-50107) Inf, 15 Dec 92.  
 Narender Singh Bachhal (IC-50166) EME, 15 Dec 92.  
 Jaswinder Singh (IC-50206) Inf, 15 Dec 92.  
 Rajesh Bakshi (IC-50238) Inf, 15 Dec 92.  
 Maneesh Sehgal (IC-50239) Inf, 15 Dec 92.  
 Sanjay Kumar (SS-34765) EME, 9 Mar 93.  
 Jitendra Singh Rawat (SS-34767) AOC, 9 Mar 93.  
 Krishna Murthy AT (SS-34777) Engrs, 9 Mar 93.  
 Amar Nath (SS-34792) AOC, 9 Mar 93.  
 Manish Jaitly (SS-34804) AC, 9 Mar 93.  
 Sabroto Goswami (SS-34822) ASC, 9 Mar 93.  
 Naresh Kumar Bhardwaj (SS-34823) AOC, 9 Mar 93.  
 Gaurav Duggal (SS-34833) ASC, 9 Mar 93.  
 Puneet Naithani (SS-34834) AC, 9 Mar 93.  
 Rajesh Pasumarthi (SS-34839) AOC, 9 Mar 93.  
 Raghuvendra Pratap Singh (SS-34662) Inf, 25 Aug 92.  
 Manoj Kumar Tayal (SS-34524) Inf, 25 Aug 92.  
 Atul Bali (SS-34540) Inf, 25 Aug 92.  
 Vikas Joshi (SS-34592) Inf, 25 Aug 92.  
 Bhaskar Banerjee (SS-34616) EME, 25 Aug 92.  
 Vikram Sood (SS-34635) EME, 25 Aug 92.  
 Ravinder Singh Mehta (SS-34678) Arty, 25 Aug 92.  
 Surinder Pal (SS-34682) Arty, 25 Aug 92.  
 Devki Sandan Sharma (SS-34666) Inf, 25 Aug 92.  
 (but Pay and allowances w.e.f. 08 Nov 92).  
 R Arumugan (SS-34363) EME, 09 Mar 92.  
 Shahi Kanwar Lal Brijlal (SS-34444) AOC, 09 Mar 92.  
 S Gopinath (SS-34457) EME, 09 Mar 92.  
 Rajnish Singh (SS-34463) Inf, 09 Mar 92.  
 Inder Veer Singh Dagur (SS-34093) Mech/Inf, 26 Aug 91.  
 Kaizad Beji Bhaya (SS-34110) Inf, 26 Aug 91.  
 Sunil Nerula (SS-34198) Inf, 26 Aug 91.  
 Sandeep Singh Virk (SS-34203) Inf, 26 Aug 91.  
 Satvinder Singh Ahluwalia (SS-34274) Sigs, 26 Aug 91.  
 Anoop Singh (SS-33220) Arty, 04 Sep 89.  
 (but Pay and Allowances w.e.f. 23 Oct 89).  
 Krishna Rangesh (SS-32638) AOC, 23 Aug 88.  
 (but Pay and Allowances w.e.f. 1 Dec 89).  
 Vijay Nath Jha (SS-34017) Engrs, 11 Mar 91.  
 (but Pay and Allowances w.e.f. 16 Aug 91).  
 Manoj Kumar (SS-34911) AOC, 14 Aug 93.  
 Radhey Shyam (SS-32404) Arty, 8 Mar 88.  
 Rakesh (SS-32408) Inf, 8 Mar 88.

K. K. Prasad (SS-32432) Mech Inf, 8 Mar 88.  
 K P Rao (SS-32480) EME, 8 Mar 88.  
 Ghanshyam Pandey (IS-32242) Arty, 24 Aug 87.  
 CP Ranjit (SS-32258) AC, 24 Aug 87.  
 Vasudevan MK (SS-32313) AC, 24 Aug 87.  
 JPS Chaudhary (SS-32314) Arty, 24 Aug 87.  
 MS Rattan (SS-32337) Arty, 24 Aug 87.  
 Rajesh Yadav (SS-32347) Inf, 24 Aug 87.  
 Ravi S (SS-32356) AC, 24 Aug 87.  
 JP Singh (SS-32357) AC, 24 Aug 87.

PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)  
 2/LT TO BE LT

BC Shegunosi (SL-3509), Munshi Ram (SL-3512),  
 N Romananji (SL-3545), Ashok Beedkar (SL-3570) Vijayan  
 KT (SL-3576), Narayanan N (SL-3578), Ranvir Singh  
 (SL-3579)—26 Jul 88.

Ram Kumar Yadav (SL-3926), Sat Pal Rai Gaba (SL-  
 3944), Vijayandra Rao TM (SL-3953) w.e.f. 12 Apr. 92.

RN Pandey (SL-3970), G. Saran (SL-3998), Jagdish Singh  
 Gilt (SL-4003), Lavmi Narain (SL-4007)—13-5-93.

A. K. Malik  
 CSO  
 DAMS SC

No. 428, dated 8th April 1994.—The President is pleased  
 to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
 INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS  
 To be Nb Sub

Hav Ramesh (No. 13668160X now JC-402125K), 08th  
 May 1993.\*

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar  
 w.e.f. 14th Mar 1993 without effect on pay and  
 allowances).

Hav Bolo Ram Nath (No. 13673149F now JC-402126  
 M), 10th Aug 1993.

Hav Khushiya Ram (No. 13675745M now JC-402127P),  
 26th Nov 1993.\*\*

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar  
 w.e.f. 01 Nov 1993 without effect on pay and  
 allowances).

Hav Gyaninder Prasad (No. 13672075L now JC-402128  
 X), 26th Nov 1993.

Hav Sher Singh, SM (No. 13668923F now JC-402129A),  
 29th Dec 1993.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar  
 w.e.f. 01 Dec 1993 without effect on pay and  
 allowances).

Hav Kalvan Singh (No. 13669767P now JC-402130P),  
 01st Dec 1993.

Hav Harkesh Singh (No. 13675525H now JC-402131X),  
 01st Dec 1993.

Hav Gian Singh (No. 13671462N now JC-402132A),  
 01st Jan 1994.

Hav Mohan Singh Rawat (No. 13671853Y now JC-  
 402133H), 01st Jan 1994.

Hav Hoshiar Singh (No. 13673620W now JC-402134L),  
 01st Jan 1994.

Hav Banwari Lal (No. 13673705M now JC-402135N),  
 07th Jan 1994.

Hav Kitab Singh (No. 13672089L now JC-402136W),  
 01 Feb 1994.

Hav Virsa Singh (No. 13674288X now JC-402137Y), 01st Feb 1994.

Hav Narinder Kumar Puri (No. 13675015F now JC-402138F), 01st Feb 1994.

Hav Banshidhar (No. 13673796F now JC-402139K), 01st Feb 1994.

Hav Charan Singh Gujra (No. 13673954L now JC-402140Y), 01st Feb 1994.

Hav Rajbir Singh (No. 13680950X now JC-402141F), 01st Feb 1994.

#### To be Nb Sub

Hav Joginder Pandey (No. 13673383X now JC-402106Y), 03rd Sep 1993.\*

\* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 01st Sep 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Upendra Singh (No. 13670196N now JC-402107F), 29th Sep 1993.

Hav Hayat Singh Bankoti (No. 13669518W now JC-402108K), 01st Oct 1993.

Hav Lallan Singh (No. 13671433Y now JC-402109M), 07th Oct 1993.

Hav Ram Phal (No. 13671143F now JC-402110F), 13th Oct 1993.

Hav Shco Ram (No. 13671479F now JC-402111K), 27th Oct 1993.

Hav Krishna Bahadur Khattri (No. 13670474W now JC-402113P), 01st Nov 1993.

Hav Balbir Singh Rana (No. 13670477K now JC-402114X), 01st Nov 1993.

Hav Pratap Singh (No. 8023530Y now JC-402115A), 01st Nov 1993.

Hav Yad Ram (No. 13671173Y now JC-402116H), 01st Dec 1993.

Hav Balwinder Singh (No. 13672748P now JC-402117L), 01st Dec 1993.

Hav Devinder Kumar (No. 13673508K now JC-402118N), 01st Jan 1994.

#### To be Nb Sub/Clerk

Hav/Clk Rajput Vithal Sng Bandu Sing (No. 13673107P now JC-402112M), 01st Nov 1993.

#### The Madras Regiment

##### To be Sub

Hav Suriyanarayanan (No. 2573602L now JC-438167F), 1st Jan 1994.

Hav Sethumadhavan M (No. 2576877K now JC-438168K), 1st Jan 1994.

Hav R Madhiazhagan (No. 2574869M now JC-438169M), 1st Jan 1994.

Hav S Muthusami (No. 2571395L now JC-438170F), 1st Feb 1994.

Hav Atumugam T (No. 2578792M now JC-438171K), 1st Feb 1994.

#### To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Nagi Reddy P Ranga Reddi (No. 2575212F now JC-438172M), 1st Feb 1994.

#### The Grenadiers

##### To be Nb Sub

Hav Syed Salman Ali (No. 2665888L now JC-448125H), 16th Aug 1993.

Hav Patel Laluji Sakraji (No. 2666874X now JC-448126L), 16th Sep 1993.

Hav Kuldeep Chand (No. 2673977Y now JC-448127N), 30th Sep 1993.

Hav Amba Dan (No. 2665351Y now JC-448128W), 1st Nov 1993.

Hav Mohan Lal (No. 2666765L now JC-448129Y), 1st Nov 1993.

Hav Ved Parkash Bhati—(No. 2667029Y now JC-448130N), 1st Dec 1993.

Hav Ram Kawar (No. 2662110F now JC-448131W), 1st Dec 1993.

Hav Mast Ram (No. 2662859L now JC-448132Y), 1st Jan 1994.

Hav Darab Khan (No. 2668410Y now JC-448198P), 22nd Sep 1993.

Hav Shiv Ram Singh (No. 2668401X now JC-448199X), 15th Jan 1994.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Oct 93 without effect on pay and allowances).

Hav Balwan Singh (No. 2667586X now JC-448200F), 25th Jan 1994.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 93 without effect on pay and allowances).

Hav Dharam Singh (No. 2662303F now JC-448201K), 5th Mar 1994.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Feb 94 without effect on pay and allowances).

Hav Mohd Sabir Khan (No. 2668847M now JC-448202M), 1st Feb 1994.

Hav Jagdish Prasad Jat (No. 2663329H now JC-448203P), 1st Feb 1994.

Hav Bisakhi Ram (No. 2662460N now JC-448204X), 1st Feb 1994.

Hav Jethu Singh Bhati (No. 2668443K now JC-448205A), 1st Feb 1994.

Hav Jaivir Singh Berwal (No. 2665153F now JC-448206H), 1st Feb 1994.

Ved Pal Singh Pundir (No. 2670050M now JC-448207L), 1st Mar 1994.

#### To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Jai Singh Mehla (No. 2666469A now JC-448208N), 1st Feb 1994.

#### The Rajput Regiment

##### To be Nb Sub

Hav Devendra Singh (No. 2972362A now JC-478130H), 22nd Nov 1993\*.

\* (Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 26th June 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Gouranga Prasad Guria (No. 2979465F now JC-478131L), 13th Aug 1993\*.

\* (Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01st July 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (No. 2974834K now JC-478132N), 2nd Aug 1993\*.

\* (Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Aug 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Dayal Gurjar (No. 2974336X now JC-478133W), 1st Aug 1993.

Hav Om Prakash Verma (No. 2970657X now JC-478134Y), 29th Aug 1993.

Hav Subh Karan Singh (No. 2976701M now JC-478135F), 27th Sep 1993.

Hav Om Parkash (No. 2970884X now JC-478136K), 1st Dec 1993.

## To be Nb Sub Ck

Hav Ck Vijay Singh (No. 2972434Y now JC-478137M), 16th Oct 1993.

Hav Ck Soran Singh (No. 2972494N now JC-478138P), 1st Nov 1993.

Hav Ck Singh Raj (No. 2972561N now JC-478139X), 1st Nov 1993.

## The Rajput Regiment

## To be Nb Sub

Hav Kushal Pal Singh (No. 2975440X now JC-478144H), 1st Aug 1993.

Hav Dharm Pal Sadhathia (No. 3969972X now JC-478145L), 1st Oct 1993.

Hav Ram Bhakt (No. 2972049P now JC-478146N), 20th Oct 1993.

Hav Narad Singh (No. 2970164W now JC-478147W), 23rd Dec 1993\*.

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Narendra Pratap Singh (No. 2973669X now JC-478148Y), 30th Dec 1993.

Hav Rakesh Singh (No. 2974461F now JC-478149F), 30th Dec 1993.

Hav Raghuraj Singh (No. 2970445M now JC-478150W), 1st Jan 1994.

Hav Hukam Pal Singh (No. 2970832F now JC-478151Y), 1st Jan 1994.

Hav Jhabur Mal (No. 2972140L now JC-478152I), 1st Jan 1994.

Hav Jaibir Singh (No. 2972401N now JC-478153K), 1st Jan 1994.

Hav Ramji Singh (No. 2973265P now JC-478154M), 1st Jan 1994.

Hav Battu Singh (No. 2971950F now JC-478155P), 1st Feb 1994.

Hav Labh Singh (No. 2972063F now JC-478156X), 1st Feb 1994.

Hav Prahlad Singh (No. 2972106L now JC-478157A), 1st Feb 1994.

Hav Rajendra Prasad Singh (No. 2971117L now JC-478158H), 1st Feb 1994.

## The Sikh Regiment

## To be Nb Sub

Hav Surjit Singh (No. 3375011P now JC-498181X), 10th Feb 1994%.

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Joginder Singh (No. 3374081F now JC-498182A), 2nd Jan 1994.

Hav Gurmeet Singh (No. 3374117P now JC-498183H), 1st Feb 1994.

Hav Narinder Singh (No. 3374216X now JC-498184L), 1st Feb 1994.

Hav Baljinder Singh (No. 3373767W now JC-498185N), 1st Feb 1994.

Hav Satvir Singh (No. 3374354Y now JC-498186W), 1st Feb 1994.

Hav Naunihal Singh (No. 3376089M now JC-498187Y), 1st Feb 1994.

Hav Tarlok Singh (No. 3373605L now JC-498188F), 4th Feb 1994.

Hav Mangal Singh (No. 3374007A now JC-498189K), 1st Mar 1994.

Hav Kashmir Singh (No. 3374429L now JC-498190Y), 1st Mar 1994.

Hav Yadvinder Singh (No. 3374819N now JC-498191F), 1st Mar 1994.

Hav Balvinder Singh (No. 3373744P now JC-498192K), 1st Mar 1994.

Hav Jagir Singh (No. 3373269K now JC-498193K), 1st July 1993.

Hav Harbhal Singh (No. 3373293A now JC-498193M), 1st July 1993.

Hav Kulwinder Singh (No. 3373559F now JC-498193P), 1st Aug 1993.

Hav Kuldip Singh (No. 3374251A now JC-498193X), 17th Oct 1993%.

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 31st Aug 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Harpal Singh (No. 3374809K now JC-498194A), 1st Oct 1993.

Hav Gurjeet Singh (No. 3373142F now JC-498195H), 18th Nov 1993.

Hav Balwinder Singh (No. 3370761K now JC-498196L), 22nd Nov 1993@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19th Nov 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Piara Singh (No. 3375163W now JC-498197N), 30th Nov 1993£.

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19th Nov 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Nirmal Singh (No. 3375677N now JC-498198W), 22nd Nov 1993\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19th Nov 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Jugraj Singh (No. 3373561Y now JC-498199Y), 25th Nov 1993.

Hav Mohtam Singh (No. 3374859P now JC-498200N), 1st Dec 1993.

## The Sikh LI

## To be Nb Sub (GD)

Hav Jagraj Singh (No. 4456282H now JC-508070W), 1st Oct 1992.

Hav Sukhminder Singh (No. 4456708Y now JC-508072-F), 27th Dec 1992.

Hav Karnail Singh (No. 4458602L now JC-508073K), 1st Jan 1993.

Hav Mohinder Singh (No. 4452290K now JC-508074M), 1st July 1993.

Hav Desha Singh (No. 4458080A now JC-508075P), 1st July 1993.

Hav Avtar Singh (No. 4455540L now JC-508076X), 13th July 1993.

Hav Kashmir Singh (No. 4460116M now JC-508077A), 13th July 1993.

Hav Pirthi Singh (No. 4457674H now JC-508078H), 13th July 1993.

Hav Gulzar Singh (No. 4457946X now JC-508079L), 13th July 1993.

Hav Paramjeet Singh (No. 4458013P now JC-508080A), 13th July 1993.

Hav Jagir Singh (No. 445708N now JC-508081H), 7th Aug 1993.

Hav Manohar Singh (No. 4458705K now JC-508082L), 27th Aug 1993.

Hav Surjit Singh (No. 4455863M now JC-508083N), 1st Sep 1993.

Hav Ajaib Singh (No. 4456471M now JC-508085Y), 1st Oct 1993.

Hav Gurmail Singh (No. 4459713P now JC-508086F), 1st Oct 1993.

Hav Inder Singh (No. 4458260H now JC-508087K), 1st Oct 1993.

Hav Sulakhan Singh (No. 4455955A now JC-508088M), 1st Oct 1993.

Hav Mohinder Singh (No. 4459983K now JC-508089P), 1st Oct 1993.

Hav Major Singh (No. 4460060L now JC-508090K), 1st Nov 1993.

To be Nb Sub (Clerk) (GD)

Hav (Clk) Sarwan Singh (No. 4451056F now JC-508084-W), 14th Oct 1993\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) (GD) with effect from 1st Oct 1993 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav Dewan Singh (No. 4453513H now JC-508103W), 1st May 1993.

Hav Wirsu Singh (No. 4454354H now JC-508101Y), 1st Aug 1993.

Hav Jarnail Singh (No. 4454878K now JC-508105F), 20th Aug 1993.

Hav Thakar Singh (No. 4452479F now JC-508106K), 1st Oct 1993.

Hav Mohinder Singh (No. 4455125K now JC-508107M), 1st Oct 1993.

Hav Santokh Singh (No. 4454623K now JC-508108P), 1st Oct 1993.

Hav Joginder Singh (No. 4454706P now JC-508109X), 1st Oct 1993.

Hav Balwinder Singh (No. 4455346W now JC-508110A), 1st Oct 1993.

Hav Gurdip Singh (No. 4453590X now JC-508111P), 1st Oct 1993.

Hav Pall Singh (No. 4456302L now JC-508112X), 1st Oct 1993.

Hav Rajinder Singh (No. 4454370A now JC-508113A), 15th Oct 1993.

To be Nb Sub (Clerk) (GD)

Hav (Clk) Karnail Singh (No. 4455109M now JC-508114-H), 1st Feb 1994.

Hav (Clk) Sarmukh Singh (No. 4455140Y now JC-508115-L), 1st Feb 1994.

The Dogra Regiment

To be Nb Sub

Hav Rukman Singh (3973256K now JC-518147F), 8th July 1993.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Ganga Ram (3973377L now JC-518148K), 31st Aug 1993.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28th May 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Karam Chand Thakur (3973707Y now JC-518149M), 31st May 1993.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Lekh Raj Munhas (3971760L now JC-518150F), 1st Oct 1993.

Hav Clk Rachhpal Singh (3971785X now JC-518151K), 1st Nov 1993.

To be Nb Sub

Hav Rajinder Singh (3969906P now JC-518243W), 10th Feb 1994.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Bahadur Singh Dhotalia (3970308K now JC-518244-Y), 1st Jan 1994.

Hav Joginder Singh Chandel (3971495A now JC-518245F), 1st Feb 1994.

Hav Ravinder Singh Jamwal (3972896F now JC-518194Y), 1st Nov 1993.

Hav Mast Ram (3971026X now JC-518195F), 7th Nov 1993.

Hav Ghameru Ram (3969408H now JC-518196K), 1st Dec 1993.

Hav Shakti Ram (3971597W now JC-518197M), 7th Jan 1994.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1993 without effect on pay and allowances).

Hav Sahib Singh (3972728H now JC-518198P), 1st Jan 1994.

Hav Ran Singh (3968181N now JC-518199X), 1st Jan 1994.

Hav Hans Raj (3968632H now JC-518200F), 1st Jan 1994.

Hav Keshar Singh (3969620A now JC-518201K), 1st Jan 1994.

Hav Suresh Agnihotry (3970460X now JC-518202M), 1st Jan 1994.

Hav Mohinder Singh Chandel (3973629M now JC-518203P), 1st Jan 1994.

Hav Parma Nand (3961571H now JC-518204X), 1st Jan 1994.

Hav Partap Chand (3969423X now JC-518205A), 1st Feb 1994.

Hav Milap Chand (3969463Y now JC-518206H), 1st Feb 1994.

Hav Ramesh Chand (3969547M now JC-518207L), 1st Feb 1994.

Hav Ashok Kumar (3976538N now JC-518208N), 1st Feb 1994.

Hav Kuldeep Datt (3971411F now JC-518209W), 1st Feb 1994.

Hav Gurnam Singh (3969826X now JC-518210L), 1st Feb 1994.

The Kumaon Regiment

To be Nb Sub

Hav Diwan Singh (No. 4168466P now JC-538161P), 12th Nov 93.

CHM Kishan Singh (No. 4164220Y now JC-538162X), 1st Dec 93.

Hav Subhash Chandra Yadav (No. 4173418Y now JC-538163A), 1st Jan 94.

Hav Kanwar Singh Samant (No. 4168744X now JC-538164H), 1st Jan 94.



CHM Dan Singh (No. 4167710X now JC-538165L), 1st Jan 94.

Hav Diwan Singh (No. 4168004H now JC-538166N), 1st Jan 94.

Hav Pratap Singh (No. 4170004F now JC-538167W), 1st Jan 94.

Hav Govind Singh (No. 4169967F now JC-538168Y), 1st Jan 94.

Hav Ganga Singh (No. 4172501K now JC-538169F), 1st Jan 94.

Hav Puran Chandra Pandey (No. 4165804W now JC-538170W), 1st Jan 94.

Hav Bhupal Singh (No. 4171687M now JC-538171Y), 1st Jan 94.

Hav Rajendra Singh Kanyal (No. 4165821W now JC-538172F), 1st Jan 94.

Hav Bahadur Singh (No. 4165882M now JC-538173K), 1st Jan 94.

Hav Lal Singh Yadav (No. 4163889Y now JC-538174M), 1st Jan 94.

Hav Samshar Singh Yadav (No. 4167896M now JC-538175P), 1st Jan 94.

CHM Yadu Nath Singh (No. 13673273H now JC-538176-X), 1st Jan 94\*.

\*(Granted ante-date seniority wef 01 Jun 93 without effect on pay and allowances).

Hav Amar Singh (No. 4167811L now JC-538177A), 3rd Jan 94.

RP CHM Partap Singh (No. 4168775X now JC-538178H), 1st Feb 94.

CHM Lal Singh (No. 4168256P now JC-538179L), 1st Feb 94.

Hav Dhan Singh Parihar (No. 4168285K now JC-538180A), 1st Feb 94.

Hav Bhupal Singh (No. 4167226L now JC-538181H), 1st Feb 94.

Hav Dalip Singh (No. 4171045X now JC-538182L), 1st Feb 94.

Hav Mangal Singh (No. 4171118Y now JC-538183N), 1st Feb 94.

The Assam Regiment

To be Nb Sub

Hav Bal Bahadur Thapa (No. 4347097Y now 548069K), 28 Jul 93.

Hav Thenkholel (No. 4348977F now JC-548070Y), 01 Oct 93.

Hav Robi Ram Boro (No. 4349257M now JC-548071F), 17 Nov 93\*.

Hav Hari Narayan Medhi (No. 4350254L now JC-548072K), 01 Oct 93.

Hav Mohan Chandra Das (No. 4349014F now JC-548073M), 25 Nov 93\*.

Hav Durga Bahadur Basnet (No. 5445353P now JC-548074P), 08 Jan 94@.

Hav C. Kumar (No. 2576088X now JC-548075X), 24 Dec 93£.

Hav Jagdish Chand (No. 3972672F now JC-548076A), 19 Jan 94&.

Hav Raghu Nath Deka (No. 4348564X now JC-548077H), 11 Jan 94\$.

Hav Abhoy Ram Kalita (No. 4350015W now JC-548078L), 05 Dec 93=.

Hav Mehar Chand (No. 3970642L now JC-548079N), 10 Jan 94+.

Hav Agostin N Marak (No. 4347191H now JC-548080H), 01 Jan 94.

Hav Ramananda Baruah (No. 4350050Y now JC-548081L), 01 Jan 94.

\*(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 93).

%(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 93).

@(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 93).

&(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 93).

&(Granted ante ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 93).

\$(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 93).

=(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 93).

+(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 93).

JAK LI

To be Nb Subedars

Hav Rajinder Kumar (No. 9082258L now JC-592093A), 10 Nov 93\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Feb 93).

Hav Hardev Singh (No. 9081255L now JC-592094H), 28 Jan 94@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Nov 93).

Hav Pura Singh (No. 9080685H now JC-592079N), 22 Dec 93\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Jan 93).

Hav Bharat Singh (No. 9080955L now JC-592080H), 22 Dec 93\*.

Hav Balbir Singh (No. 9080910M now JC-582081L), 02 Jan 94\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Feb 93).

Hav Bodh Raj (No. 9081514H now JC-592082N), 22 Dec 93\*.

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Feb 93).

Hav Pritam Singh (No. 9081519F now JC-592083W), 22 Dec 93@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Feb 93).

Hav Babu Ram (No. 9081049F now JC-592084Y), 22 Dec 93£.

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Feb 93).

Hav Prem Nath (No. 9080726P now JC-592085F), 11 Jan 94&.

Hav Ramesh Lal SM (No. 9081866A now JC-592086A), 20 Jan 94&.

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Jun 93).

Hav Sobhan Ram (No. 9081876K now JC-592087M), 22 Dec 93\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Aug 93).

Hav JCL Subedar Thapa (No. 5342092M now JC-612051X), 1st Jan 1994.

Hav Suk Narayan Subedi (No. 5342023W now JC-612052A), 1st Jan 1994.

Hav Dil Bahadur Thapa (No. 5342192X now JC-612053 H), 22th Jan 1994\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances with effect from 01 Jan 1994).

Hav Chander Bahadur Thapa (No. 5343294A now JC-612054L), 10th Jan 1994.

#### 9GR

To b Nb Sub

Hav Jitendra Bahadur Chhetri (No. 5841301P now JC-629036Y), 08th Aug 1993.

Hav Man Bahadur Chhetri (No. 5841460M now JC-629037F), 01st Oct 1993.

Hav Khadka Bahadur Chhetri (No. 5841480F now JC-629038K), 01st Nov 1993.

Hav Ujai Bahadur Khattri (5841184P now JC-629038M), 01st Nov 1993.

Hav Lal Bahadur Khattri (No. 5841509X now JC-629040F), 01st Nov 1993.

Hav Jeetendra Prakash Malla (No. 5841584F now JC-629041K), 01st Nov 1993.

Hav Dalip Kumar Khattri (No. 5841662N now JC-629042 M), 01st Nov 1993.

Hav Jeeban Shahi (No. 5842928F now JC-629043P), 01st Nov 1993.

Hav Mitra Sen Thakur (No. 5841192N now JC-629044 X), 01st Nov 1993.

Hav Bishnu Prasad Shedhai (No. 5841421N now JC-629045A), 01st Nov 1993.

Hav Nar Bahadur Chhetri (5842012M now JC-629045H), 01st Nov 1993.

#### 5 GR (FF)

To be Nb Sub

Hav Jit Bahadur Rana Bhat (No. 5445346Y now JC-617030L), \*14th Dec 1993.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1993 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Singh Rana (No. 5444246F now JC-617031 N), 5th Dec 1993.

Hav Khadak Bahadur Gurung (No. 5444058A now JC-617032W), 5th Dec 1993.

Hav Mohan Lal (No. 5443954F now JC-617033Y), 1st Jan 1994.

#### LADAKH SCOUTS

To be Naib Subedar (GD)

Hav Nawang Chhering (No. 9921178N now JC-588019 F), 15th Dec 1993\*.

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 1st Oct 1993 without effect on pay and allowances).

CHM Sonam Angchok (9921454L now JC-588010M), 30th Aug 1993@.

Hav Chhering Phunchok (9921113A now JC-588011P), 1st Aug 1993.

Hav Hatam Khan (9921431K now JC-588012X), 1st Aug 1993.

Hav Tsetan Tundup (9922087W now JC-588013A), 30th Aug 1993\*.

Hav Rigzin Giase (9921643P now JC-588014H), 1st Aug 1993.

@(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 1st Jul 1993 without effect on pay and allowances).

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 1st Aug 1993 without effect on pay and allowances)

T. C. JAIN, Under Secy.

#### CORPS OF ENGINEERS

#### MADRAS ENGINEER GROUP

To be Sub Maj Clk

Sub Clk PC Jayakumaran ((JC-89079H), 01st Apr 93.

Sub Clk Srirameju Srinivasa Rao (JC-89375L), 01 May 93.

Sub Clk TP Searia (JC-90820L), 01 Jul 93.

Sub Clk Badri Imayya Reddy (JC-91760W), 01 Aug 93.

Sub Clk Tulichal Vasudevan Mohanan (JC-93153N), 01 Sep 93.

Sub Clk Derebail Ravindra Alva (JC-91726N), 01 Sep 93.

Sub Clk Bolar Krishna (JC-93062K), 01 Sep 93.

Sub Clk Kondakaseeril Neelakanta Kurup Govinda Pillai (JC-93196Y), 01 Sep 93.

Sub Clk Thundivalappil Patteri Padmanabhan (JC-91758 W), 01 Oct 93.

Sub Clk Achuthan Vengulil Velakku Madathil (JC-93066 A), 01 Nov 93.

Sub Clk Kannarath Molloil Hareendran (JC-93127M), 01 Dec 93.

Sub Clk Kalapurakal Koruthu Varghese (JC-86990X), 01 Dec 93.

Sub Clk Keelvani Gurnatha Subramanian (JC-89838P), 01 Dec 93.

To be Sub Maj GD

Sub GD Muthavelu Pillai Jawahar (JC-99603W), 01 Nov 93.

Sub GD M Ganesan (JC-97026W), 01 Nov 93.

Sub GD Perumparambil Mohammad Haneefa (JC-101848 N), 01 Nov 93.

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Clk Chetumpara Vellu Pillai Gopalakrishna Pillai (JC-151534W), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Muthu Pillai Gurusamy (JC-154138K), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Chinnappan Vellai (JC-159605N), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Kuppusamy Ganesan (JC-159606W), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Murugayan Rajasegaran (JC-159608F), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Gopal Ranganathan (JC-150631P), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Kadirvel Nagalingam (JC-166879K), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Vairamuthu Ganapathy (JC-159397F), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Sreedharan (JC-159615X), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Rathinam Ramanujam (JC-166880W), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Karupiah Karmegam (JC-163291P), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Arulandu Soosai Manickam (JC-162926W), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Varghese George George Varghese (JC-163277H), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Kuppanda Poovaiyah Karumbaiah (JC-165420 H), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Thangavelu Jayaraman (JC-167889H), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Thangavelu Jayaraman (JC-167889H), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Vaijnath Narshety (JC-167878P), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Urushabhondrappa (JC-170417M), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Natesan Poomalai (JC-170420M), 01 Nov 93.

Nb Sub Clk Mallavarapu Kesava Rao (JC-170367M), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Sreenivasa Ekathanathan (JC-170368P), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Abdul Rahimathulla (JC-170394N), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Swaminathan Arokiadass (JC-171569A), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Aiyakannu Chinna Pillai Gounder (JC-170369X), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Mannavar Syed Mohamed (JC-170395Y), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Antony Vincent Aloysius (JC-171568X), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Rajan M (JC-170371P), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Sasikumaran Nair (JC-170361L), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Baleal Velu Divakaran (JC-171583M), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Kootilangal Mannath Balasubramanian (JC-170377A), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk R Rajamani (JC-170378Y), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Vedamanickam Anthonysamy (JC-170379F), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Shankarappa Amargol (JC-170362N), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Basappa (JC-170382F), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Periasamy Doraipandiam (JC-171534P), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Lakshmanan Govindaraj (JC-170398M), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Balakrishnan Puthiaveetil (JC-170363M), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk N Rajasekharan Nair (JC-171585K), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Muradanpalackal Gopalan Muralidharan Pillai (JC-171586A), 01 Dec 93.

Nb Sub Clk Gunda Jagannadham (JC-171587A), 01 Dec 93.

#### To be Sub GD

Nb Sub GD Anvar Basha J (JC-167882N), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Narayanan Sasindran (JC-167863H), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Kalu Kuppuswamy (JC-167865N), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Munisamy Parthasarathi (JC-170385P), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Gona Devasahayam (JC-167884Y), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Sathyanarayana Sriramachandran (JC-171537X), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Arumugam PM (JC-170400Y), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Yesudhasan Titus (JC-167873M), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Kannaiyan Kuppusamy (JC-167867Y), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Papaiah Ramachandran (JC-167868F), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Pandur Pydi Naidu (JC-171545W), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Murugesan Chandrasekaran (JC-171531W), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Perumal Adimoolam (JC-167885X), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Chinnappa Dharmalingam (JC-166870Y), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Thomas KT (JC-167871F), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Lakshmanan Gopal (JC-170402K), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Subban Sundararaj (JC-167886K), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Dharmalingam Desigan (JC-177249F), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Govindasamy Rajagopal (JC-167872K), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Narayanan P (JC-170392L), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Mariyaprakasam Devadass (JC-174480K), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Doraisamy Viswanathan (JC-171532X), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Krishnan Dinakaran (JC-170386X), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Lakshmaiah Naidu Venugopal (JC-170387A), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Govindasamy Duraisamy (JC-167874P), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Thimmappa Kuruvalli (JC-174412L), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Mahadeva Naicker Devaraj (JC-171552M), 01 Nov 93.

Nb Sub GD Arumugam Nagalingam (JC-170406A), 01 Nov 93.

#### To be Sub SKT

Nb Sub SKT Krishnan Sreekumaran (JC-165234M), 01 Nov 93.

#### To be Sub Maj Clk

Sub Clk Charahara Sankaran Padmajan (JC-86986P), 01 Aug 92.

Sub Clk Naohukuru Manohara Reddy (JC-86661F), 01 Nov 92.

Sub Clk Kurutiyathu Krishna Pillai Gopalakrishnan Nair (JC-88384-A), 01 Jan 93.

Sub Clk SK Monaiiah (JC-87180F), 01 Mar 93.

Sub Clk GT Venkata Rangacharyulu (JC-86735L), 01 Mar 93.

Sub Clk A Chinnaswami Naidu (JC-85549H), 01 Mar 93.

Sub Clk Dhandapani Gopal Mudaliar (JC-88385H), 01 Apr 93.

Sub Clk Chidambaram Ganapathy (JC-91741W), 01 Apr 93.

Sub Clk L Veera Raju (JC-89366K), 01 Apr 93.

Sub Clk Tacharchira John John (JC-88851M), 01 May 93.

Sub Clk Rangaewami Kaliappan (JC-88865M), 01 May 93.

Sub Clk Hariyur Thimmaiah (JC-90832A), 01 Jun 93.

Sub Clk Purayidathil Devasia Joseph (JC-90484K), 01 Jun 93.

Sub Clk Karthiyayini Mohan (JC-90817L), 01 Jun 93.

Sub Clk Adara Milagi Adhayan (JC-90819W), 01 Jun 93.

Sub Clk Peria Poonachi Poonachi (JC-90835N), 01 Jun 93.

Sub Clk Krishnasamy Veeramani (JC-90829A), 01 Jun 93.

- Sub Ck Davu Dugga Rao (JC-91719X), 01 Jul 93.  
 Sub Ck Mohd Moinuddin (JC-93195A), 01 Jul 93.  
 Sub Ck Kote Gouda Kote Gouda (JC-91715F), 01 Jul 93.  
 Sub Ck Pachappan Doraisamy Reddy (JC-91745Y), 01 Jul 93.  
 Sub Ck Subramani Mesack (JC-91723A), 01 Jul 93.  
 Sub Ck Chenikal Kesavan Bhaskaran (JC-91722X), 01 Jul 93.  
 Sub Ck Pappen (JC-91735P), 01 Au 93.  
 Sub Ck Ramachandran Nair (JC-93119N), 01 Aug 93.  
 Sub Ck Aithappa Keshava (JC-93118L), 01 Sep 93.  
 Sub Ck Madoor Krishnappa Poojari (JC-93133A), 01 Sep 93.  
 Sub Ck Karunakaran Munisamy (JC-93089M), 01 Sep 93.  
 Sub Ck Raman Ramamurthy (JC-93090W), 01 Sep 93.  
 Sub Ck Kadali Somachandra Rao (JC-93086N), 01 Oct 93.  
 Sub Ck Polaki Lakshmana Murthy (JC-93134H), 01 Oct 93.  
 Sub Ck Daniel (JC-91752P), 01 Oct 93.  
 To be Sub Maj SKT  
 Sub SKT Thathodathilanvalil Bhaskaran Nair Muraleedharan Nair (JC-119792P), 01 Aug 93.  
 To be Sub Ck  
 Nb Sub Ck Balasubramanian Poyittyattil (JC-139017Y), 01 Aug 92.  
 Nb Sub Ck Karunakaran Pillai (JC-149597M), 01 Aug 92.  
 Nb Sub Ck Kinattupurayil RadhaKrishnan Adiyodi (JC-139000L), 01 Aug 92.  
 Nb Sub Ck Arunachalam Kamalanathan (JC-145722N), 01 Dec 92.  
 Nb Sub Ck TC Karumbalah (JC-144268M), 01 Mar 93.  
 Nb Sub Ck G Ramachandran Nair (JC-146420N), 01 Apr 93.  
 Nb Sub Ck Mannar Reddiar Govindan (JC-143985M), 01 Apr 93.  
 Nb Sub Ck KE Chacko Ittyavira (JC-146421W), 01 Apr 93.  
 Nb Sub Ck Sreekumaran (JC-143986W), 01 Apr 93.  
 Nb Sub Ck Thanicachalam Velumurugan (JC-143466L), 01 Apr 93.  
 Nb Sub Ck Kumaran Janardhanan (JC-143467N), 01 Apr 93.  
 Nb Sub Ck Muthalah Pillai Ayyappan (JC-143468W), 01 Apr 93.  
 Nb Sub Ck CG philip (JC-143469Y), 01 Apr 93.  
 Nb Sub Ck Katha Perumal Ramamoorthy (JC-144269P), 01 May 93.  
 Nb Sub Ck Abraham Punnose (JC-144099W), 01 May 93.  
 Nb Sub Ck Thimappa Palakshan (JC-143989K), 01 May 93.  
 Nb Sub Ck Chellappan Pillai Sudhakaran Nair (JC-143453M), 01 May 93.  
 Nb Sub Ck Rajuiah Isaiiah (JC-143990Y), 01 May 93.  
 Nb Sub Ck Krishnaswamy Muthala Raj (JC-143454W), 01 May 93.  
 Nb Sub Ck Parasurama Nadar (JC-146422Y), 01 May 93.  
 Nb Sub Ck Thitumani Thangalingam (JC-146424K), 01 May 93.  
 Nb Sub Ck Shanmuga Sundaram (JC-146425M), 01 Jun 93.  
 Nb Sub Ck Nagu Natarajan (JC-143992K), 01 Jun 93.  
 Nb Sub Ck Odeji Reddeppa (JC-146426P), 01 Jun 93.  
 Nb Sub Ck Palavesam Muthu Sivam (JC-144100A), 01 Jun 93.  
 Nb Sub Ck Karuppaswamy Patchimuthu (JC-146427X), 01 Jun 93.  
 Nb Sub Ck Thannikkal Poulse Gabriel (JC-144101H), 01 Jun 93.  
 Nb Sub Ck Theyyan Madhavan (JC-143994P), 01 Jun 93.  
 Nb Sub Ck Mecheeri Aravindakashan (JC-143995X), 11 Jun 93.  
 Nb Sub Ck Chockalingam Balasubramaniam (JC-144103N), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Kader Peer Mohamed (JC-144104W), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck A Palanichamy (JC-143996A), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Rajangam Guru Ramalingam (JC-144105Y), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Alanjeri Augustin Augustin (JC-144106F), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Raghavan Ramakrishnan (JC-144107K), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Neelakantan Achari Sankaran Kutty (JC-143997H), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Raman Pillai Sivasankaran (JC-144108M), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Ramasamy Natesan (JC-144109P), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Pamarthi Rama Rao (JC-147341L), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Narayan (JC-149212K), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Ravendran Pillai (JC-145723Y), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Pankajakshan Nair (JC-144270K), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Balyar Devappa (JC-144271M), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Hebbni Seetharam Guru Rajachar (JC-145726K), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Ayyasamy Pandey (JC-149214P), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Ve'utheti Raghavan (JC-144272P), 01 Aug 93.  
 Nb Sub Ck Kuttialil Narayana Muraleedharan (JC-144273X), 01 Aug 93.  
 Nb Sub Ck Mathew Karackal Dominic (JC-144174P), 01 Aug 93.  
 Nb Sub Ck Madambath Sekharan Mehra (JC-144176A), 01 Aug 93.  
 Nb Sub Ck Raman Palaniappan (JC-147343W), 01 Aug 93.  
 Nb Sub Ck Chidambaram Radhakrishnan (JC-150680W), 01 Aug 93.  
 Nb Sub Ck Upakkaram Selvaraj (JC-149218L), 01 Aug 93.  
 Nb Sub Ck Govindasamy Dharmaraj (JC-146431A), 01 Jul 93.  
 Nb Sub Ck Ganapathi Ayyankannu (JC-147344Y), 01 Aug 93.  
 Nb Sub Ck Natarajan (JC-150681Y), 01 Aug 93.  
 Nb Sub Ck Karuppa Kounder Kanan (JC-150683K), 01 Aug 93.  
 Nb Sub Ck Abdul Mohamed Sickender (JC-147664N), 01 Aug 93.  
 Nb Sub Ck Periasamy Sudalini Muthu Subbiah (JC-149221L), 01 Aug 93.  
 Nb Sub Ck Krishnachetty Shanmugam (JC-151526K), 01 Sep 93.  
 Nb Sub Ck Gurusamy Rajamanickam (JC-151527Y), 01 Sep 93.

Nb Sub Clk Geeva Garu Yadagiri (JC-154136M), 01 Sep 93.

Nb Sub Clk Marimuthu Krishnaswamy (JC-156613F), 01 Sep 93.

To be Sub SKT

Nb Sub SKT R Gurunathan (JC-165253X), 01 Aug 93.

To be Sub GD

Nb Sub GD Ramulu Ramana (JC-159640W), 01 May 92.

Nb Sub GD Rathina Muthalai Loganathan (JC-156557N), 01 Jun 92.

Nb Sub GD Arjunan Mohan (JC-162412Y), 01 Jan 93.

Nb Sub GD Rathinasamy Sivalingam (JC-159797W), 01 Jan 93.

Nb Sub GD Palani Givinda Rajan (JC-159798Y), 01 Jan 93.

Nb Sub GD Kesavan (JC-159801N), 01 Feb 93.

Nb Sub GD Munisamy Ravikumar (JC-159891P), 01 Feb 93.

Nb Sub GD Govindasamy Teekaraman (JC-159893L), 01 Feb 93.

Nb Sub GD Veerabadrin Kuppuswamy (JC-159895W), 01 Feb 93.

Nb Sub GD Pulupulu Chander Rao (JC-159597L), 01 Feb 93.

Nb Sub GD Veli Chetty Ramachandrudu (JC-159896Y), 01 Feb 93.

Nb Sub GD Keshava Chandrachoodan (JC-163276A), 01 Mar 93.

Nb Sub GD Skariah Thomas (JC-165247K), 01 Mar 93.

Nb Sub GD M Purushothaman (JC-163263A), 01 Mar 93.

Nb Sub GD Nagan Devandandan (JC-165417A), 01 Mar 93.

Nb Sub GD Ramajiah Subramanian (JC-163266W), 01 Mar 93.

Nb Sub GD Ambrasam Kandy Lakshmanan (JC-170384M), 01 Jun 93.

Nb Sub GD Sreedharan P (JC-163271F), 01 Jun 93.

Nb Sub GD Chinnayyan Chellamony (JC-163286K), 01 Jun 93.

Nb Sub GD Arumugam Vijayan (JC-162811N), 01 Jun 93.

Nb Sub GD Shanmugam Anandaraj (JC-165427M), 01 Jun 93.

Nb Sub GD Doraiswamy Krishnan (JC-163282N), 01 Jun 93.

Nb Sub GD Thimmarayan Chandran (JC-163283W), 01 Jul 93.

Nb Sub GD Chinnappa Gounder Annamalai (JC-165442F), 01 Jul 93.

Nb Sub GD Rabilli Pandurangam (JC-170399P), 01 Jul 93.

Nb Sub GD Prabhakaran Noir (JC-165242L), 01 Jul 93.

Nb Sub GD Buddan Subramanian (JC-165429X), 01 Jul 93.

Nb Sub GD Mahimainathan Santhiyagu (JC-163259H), 01 Jul 93.

Nb Sub GD Hanna Perumal Sadasivam (JC-162914F), 01 Jul 93.

Nb Sub GD Doraisamy Thirumoorthy (JC-165443K), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Perumal Jayavelu (JC-167864L), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Kannu Manthiri Srinivasan (JC-165243N), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Chinnapaiyan Sugumar (JC-165444M), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Munisamy Somasundaram (JC-162916M), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Basappa Mallapur (JC-162917P), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Balaraman Meganathan (JC-165430N), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Munisamy Munirathinam (JC-163264L), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Rajarathinam Chandrasekharan (JC-162920P), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Sundaramurthy Selvasekaran (JC-163265N), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Prakash D (JC-162921X), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Manchala Yadaiah (JC-165245Y), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Paul Perumal Subbaiah (JC-165446X), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Marutha Padayachy A (JC-165431P), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Kannan Balaraman (JC-163267Y), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Sangaiah Ayyar (JC-165447A), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Kannappan Rathinam (JC-163268P), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Kannu Mudaliar Manoharan (JC-163269K), 01 Aug 93.

Nb Sub GD Govindasamy Ambethkar (JC-165231Y), 01 Sep 93.

Nb Sub GD Palanisamy (JC-162922A), 01 Sep 93.

Nb Sub GD Ittira Kusbhalappa Nachappa (JC-163287M), 01 Sep 93.

Nb Sub GD Govindasamy Krishnamurthy (JC-167861M), 01 Sep 93.

Nb Sub GD Muniswamy Nagaraj (JC-170356A), 01 Sep 93.

Nb Sub GD Ganapathy Periya Karuppan (JC-159881W), 01 Sep 93.

Nb Sub GD Jakkula Chidanandam (JC-159650A), 01 Sep 93.

Nb Sub GD Sadanandan Kizhakke Veetil (JC-163273M), 01 Sep 93.

Nb Sub GD Naliasamy Kesavarajan (JC-165448H), 01 Sep 93.

Nb Sub GD Manickam KV (JC-163289X), 01 Sep 93.

Nb Sub GD Arulappan Lourdasamy (JC-165450A), 01 Oct 93.

Nb Sub GD Mohammad Hussain Muhammad Hassain (JC-163274P), 01 Oct 93.

Nb Sub GD Balasundaram Ponnambalam (JC-163275X), 01 Oct 93.

Nb Sub GD Bhaskaran CR (JC-165248M), 01 Oct 93.

Nb Sub GD Chinnaiya Alavandar (JC-166867M), 01 Oct 93.

Nb Sub GD Madavan Achuthian Kutty (JC-165249P), 01 Oct 93.

Nb Sub GD Saminathan Shekar (JC-170401F), 01 Oct 93.

Nb Sub GD Kannappan Vinayagam (JC-166874H), 01 Oct 93.

Nb Sub GD Sankar Gounder Natarajan (JC-166868P), 01 Oct 93.

N bSub GD Vithal Nivruthi Patil (JC-166869X), 01st Oct 93.

Nb Sub GD A Lawarance (JC-166870M), 01st Oct 93.

Nb Sub GD Yasani Anantha Reddy (JC-166875L), 01st Oct 93.

Nb Sub GD Raju Subramani (JC-167862A), 01st Oct 93.

Nb Sub GD Sidambaram Seeni (JC-166871P), 01st Oct 93.

Nb Sub GD Ponraiah Muthuvali (JC-166877W), 01st Oct 93.

Nb Sub GD Rajendran (JC-166878Y), 01st Oct 93.

#### BOMBAY ENGINEER GROUP

##### To be Subedar Major Cik (GD)

Sub (Cik GD) Shyamlal Sharma (JC-124964H), 01st Oct 1993.

Sub (Cik GD) Harhangi Ram (JC-124378A), 1st Nov 1993.

Sub (Cik GD) Kamalakar Naik (JC-124516W), 1st Dec 1993.

Sub (Cik GD) K Narayanan Nair (JC-123073N), 1st Dec 1993.

Sub (Cik GD) Bhimrao Pandurang Ingale (JC-124396H), 1st Dec 1993.

Sub (Cik GD) Kisan Narkhede (JC-124389M), 1st Dec 1993.

Sub (Cik GD) Sethumadhavan PC (JC-123115P), 1st Dec 1993.

##### To be Subedar Major (GD)

Sub (GD) Shamsher Singh (JC-126244A), 1st Oct 1993.

Sub (GD) Baba Uttakar (JC-126249Y), 1st Oct 1993.

Sub (GD) Sahabrao Darekar (JC-126239P), 1st Nov 1993.

Sub (GD) Pandurang Padale (JC-126255M), 1st Nov 1993.

Sub (GD) Gurdip Singh (JC-130573N), 1st Dec 1993.

##### To be Subedar Cik (GD)

Nb Sub (Cik GD) Harnek Singh (JC-162372H), 1st Jul 1993.

Nb Sub (Cik GD) Janardhanan Pillai PK (JC-166909N), 1st Aug 1993.

Nb Sub (Cik GD) Dalvinder Singh (JC-159902F), 1st Aug 1993.

Nb Sub (Cik GD) Gian Singh (JC-160359A), 1st Aug 1993.

Nb Sub (Cik GD) Kartar Singh (JC-162362Y), 1st Sep 1993.

Nb Sub (Cik GD) Vithu Yesare (JC-162366F), 1st Sep 1993.

Nb Sub (Cik GD) Jeet Singh (JC-160362A), 1st Sep 1993.

Nb Sub (Cik GD) Ajaib Singh (JC-162371A), 1st Sep 1993.

Nb Sub (Cik GD) Ram Singh (JC-152369H), 1st Sep 1993.

Nb Sub (Cik GD) Thomas MM (JC-162373L), 1st Sep 1993.

Nb Sub (Cik GD) Durg Singh Thakur (JC-138799N), 1st Sep 1993.

Nb Sub (Cik GD) Abdul Basit Khan (JC-142182P), 1st Sep 1993.

Nb Sub (Cik GD) KC Janardhanan (JC-162358W), 1st Sep 1993.

Nb Sub (Cik GD) Mohd Safeeqe Khan (JC-162375W), 1st Sep 1993.

Nb Sub (Cik GD) Mohan Lal Sain (JC-162185W), 1st Sep 1993.

Nb Sub (Cik GD) Shiwaji Sakhare (JC-160363H), 1st Sep 1993.

Nb Sub (Cik GD) Darbara Singh (JC-162376Y), 1st Oct 1993.

Nb Sub (Cik GD) Mohinder Singh (JC-162377F), 1st Oct 1993.

Nb Sub (Cik GD) Lankush Singh (JC-163186Y), 1st Oct 1993.

Nb Sub (Cik GD) Sohan Singh (JC-162380F), 1st Oct 1993.

Nb Sub (Cik GD) Krishan Singh Thaharan (JC-163187F), 1st Oct 1993.

Nb Sub (Cik GD) Thomas KT (JC-162379M), 1st Oct 1993.

Nb Sub (Cik GD) Mohammad Hafiz Khan (JC-162381K), 1st Oct 1993.

Nb Sub (Cik GD) Puran Singh (JC-163188K), 1st Oct 1993.

Nb Sub (Cik GD) Abdul Rehman Khan (JC-165408F), 1st Oct 1993.

Nb Sub (Cik GD) MK Prabhakaran (JC-163194X), 1st Oct 1993.

Nb Sub (Cik GD) Sohan Singh (JC-166911L), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Shrikant Gavade (JC-165409K), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Vishnu Chimane (JC-163193P), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Pritam Singh (JC-163191K), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Atma Singh (JC-163192M), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Sukhdev Singh Bains (JC-163196H), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Shrikrishna Ramadasi (JC-163200A), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Ujjagar Singh (JC-163199W), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Mohar Singh Sharma (JC-163197L), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Thomas PD (JC-166921P), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Babu Singh (JC-163202L), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Kartar Singh (JC-165412K), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Mohinder Singh (JC-165411K), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Tarlok Singh (JC-163203N), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Karimuddin Khan (JC-165410Y), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Shio Mangal Prasad (JC-165414P), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Hussain Khan (JC-166912N), 1st Nov 1993.

Nb Sub (Cik GD) Harish Chandra Pathak (JC-163205F), 1st Dec 1993.

Nb Sub (Cik GD) Karam Singh (JC-165415X), 1st Dec 1993.

Nb Sub (Clk GD) Gurdev Singh (JC-166913W), 1st Dec 1993.

Nb Sub (Clk GD) Dattatraya Sonaji Lahore (JC-167974A), 1st Dec 1993.

Nb Sub (Clk GD) Deepak Zanje (JC-166916K), 1st Dec 1993.

Nb Sub (Clk GD) Sohan Singh (JC-166917M), 1st Dec 1993.

Nb Sub (Clk GD) Sayed Sibte Haider (JC-174595M), 1st Dec 1993.

Nb Sub (Clk GD) Surjan Singh (JC-166920M), 1st Dec 1993.

Nb Sub (Clk GD) Radhey Shyam (JC-197289K), 1st Dec 1993.

Nb Sub (Clk GD) Ajit Singh (166922X), 1st Dec 1993.

Nb Sub (Clk GD) Mukhtiar Singh Shidu (JC-197288F), 1st Dec 1993.

Nb Sub (Clk GD) Harmitter Sarup Singh (JC-167976L), 1st Dec 1993.

To be Subedar (GD)

Nb Sub (GD) Narayan Lad (JC-162443Y), 1st Jul 1993.

Nb Sub (GD) Mahadev Mahamunkar (JC-160383W), 1st Jul 1993.

Nb Sub (GD) Ram Charan (JC-160393A), 1st Sep 1993.

Nb Sub (GD) Santokh Singh (JC-162449A), 1st Sep 1993.

Nb Sub (GD) Waman (JC-159491N), 1st Sep 1993.

Nb Sub (GD) Mehar Singh (JC-163175M), 1st Sep 1993.

Nb Sub (GD) Sewa Singh (JC-148880N), 1st Sep 1993.

Nb Sub (GD) Raghunath Phadke (JC-156533K), 1st Sep 1993.

Nb Sub (GD) Jagir Singh (JC-162880Y), 1st Sep 1993.

Nb Sub (GD) Jairam Matkar (JC-160397W), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Ram Singh (JC-159492W), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Ajaib Singh Dhillon (JC-159495K), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Shangara Singh (JC-159496M), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Charan Singh (JC-159498X), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Baliram Gole (JC-159499A), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Mohd Rasheed Sayed (JC-159952M), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Amarjit Singh (JC-162885X), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Patang Khape (JC-159843A), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Mohinder Singh (JC-159500K), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Darshan Singh (JC-174635H), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Swinder Singh (JC-163168W), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Bakhtawar Singh (JC-159940X), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Mubarak Hussain Ansari (JC-163164A), 1st Oct 1993.

Nb Sub (GD) Aziz Khan (JC-165345K), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Gurpal Singh (JC-166902K), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Raghbir Singh (JC-167945L), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Rup Singh (JC-163151H), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Chandrakant Chorge (JC-163163X), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Chandrika Prasad (JC-163154W), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Shangara Singh (JC-153144M), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Hari Singh (JC-163161M), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Des Raj (JC-163172Y), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Vishwanath Prasad (JC-163152L), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Anandrao Bhosale (JC-163153N), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Sucha Singh (JC-163173F), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Jaswant Singh (JC-163159P), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Sadhu Singh (JC-163146X), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Chandrakant Shinde (JC-163147A), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Balwant Singh (JC-163176P), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Jagir Singh (JC-163148H), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Sangara Singh (JC-165333P), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Madhukar Kalamkar (JC-165526Y), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Dattu Chavan (JC-163165H), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Piru Khan (JC-165325W), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Dalbir Singh (JC-163178A), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Niwas Singh (JC-163174K), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Narayan Kadam (JC-163166L), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Mohd Anwar (JC-163169Y), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Kulwant Singh (JC-163160K), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Amar Singh (JC-163167), 1st Nov 1993.

Nb Sub (GD) Amarjit Singh (JC-163170N), 1st Dec 1993.

Nb Sub (GD) Deep Singh Bangar (JC-167961H), 1st Dec 1993.

Nb Sub (GD) Jasbir Singh (JC-165329M), 1st Dec 1993.

Nb Sub (GD) Ram Bhosle (JC-163180X), 1st Dec 1993.  
 Nb Sub (GD) Sucha Singh (JC-165341N), 1st Dec 1993.  
 Nb Sub (GD) Shantaram Salunke (JC-165338M), 1st Dec 1993.  
 Nb Sub (GD) Balbir Singh (JC-165339W), 1st Dec 1993.  
 Nb Sub (GD) Waman Nikam (JC-165337L), 1st Dec 1993.  
 Nb Sub (GD) Milkha Singh (JC-170423A), 1st Dec 1993.  
 Nb Sub (GD) Pal Singh (JC-165334X), 1st Dec 1993.  
 Nb Sub (GD) Sakharan Pawar (JC-165335A), 1st Dec 1993.  
 Nb Sub (GD) Pandurang Pawar (JC-165336H), 1st Dec 1993.  
 Nb Sub (GD) Jang Singh (JC-166896F), 1st Dec 1993.

To be Subedar (RT)

Nb Sub (RT) Tirath Singh (JC-78073Y), 1st Jun 1993.  
 Nb Sub (RT) Amar Singh (JC-78403), 1st Jun 1993.

D. R. DHANKANI, Under Secy.

#### NATIONAL CADET CORPS

No. 450, dated 12th April 1994.—The President is pleased to promote the following officers to the selection rank of Lt Col in accordance with Govt. of India letter No. 5431/Promotion DGNCC/MS(B)/818/A/D(GS-VI) dated 07 Apr 81. Their scale of pay will be regulated as per Govt. of India, Min of Defence, letter No. 5431/Promotion/DGNCC/MS(B)/1257 A/D(GS-VI) dated 03 June 1981. Their seniority for promotion and pay in permanent cadre will be as per Min of Defence letter No. 5110/81/DGNCC/Per (A)/1117/D-(GS-VI) dated 13 May 1981.

#### NCC WHOLE TIME PERMANENT COMMISSION

##### OFFICERS (ARMY WING)

(Maj to be Lt Col by selection)

AA Aphraim (NCC/PC-12103), 01 Dec 93.  
 YP Pokhriyal (NCC/PC-12101), 08 Dec 93.  
 RK Billa (NCC/PC-12104), 21 Jan 94.

PP Singh (NCC/PC-11790), Date of Promotion—18-09-92.  
 Date of Pay & Allowances—16-10-93.

TS SIAL,  
 Dy Dir Gen (P&F).

##### (NAVY BRANCH)

No. 431, dated the 28th April 1994.—The President is pleased to make the following promotion in the Engineering Branch (Corps Naval Constructors) of the Indian Navy under the provisions of Ministry of Defence letter No. NC-3066/NHQ/3182/D-(N-II), dated 10 Jun 77 & Navy order 127/79 :—

#### PERMANENT COMMISSION

Ag Sub Lt to bc Sub Lt	Sub Lt ta bc Lt	Date of Promotion/ Seniority from (for Promotion only)	Date of Promotion
Vineet Tiwari (41378-R)		02 Sep. 89	17 Mar 90
		02 Sep 88	
Tomar Diwakar (41422-R)		07 Aug 90	07 Feb 91
		07 Aug 89	

SC MINOCHA,

Offg Dy Director of Personnel (JOA&R).

#### AIR BRANCH

No. 432, dated 26th April 84.—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

#### INDIAN AIR FORCE

##### LGS BRANCH

Substantive Air Cmde to be Acting AVM  
 KK Jain (Retd.) (4176), I.GS—05-7-84.

##### AE BRANCH

Wg Cdr to be substantive Gp Capt.

Date of A/Rank

V Durbha, VSM (11233) AE(L), 26-8-91—26-8-91.

(His name will appear between Gp Capt T Ramanujam (10695) AE(L) and JR Bubber (10727) AE(L) in the gradation list).

Chandra Mohan (11214) AE (L), 3-2-92, 3-2-92.

(His name will appear between Gp Capts Raj Gopal (10797) AE(L) and S. P Tiwari (10691) AE(L) in the gradation list).

J W R Chinniah (11463) AE(L), 4-8-92, 4-8-92, 1-8-92 (NS).

S Singh (11489) AE(L), 4-8-92, 4-8-92, 1-8-92 (NS).

S K Soni (11477) (AE(L), 4-8-92, 4-8-92, 1-8-92 (NS).

R K Sharma (11496) AE(L), 4-8-92, 4-8-92, 1-8-92 (NS).

T T Job (11507) AE(M), 4-8-92, 4-8-92, 1-8-92 (NS).

A K Chakravarty (11501) AE(M), 4-8-92, 4-8-92, 1-8-92 (NS).

S K Chakravarti (11487) AE(L), 4-8-92, 4-8-92, 1-8-92 (NS).

A Agarwal (11502) AE(M), 4-8-92, 4-8-92, 1-8-92 (NS).

Ambresh Kumar (11547) (AE(L), 4-8-92, 4-8-92, 1-8-92 (NS).

N R Gopalakrishnan (11558) AE(L), 4-8-92, 4-8-92, 1-8-92 (NS).

S S Lahiri (11568) AE(L), 4-8-92, 4-8-92, 1-8-92 (NS).

D K Hegde (11743) AE(L), 4-8-92, 4-8-92, 1-8-92 (NS).

I K Kapur (11185) AE(L), 4-8-92, 4-8-92, 1-8-92 (NS).

(The names of Gp Capts from J W R Chinniah (11463) AE(L) to I K Kapur (11185) AE(L) mentioned above will appear between Gp Capts D K Chanda (11072) AE(M) and H G R Dasari (7913) AE(L) in the Gradation list).



Zakerya Bhai (Retd) wef 15-5-93 (9948) AE(L), 3-3-92, 9-8-92.

G. S Murty (11129) AE(L), 11-1-93, 11-1-93.

Munari Lal (11222) (AF) (L), 15-3-93, 15-3-93.

To be Substantive Wg Cdr (Select)

A K Chakravarty (11501) AE(M), 01-8-88.

(The officer's name will appear below the name of Wg Cdr R C Kakar (11481) AE(L) in combined seniority list).

J C Bhasin (13073) AE(M), 11-3-91.

The officer's name will appear below the name of Wg Cdr N S Athrey (12606) AE(L) in combined seniority list).

R K Panda (12886) AE(M), 11-3-91.

(His name will appear between Wg Cdrs SS Bist (12865) AE(L) and N K Johri (12816) AE(M) in the gradation list).

S K Sharma (12857) AE(L), 11-3-91.

(The officer's name will appear below the name of Wg Cdr Savari Raj (12858) AE(L) in combined seniority list).

R P Singh (12639) AE(M), 11-3-91.

(His name will appear below the name of Wg Cdr S S Sharma (12600) AE(L) in combined seniority list).

S P Jaggi (12692) AE(L), 02-5-91.

Bharat Sherbir Singh (12291) AE(L), 02-5-91.

R S Dhaliwal (12454) AE(L), 02-5-91.

S S Nannar (12647) AE(M), 01-6-91.

G L Chawla (13074) AE(M), 01-6-91.

A B Paranjpye (12625) AE(M), 01-6-91.

Amarnath Rai (12638) AE(M), 01-6-91.

S P Kaushik (12579) AE(M), 01-7-91.

K B Purohit (12649) AE(M), 01-7-91.

D K Bhasin (12588) AE(L), 01-8-91.

V B Purang (12635) AE(M), 01-8-91.

Sudharshan Kumar (12648) AE(L), 01-8-91.

S K Jaimini (12832) AE(L), 01-8-91.

I N S Rao (12798) AE(M), 01-8-91.

A V Shankar (13211) AE(L), 01-8-91.

S K Sharma (12818) AE(M), 26-8-91.

A. K. Sharma (12836) AE(M), 26-8-91.

A R Magu (12876) AE(M), 26-8-91.

Onkar Bhattacharya (12823) AE(M), 26-8-91.

B K Nandy (12842) AE(L), 26-8-91.

S M Mehra (12884) AE(M), 26-8-91.

R Yadav (12809) AE(M), 26-8-91.

R Bhadwar (12828) AE(L), 26-8-91.

J S Bajwa (12831) AE(L), 26-8-91.

R Kumar (12813) AE(M), 26-8-91.

A B Punjabi (12885) AE(M), 26-8-91.

T P N Singh (12800) AE(M), 26-8-91.

Sajjad Rahim (13031) AE(M), 01-9-91.

S C Diwan (13023) AE(M), 01-9-91.

S Dhar (13027) AE(M), 01-9-91.

P S Karve (13036) AE(L), 01-9-91.

N Kaul (13166) AE(M), 08-9-91.

R M Sethi (13181) AE(L), 01-10-91.

R S Tarnacha (13167) AE(M), 01-10-91.

S Gowrishankar (13171) AE(M), 01-10-91.

D Kapur (13185) AE(L), 01-10-91.

S S Dhami (13459) AE(M), 01-10-91.

R L Koul (13200) AE(L), 01-11-91.

R L Kamath (13183) AE(L), 01-11-91.

R S Sandhu (13174) AE(M), 01-11-91.

S S Deopa (13187) AE(L), 01-11-91.

S M Tatwawadi (13195) AE(L), 01-11-91.

A B Punjabi (12885) AE(M), 26-9-91.

A K Sanyal (13189) AE(L), 01-12-91.

G P S Dua (13306) AE(L), 01-1-92.

P S Sandhu (13326) AE(L), 01-1-92.

M S Giri (13283) AE(L), 01-2-92.

G S Bakshi (13294) AE(L), 01-2-92.

A K Handa (13286) AE(L), 01-2-92.

P S Gill (13325) AE(L), 01-2-92.

P K Dutt (13324) AE(M), 01-3-92.

P K Sharda (13281) AE(L), 01-3-92.

N Verma (13282) AE(L), 01-3-92.

P K Narendran (13310) AE(L), 01-3-92.

M M Chaturvedi (13313) AE(L), 01-8-92.

K Singh (13302) AE(L), 01-8-92.

K. N. SINGH,  
Asstt. Director of Personnel (Officers)-2(A)

#### ARMY BRANCH

No. 433, dated 22nd April 1994.—The President is pleased to retire the undermentioned officer on attaining the age of superannuation :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Brig N Chatterjee (MR-1732) AMC/PC, 31-1-90 (AN).

Col. K C Haldar (MR-2151) AMC/PC, 31-1-92 (AN).

Col P K Mathur (MR-1808), AMC/PC, 30-9-1992 (AN).

Col C K Kapur (MR-2119) AMC/PC, 31-12-1992 (AN).

Lt Col A S Bhatnagar (MR-2106) AMC/PC, 30-11-91 (AN).

Lt Col J C Jain (MR-1661) AMC/PC, 31-12-90 (AN).  
 Lt Col S K Verma (MR-1910) AMC/PC, 30-6-1993 (AN).  
 Lt Col I T Lobo (MR-2004) AMC/PC, 30-11-1990 (AN).

S K ADAVAL, AVM  
 Addl DGAFMS

#### ARMY BRANCH

No. 434, dated 22nd April 1994.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service at his own request for compassionate reasons and transfer him to Regular Reserve of officers (Class 'X') :—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

Wg Cdr A Joseph (MR-2698) (12362) AMC/PC, 5-4-93 (AN).

Gp Capt M B Dikshit (MR-2431) (9967) AMC/PC, 30-6-93 (AN).

Wg Cdr S C B Bhatia (MR-2955) (12914) AMC/PC 31-12-92 (AN).

Wg Cdr P S. Randhawa (MR-2620) (12074) AMC/PC 31-10-93 (AN).

Wg Cdr A Roychoudhury (MR-2741) (11268) AMC/PC, 31-10-93 (AN).

Lt. Col R B Gupta (MR-2373) AMC/PC, 11-5-90 (AN).

Lt Col V B Mahendrakar (MR-2368) AMC/PC, 17-12-90 (AN).

Lt Col (Mrs) M Oberoi, VSM (MR-2286) AMC/PC, 30-11-93 (AN).

Col V K Madan (MR-2516) AMC/PC, 19-10-93 (AN).

S. K. ADAVAL, AVM, Addl. DG AFMS